

वर्ष 2024-25 के लिए स्पाइसेस बोर्ड
की लेखापरीक्षा रिपोर्ट
**AUDIT REPORT ON SPICES BOARD
FOR THE YEAR 2024-25**



स्पाइसेस बोर्ड
भारत

स्पाइसेस बोर्ड भारत
SPICES BOARD INDIA

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
Ministry of Commerce & Industry
भारत सरकार
Government of India
कोचिन / Cochin – 682 025



वर्ष 2024-25

केलिए

स्पाइसेस बोर्ड

की लेखा-परीक्षा

रिपोर्ट



अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	क-छ
2	तुलन-पत्र	1
3	आय-व्यय लेखा	2-3
4	प्राप्ति और अदायगी लेखा	4-5
5	तुलन पत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ	6-20
6	आय-व्यय लेखों का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ	21-28
7	प्राप्ति और अदायगी लेखों का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ	29-48
8	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व लेखों पर टिप्पणियाँ	49-54



क

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्पाइसेस बोर्ड के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की राय

सापेक्ष राय

हम ने स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 24 के साथ पठित नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन स्पाइसेस बोर्ड के वित्तीय विवरणियाँ, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और अदायगी लेखा और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सारांश सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों, की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में बोर्ड के मुख्यालय और 82 यूनिटों के लेखे शामिल हैं।

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखाकरण नीतियों का अनुपाल, लेखाकरण मानकों एवं प्रकटीकरण-मानकों आदि से संबंधित लेखाकरण प्रणाली पर भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियाँ निहित हैं। विधि, नियम व विनियम (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता व निष्पादन पहलू आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन संबंधी वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ, निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के ज़रिए अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।

हमारी राय में, हमारी रिपोर्ट की सापेक्ष राय के लिए आधार खंड में वर्णित मामले को छोड़कर, जो स्पाइसेस बोर्ड के वित्तीय विवरण साथ दिए गए हैं, जिसे पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित लेखांकन नीतियों और उन पर टिप्पणियाँ और अन्य मामलों के साथ पढ़े गए हैं, 31 मार्च, 2025 तक स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति और (या) स्वायत्त निकाय पर लागू लेखों में एक समान प्रारूप के अनुसार उस समय समाप्त वर्ष के लिए इसके वित्तीय प्रदर्शन का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं।

सापेक्ष राय के लिए आधार

- i) उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि/सहायता अनुदान से प्राप्त अचल संपत्तियों पर मूल्यहास को उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि/संबंधित अनुदान में समायोजन/उपयोग के रूप में मूल्यहास प्रभार को मानने के बजाय आय और व्यय लेखों में व्यय के रूप में दर्ज किया जा रहा था। इस प्रकार, उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि का संतुलन, वर्ष के लिए घाटा और समग्र/पूजी निधि को लेखों में सही ढंग से नहीं बताया गया। हालांकि, उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि से प्राप्त संपत्तियों और सहायता अनुदान से प्राप्त संपत्तियों के विवरण की अनुपलब्धता के कारण, लेखापरीक्षा मूल्यहास प्रभार के गलत लेखांकन के वित्तीय प्रभाव को निर्धारित नहीं कर सकी।
- ii) उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियाँ विशिष्ट उद्देश्य के लिए होती हैं। एएसआईडीई योजना के अंतर्गत मसाला पार्कों के लिए पिछले वर्षों में ₹ 115.83 करोड़ की निधि का उपयोग करके परिसंपत्तियाँ खरीदी गई थीं, लेकिन परिसंपत्तियों का उपयोग धर्मस्व निधियों के विरुद्ध व्यय नहीं किया गया।



ख

iii) इसके अलावा, चालू वर्ष के लिए ₹ 24.94 करोड़ की वार्षिक पेंशन देनदारियों और गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं (क्यूईएल) के रखरखाव और अनुरक्षण के लिए किए गए ₹ 9.34 करोड़ के व्यय को भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का उपयोग करके पूरा किया गया, हालांकि बोर्ड के पास पेंशन और क्यूईएल के रखरखाव और अनुरक्षण के लिए उद्दिष्ट निधि है। अन्य उदाहरणों में, वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 12 करोड़ के विश्लेषणात्मक शुल्क को आय और व्यय विवरण में आय के रूप में लेखा किए बिना सीधे ही उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियों अर्थात् पेंशन निधि (₹ 10 करोड़) और 'मसालों के निर्यात में गुणवत्ता मानक' (₹ 2.00 करोड़) (अनुसूची 57 के नोट 1-लेखा पर नोट्स) में अंतरित कर दिया गया।

पिछले 2021-22, 2022-23 और 2023-24 वर्षों में इस विषय में लगातार की गई टिप्पणियों के बावजूद स्पाइसेस बोर्ड ने कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया है।

खंड अ 1.1

iv) स्पाइसेस बोर्ड ने कर्मचारी संबंधी देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन किया और 31-03-2021 तक 348.72 करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंचा, जिसके लिए उसने 31-03-2025 तक 325.31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जैसा कि नीचे निर्धारित है:

(करोड़ रुपए में)

	पेंशन	उपदान	छुटी नकदीकरण	कुल
जैसा कि 31-03-2021 को है बीमांकिक मूल्य	319.07	18.54	11.10	348.72
जैसा कि 31-03-2025 को है प्रावधान	272.21	29.70	23.40	325.31
31-03-2021 के मूल्यांकन के संबंध में कमी (अधिकता)	46.86	(11.16)	(12.30)	23.41

बीमांकिक देयता का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप कर्मचारी लाभ और घाटे के लिए प्रावधान वर्ष के लिए ₹ 23.41 करोड़ (निवल) कम दर्शाए गए हैं। इसके अलावा, लेखा मानक 15 (पैरा 58) के अनुसार, परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का विस्तृत बीमांकिक मूल्यांकन तीन वर्ष से अधिक के अंतराल पर नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, अंतिम बीमांकिक मूल्यांकन वर्ष 2020-21 में किया गया था, अर्थात् 31-03-2025 तक अवधि तीन वर्ष से अधिक हो गई है।

खंड अ 1.2

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा विनियमों/मानकों/मैनुअलों/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन-नोटों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार लेखापरीक्षा की है। हमारी जिम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण



ग

हेतु लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व" खण्ड में दिया गया है। वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, हम स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ भी पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षण साक्ष्य हमारी सापेक्ष राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

स्पाइसेस बोर्ड का शासन निकाय, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखे का एकसमान प्रारूप/स्वायत्त निकायों के लिए लागू प्रारूप/लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति तथा आंतरिक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि प्रबंधन यह निर्धारित करता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी को सक्षम बनाना आवश्यक है, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत बयानों से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत बयानों से मुक्त है या नहीं, तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा-परीक्षण विनियमों/मानकों/मैन्युअलों/दिशा-निर्देशों/मार्गदर्शन-टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार हमारी राय सहित लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के लिए और की ओर से

S. Vellianthi

(एस. वेल्लियनगिरी)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

स्थान : चेन्नई

तिथि : 17-10-2025



घ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्पाइसेस बोर्ड के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अ	तुलनपत्र
अ.1	देनदारियाँ
अ.1.1	उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि- ₹339.16 करोड़ (अनुसूची 3)
	<p>i) उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि/सहायता अनुदान से प्राप्त अचल संपत्तियों पर मूल्यहास को उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि/संबंधित अनुदान में समायोजन/उपयोग के रूप में मूल्यहास प्रभार को मानने के बजाय आय और व्यय खाते में व्यय के रूप में दर्ज किया जा रहा था। इस प्रकार, उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि का संतुलन, वर्ष के लिए घाटा और समग्र/पूँजी निधि को खातों में सही ढंग से नहीं बताया गया। हालांकि, उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि से प्राप्त संपत्तियों और सहायता अनुदान से प्राप्त संपत्तियों के विवरण की अनुपलब्धता के कारण, लेखापरीक्षा मूल्यहास प्रभार के गलत लेखांकन के वित्तीय प्रभाव को निर्धारित नहीं कर सकी।</p> <p>ii) उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियाँ विशिष्ट उद्देश्य के लिए होती हैं। एएसआईडीई योजना के अंतर्गत मसाला पार्कों के लिए पिछले वर्षों में ₹ 115.83 करोड़ की निधि का उपयोग करके परिसंपत्तियाँ खरीदी गई थीं, लेकिन परिसंपत्तियों का उपयोग धर्मस्व निधियों के विरुद्ध व्यय नहीं किया गया।</p> <p>iii) इसके अलावा, चालू वर्ष के लिए ₹ 24.94 करोड़ की वार्षिक पेंशन देनदारियों और गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं (क्यूईएल) के रखरखाव और अनुरक्षण के लिए किए गए ₹ 9.34 करोड़ के व्यय को भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का उपयोग करके पूरा किया गया, हालांकि बोर्ड के पास पेंशन और क्यूईएल के रखरखाव और अनुरक्षण के लिए उद्दिष्ट निधि है। अन्य उदाहरणों में, वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 12 करोड़ के विश्लेषणात्मक शुल्क को आय और व्यय विवरण में आय के रूप में लेखा किए बिना सीधे ही उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियों अर्थात् पेंशन निधि (₹ 10 करोड़) और 'मसालों के निर्यात में गुणवत्ता मानक' (₹ 2.00 करोड़) (अनुसूची 57 के नोट 1-लेखा पर नोट्स) में अंतरित कर दिया गया।</p> <p>पिछले 2021-22, 2022-23 और 2023-24 वर्षों में इस विषय में लगातार की गई टिप्पणियों के बावजूद स्पाइसेस बोर्ड ने कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया है।</p>
अ.1.2	चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान - प्रावधान: ₹ 325.37 करोड़ (अनुसूची 7ख)



ड

<p>(i) स्पाइसेस बोर्ड ने कर्मचारी संबंधी देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन किया और 31-03-2021 तक ₹ 348.72 करोड़ के आंकड़े पर पहुंचा, जिसके लिए उसने 31-03-2025 तक ₹ 325.31 करोड़ का प्रावधान किया है, जैसा कि नीचे निर्धारित है:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>पेंशन</th> <th>उपदान</th> <th>छुट्टी नकदीकरण</th> <th>कुल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>जैसा कि 31-03-2021 को है बीमांकिक मूल्य</td> <td>319.07</td> <td>18.54</td> <td>11.10</td> <td>348.72</td> </tr> <tr> <td>जैसा कि 31-03-2025 को है प्रावधान</td> <td>272.21</td> <td>29.70</td> <td>23.40</td> <td>325.31</td> </tr> <tr> <td>31-03-2021 के मूल्यांकन के संबंध में कमी (अधिकता)</td> <td>46.86</td> <td>(11.16)</td> <td>(12.30)</td> <td>23.41</td> </tr> </tbody> </table> <p>बीमांकिक देयता का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप कर्मचारी लाभ और घाटे के लिए प्रावधान वर्ष के लिए ₹ 23.41 करोड़ (निवल) कम दर्शाए गए हैं।</p> <p>(ii) लेखा मानक 15 (पैरा 58) के अनुसार, परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का विस्तृत बीमांकिक मूल्यांकन तीन वर्ष से अधिक के अंतराल पर नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, अंतिम बीमांकिक मूल्यांकन वर्ष 2020-21 में किया गया था, अर्थात् 31-03-2025 तक अवधि तीन वर्ष से अधिक हो गई है।</p>						पेंशन	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	कुल	जैसा कि 31-03-2021 को है बीमांकिक मूल्य	319.07	18.54	11.10	348.72	जैसा कि 31-03-2025 को है प्रावधान	272.21	29.70	23.40	325.31	31-03-2021 के मूल्यांकन के संबंध में कमी (अधिकता)	46.86	(11.16)	(12.30)	23.41
	पेंशन	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	कुल																				
जैसा कि 31-03-2021 को है बीमांकिक मूल्य	319.07	18.54	11.10	348.72																				
जैसा कि 31-03-2025 को है प्रावधान	272.21	29.70	23.40	325.31																				
31-03-2021 के मूल्यांकन के संबंध में कमी (अधिकता)	46.86	(11.16)	(12.30)	23.41																				
अ.2	परिसंपत्तियाँ																							
अ.2.1	<p>चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि</p> <p>चालू परिसंपत्तियाँ- ₹316.41 करोड़ (अनुसूची - 11क)</p> <p>उपरोक्त में स्पाइसेस बोर्ड की पट्टे पर दी गई सुविधाओं के लिए फ्लेवरिट स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड (एफ एस टी एल) से ₹0.87 करोड़ की प्राप्त होने के लिए शेष संचित किराया शामिल नहीं हैं। इस प्रकार, चालू परिसंपत्तियों और समग्र/पूंजी निधि को ₹0.87 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। इस मुद्दे को वर्ष 2023-24 की पृथक लेखापरीक्षक रिपोर्ट में भी स्पष्ट किया गया था।</p>																							
अ.2.2	<p>चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि</p> <p>ऋण, अग्रिम : ₹26.72 करोड़ (अनुसूची 11ख)</p> <p>उपरोक्त में वर्ष 2017-18 से आगे बढ़ाए जा रहे ₹6.72 करोड़ की राशि के लंबे समय से लंबित अग्रिम शामिल हैं। बोर्ड इन राशियों की पहचान करने और उन्हें वसूलने में असमर्थ रहा, क्योंकि अग्रिमों का ब्यौरा पता नहीं चल पाया है। समय बीतने और प्रासंगिक अभिलेखों की अनुपस्थिति को देखते हुए, खातों में अग्रिमों के लिए प्रावधान बनाया जाना चाहिए था।</p> <p>प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए अग्रिमों की अत्युक्ति तथा घाटे का ₹6.72 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है। इस मुद्दे को वर्ष 2023-24 की पृथक लेखापरीक्षक रिपोर्ट में भी सूचित किया गया था।</p>																							



च

आ.	आय और व्यय लेखा
आ.1	आय
आ.1.1	<p>भारत सरकार से अनुदान - प्लान - ₹ 130.00 करोड़ (अनुसूची 13)</p> <p>उपरोक्त में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त ₹ 1.01 करोड़ (पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु एक करोड़ रुपये का अनुदान, अन्य व्यय) तथा ₹ 0.01 करोड़ (पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान-उत्तर पूर्व) का अनुदान शामिल है।</p> <p>बोर्ड ने लेखांकन मानक 12-सरकारी अनुदान के पैरा 8 के अनुसार उपरोक्त अनुदानों का लेखा करने के बजाय, अनुदान राशि को आय और व्यय में आय के रूप में दर्ज किया।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2025 तक भारत सरकार की योजना सहायता अनुदान राशि को आय और व्यय खाते में अधिक दर्शाया गया है, घाटे को कम दर्शाया गया है और उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि को ₹ 1.01 करोड़ कम दर्शाया गया है।</p>
इ	प्राप्ति और अदायगी लेखा - शून्य
ई	लेखांकन नीतियाँ - शून्य
उ	सामान्य - शून्य
ऊ	<p>प्रबंधन पत्र</p> <p>जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।</p>
ऋ	<p>(i) आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता</p> <p>बैंकों के चालू खातों के अधीन वर्गीकृत 85 खातों में से, शेष पुष्टीकरण के 41 मामले (₹ 10,56,60,233.60) ऐसे थे जिनमें यह नहीं बताया गया था कि यह चालू खाता है या बचत बैंक खाता। शेष पुष्टीकरण के 11 मामले (₹ 95,55,445 की राशि) बचत खाते के रूप में दिखाए गए हैं। जैसे कि 31 मार्च, 2025, को है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हैदराबाद शाखा की बही शेष ₹ 53,083 रहा जबकि बैंक पुष्टीकरण के अनुसार शेष ₹ 8,377 था। शेष राशि का समाधान नहीं किया गया था।</p> <p>(ii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता</p> <p>लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार, वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान स्पाइसेस बोर्ड के 82 शाखा कार्यालयों तथा मुख्यालय में से किसी में भी आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं चलाई गई है। इस मुद्दे को भी वर्ष 2023-24 की पृथक लेखापरीक्षक रिपोर्ट में सूचित किया गया था।</p> <p>(iii) स्थिर परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली</p> <p>बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के दौरान अपनी सभी 83 इकाइयों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है।</p>



छ

	<p>(iv) मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के दौरान मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन और मूल्यांकन किया है।</p> <p>(v) सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता बोर्ड ने जी एस टी, टीडीएस, सी पी एफ आदि जैसे सभी सांविधिक देयों को नियमित रूप से जमा किया है।</p> <p>(vi) इकाई के कामकाज से संबंधित अन्य मामले - लागू नहीं।</p>
ए	<p>सहायता अनुदान</p> <p>सहायता अनुदान का अथशेष शून्य रहा। वर्ष के दौरान भारत सरकार से ₹130 करोड़ की राशि का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ था। इसका वर्ष के दौरान पूर्णतः उपयोग किया गया है।</p>

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक केलिए और की ओर से

S. Vellianingiri

(एस. वेल्लियनगिरी)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

स्थान : चेन्नई

तिथि : 17-10-2025



स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682 025
तुलनपत्र जैसेकि 31 मार्च, 2025 को है

क्रम सं.	विवरण	अनुसूची सं.	रकम (रुपयों में)	
			जैसेकि 31.03.2025 को है	जैसेकि 31.03.2024 को है
समग्र/पूँजी निधि व देयताएं				
1	आधारभूत/पूँजी निधि	1	(1,79,00,85,539.20)	(1,76,21,90,375.75)
2	आरक्षित निधि व अधिशेष	2	-	-
3	उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि	3	3,39,15,78,814.73	3,17,00,08,361.32
4	जमानती ऋण एवं उधार	4	-	-
5	गैर-जमानती ऋण एवं उधार	5	-	-
6	आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
7	चालू देयताएं एवं प्रावधान - चालू देयताएं	7क	9,71,53,967.60	10,08,20,292.01
8	चालू देयताएं एवं प्रावधान - प्रावधान	7ख	3,25,37,51,501.00	3,00,55,85,453.00
		कुल	4,95,23,98,744.13	4,51,42,23,730.58
परिसंपत्तियाँ				
9	मूल्यहास घटाकर स्थाई परिसंपत्तियाँ	8	1,40,08,61,447.21	1,47,84,52,388.21
10	निवेश-उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियों से	9	11,97,31,721.77	12,83,75,305.27
11	निवेश-अन्य	10	4,22,148.56	4,22,148.56
12	चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि - चालू परिसंपत्तियाँ	11क	3,16,41,42,267.39	2,61,84,03,850.31
13	चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि - ऋण, अग्रिम	11ख	26,72,41,159.20	28,85,70,038.23
14	फुटकर व्यय (बट्टे खाते में न डालने लायक)		-	-
		कुल	4,95,23,98,744.13	4,51,42,23,730.58
15	उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ	56		
16	आकस्मिक देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणियाँ	57		

(ह.)

निदेशक (वित्त)

(ह.)

सचिव

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682 025
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय लेखा

क्रम सं.	विवरण	अनुसूची सं.	रकम (रुपयों में)	
			2024-25	2023-24
आय				
1	बिक्री /सेवाओं से आय	12	23,75,29,467.29	17,75,50,861.63
2	अनुदान/इमदाद	13	1,30,00,00,000.00	1,15,50,00,000.00
3	शुल्क/चंदा	14	6,89,79,965.99	5,87,73,764.89
4	निवेश से आय (उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि से निवेश पर आय)	15	-	-
5	रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	1,000.00	500.00
6	अर्जित ब्याज	17	6,60,12,449.00	8,70,32,300.00
7	अन्य आय	18	77,67,509.50	1,20,02,336.64
8	तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)एवं चालू कार्य	19	1,25,81,536.65	-41,73,335.00
	कुल - (अ)		1,69,28,71,928.43	1,48,61,86,428.16
व्यय				
9	स्थापना खर्च-गेर योजना	20	69,31,85,332.59	67,71,77,566.71
10	प्रशासनिक खर्च - गेर योजना	21	34,47,91,958.58	35,62,76,889.34
11	खर्च - योजना	22	50,52,72,991.51	43,85,61,911.21
13	वित्त शुल्क	23	-	-
15	मूल्यहास	24	15,05,77,490.00	16,25,39,902.00
	कुल - (आ)		1,69,38,27,772.68	1,63,45,56,269.26





16	आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता का बना शेष			-9,55,844.25	-14,83,69,841.10
17	पूर्वावधि समायोजन आय/(व्यय)	25		2,69,39,319.20	3,17,17,406.00
18	विशेष आरक्षित निधि को अंतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)			-	-
19	सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)			-	-
20	शेष जो समग्र/पूँजी निधि को अग्रणीत अधिशेष/(घाटा)			-2,78,95,163.45	-11,66,52,435.10
21	उल्लेखनीय लेखा-नीतियाँ	56			
22	आकस्मिक देयताएं और लेखा पर टिप्पणियाँ	57			

(ह.)

निदेशक (वित्त)

(ह.)

सचिव



स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682 025
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति एवं अदायगी लेखा

क्रमांक	प्राप्तियाँ	अनु. सं.	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	क्रमांक	अदायगी	अनु. सं.	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I	अथ शेष				I	खर्च - गैर-योजना			
	हाथ में नकदी		20,507.62	1,05,665.72		स्थापना खर्च	41	50,11,79,791.17	43,44,18,137.50
	बैंक में नकदी		16,38,98,590.59	16,31,28,549.57		प्रशासन खर्च	42	23,44,49,309.07	28,82,84,047.12
	जमा खाते में		2,44,17,93,316.00	2,14,89,00,110.00					
II	प्राप्त अनुदान				II	खर्च-योजना			
	क) भारत सरकार से अनुदान	26	1,30,00,00,000.00	1,15,50,00,000.00		क) निर्यातानुख उत्पादन इलायची	43	-	21,72,22,476.31
	ख) अन्य अभिकरणों से अनुदान					इलायची की उत्पादकता में सुधार	i	10,31,49,353.70	-
	i) राजस्व	27	22,06,200.00	79,94,694.49		ii) मसालों की कटाई उपरांत गुणवत्ता में सुधार	ii	11,57,19,515.52	-
	ii) उद्दिष्ट निधि	28	13,07,43,583.00	12,62,99,915.00		ख) निर्यात विकास एवं संवर्धन	44	-	15,53,51,872.22
						i) गुणवत्ता सुधार	i	10,44,64,505.82	11,17,87,855.49
						ii) बाजार व्यय के लिए क्षमता बढ़ाना	ii	10,21,65,403.48	-
						iii) व्यापार संवर्धन	iii	13,02,47,747.94	-
						iv) तकनीकी हस्तक्षेप	iv	44,68,559.66	-
III	निवेश से आय उद्दिष्ट निधियां					ग) निर्यातानुख अनुसंधान-इलायची	45	-	64,61,321.84
	निवेश से आय उद्दिष्ट निधियां	29	12,62,68,949.00	7,14,59,029.00		i) छोटी और बड़ी इलायची पर अनुसंधान	i	2,96,24,468.31	-
IV	निवेश से आय					ड) मानव संसाधन विकास एवं कार्य	46	-	29,40,371.84
	क) बचत बैंक से ब्याज	30	10,64,907.00	18,18,432.00		i) क्षमता निर्माण और कौशल विकास	i	89,16,329.64	-
	ख) अत्यकालीन जमा पर ब्याज	31	7,64,57,417.00	6,27,99,007.00	III	बाहर से निधिबद्ध/ए एस आई डी ई योजनाएं			
						बाहर से निधिबद्ध/ए एस आई डी ई योजनाएं	47	2,68,41,351.53	17,45,45,874.48
						खर्च-स्पाइस एक्सचेंज इंडिया	48	-	10,16,400.00



V	अन्य प्राप्तियाँ			IV	जमा			
	बिक्री/सेवाओं से आय	32	24,46,70,837.15	21,16,72,259.00	बाहरी पार्टियों से अग्रिम/जमा	49	1,49,500.00	20,00,229.00
	शुल्क एवं चन्दा	33	5,29,65,528.58	5,84,14,665.00	विप्रेषण प्रतीक्षित वसूलियाँ	50	10,59,32,521.49	20,86,54,848.88
	अन्य प्राप्तियाँ	34	9,24,59,873.38	10,65,36,606.00	देय चालू देनदारियाँ	51	8,74,84,812.76	8,85,54,151.00
	ऋण चुकौती	35	-	30,370.00	अन्य भुगतान			
	प्राप्तियाँ-स्पाइसेस एक्सचेंज इंडिया	36	1,52,71,275.41	22,40,500.00	क) स्टाफ को ब्याज सहित अग्रिम	52	-	57,020.00
	विशेष अग्रिम	37	-	2,34,625.00	ख) स्टाफ को ब्याज सहित अग्रिम	53	-	2,76,445.00
VI	अन्य अग्रिम / जमा				इति शेष			
	बाहरी पार्टियों से जमा	38		20,00,229.00	नकद और हस्तगत लिखत (अंतिम शेष)		238.60	20,507.62
	विप्रेषण प्रतीक्षित वसूलियाँ	39	4,58,41,480.00	17,86,48,808.11	अंतिम बैंक शेष	54	25,52,46,916.04	16,38,98,590.59
	अग्रिम/जमा/वसूलियाँ	40			अंतिम बैंक शेष (जमा खातों में)	55	2,88,36,22,140.00	2,44,17,93,316.00
	कुल		4,69,36,62,464.73	4,29,72,83,464.89	कुल		4,69,36,62,464.73	4,29,72,83,464.89

(ह.)

निदेशक (वित्त)

(ह.)

सचिव



स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682 025
जैसेकि 31-3-2025 को है, तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

विवरण	रकम (रुपयों में)	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछले वर्ष 2023-24
अनुसूची-1 समग्र/पूजी निधि वर्ष के प्रारंभ में शेष	-1,76,21,90,375.75	-1,64,55,37,940.65
जोड़ : समग्र/पूजी निधि के लिए अंशदान (निवल)	-	-
जोड़ / (घटाना) : आय एवं व्यय लेखा से अन्तर्गत निवल आय (व्यय) का शेष	-2,78,95,163.45	-11,66,52,435.10
वर्ष के अंत में शेष	-1,79,00,85,539.20	-1,76,21,90,375.75
अनुसूची-2 आरक्षित निधि एवं अधिशेष	-1,79,00,85,539.20	-1,76,21,90,375.75
क) पूजी आरक्षित निधि	-	-
ख) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि	-	-
ग) विशेष आरक्षित निधि	-	-
घ) सामान्य आरक्षित निधि	-	-
कुल	-	-



स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682 025
जैसेकि 31 मार्च, 2025 को है, तुलन-पत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची - 3 - उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियाँ	निधिवार ब्यौरा						
	कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	आई सी ए आर-ए आई सी आर पी एस	ए एस आई डी ई - गुण्टूर	ए एस आई डी ई - नई दिल्ली	ए एस आई डी ई - चेन्नई	ए एस आई डी ई - कोलकत्ता	ए एस आई डी ई - त्रिंकोरिन
क) निधियों का अथ शेष	12,38,75,305.27	14,36,750.33	15,41,75,621.47	3,98,52,715.00	5,45,63,766.50	5,33,87,567.49	4,65,63,308.00
ख) निधियों में परिवर्धन							
i. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ii. निधियों के कारण किए गए निवेश से आय	77,90,970.00						
iii. अन्य परिवर्धन	1,64,87,175.00	21,31,200.00					
कुल (क+ख)	14,81,53,450.27	35,67,950.33	15,41,75,621.47	3,98,52,715.00	5,45,63,766.50	5,33,87,567.49	4,65,63,308.00
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोगन/व्यय							
i. पूँजी व्यय							
- स्थिर परिसंपत्तियाँ							
- अन्य		6,68,153.86					
कुल	-	6,68,153.86	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय							
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि							
- किराया							
- अन्य प्रशासनिक खर्च	3,34,21,728.50	26,56,661.50					
कुल	3,34,21,728.50	26,56,661.50	-	-	-	-	-
कुल (ग)	3,34,21,728.50	33,24,815.36	-	-	-	-	-
निवल शेष जैसेकि वर्ष के अंत में है (क+ख-ग)	11,47,31,721.77	2,43,134.97	15,41,75,621.47	3,98,52,715.00	5,45,63,766.50	5,33,87,567.49	4,65,63,308.00

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682 025
जैसेकि 31 मार्च, 2025 को है, तुलन-पत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची - 3 - उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियाँ	निधिवार ब्यौरा						डी यू एस - जांच केंद्र
	ए एस आई डी ई - मुंबई	ए एस आई डी ई - गुना	ए एस आई डी ई - कोटा	ए एस आई डी ई - कांडला	ए एस आई डी ई - आई आई पी एस	मृदा आधारित पावप पोशक प्रबंधन योजना	
क) निधियों का अथ शेष	15,25,96,304.00	25,71,92,419.28	10,28,77,981.76	5,29,26,458.08	7,56,37,435.00	5,84,326.00	1,11,550.00
ख) निधियों में परिवर्धन							
i. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ii. निधियों के कारण किए गए निवेश से आय							
iii. अन्य परिवर्धन							75,000.00
कुल (क+ख)	15,25,96,304.00	25,71,92,419.28	10,28,77,981.76	5,29,26,458.08	7,56,37,435.00	5,84,326.00	1,86,550.00
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोगन/व्यय							
i. पूँजी व्यय							
- स्थिर परिसंपत्तियाँ							
- अन्य							
कुल	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय							
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि							
- किराया							
- अन्य प्रशासनिक खर्च							15,405.00
कुल	-	-	-	-	-	-	15,405.00
कुल (ग)	-	-	-	-	-	-	15,405.00
निवल शेष जैसेकि वर्ष के अंत में है (क+ख-ग)	15,25,96,304.00	25,71,92,419.28	10,28,77,981.76	5,29,26,458.08	7,56,37,435.00	5,84,326.00	1,71,145.00





स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682 025
जैसोकि 31 मार्च, 2025 को है, तुलन-पत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची - 3 - उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियाँ	निधिवार ब्यौरा						राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आंध्र प्रदेश
	मसालों के निर्यात के लिए गुणवत्ता मानक	मसाला पार्क के लिए अवसंरचना	ए एस आई डी ई सय बरेली मसाला पार्क	एम आई डी एच	स्मानमार बड़ी इलायची	पेंशन (उद्दिष्ट)	
क) निधियों का अथ शेष	26,49,09,461.86	14,97,27,504.74	16,85,72,389.27	28,30,000.00	2,62,028.00	1,32,43,04,741.00	5,93,200.00
ख) निधियों में परिवर्धन							
i. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ii. निधियों के कारण किए गए निवेश से आय						12,62,68,949.00	
iii. अन्य परिवर्धन	2,00,00,000.00	1,07,46,891.00				10,00,00,000.00	
कुल (क+ख)	28,49,09,461.86	16,04,74,395.74	16,85,72,389.27	28,30,000.00	2,62,028.00	1,55,05,73,690.00	5,93,200.00
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोगन/व्याय							
i. पूँजी व्यय							
- स्थिर परिसंपत्तियाँ							
- अन्य		4,91,800.00		28,30,000.00	2,62,028.00		5,93,200.00
कुल		4,91,800.00		28,30,000.00	2,62,028.00		5,93,200.00
ii. राजस्व व्यय							
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि							
- किराया							
- अन्य प्रशासनिक खर्च	11,000.00						
कुल	11,000.00						
कुल (ग)	11,000.00	4,91,800.00		28,30,000.00	2,62,028.00		5,93,200.00
निवल शेष जैसोकि वर्ष के अंत में है (क+ख-ग)	28,48,98,461.86	15,99,82,595.74	16,85,72,389.27			1,55,05,73,690.00	



स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682 025
जैसेकि 31 मार्च, 2025 को है, तुलन-पत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची - 3 - उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियाँ	निधिवार ब्यौरा							ए एस आई डी ई -टी आई ई एस - सिक्किम
	क्षेत्रव्यापी आई पी एम कालीमिर्च	सूक्ष्म जीविज्ञान में उत्कृष्टता हेतु केंद्र	अदस्क परियोजना वस्तर	डबल्यूटीओ एसटीडीएफ़	एफ एस टी एल	आर पी एल -पी एम के वी वाई	ए एस आई डी ई -टी आई ई एस - सिक्किम	
क) निधियों का अथ शेष	2,00,000.00	10,89,93,784.00	88,375.00	16,89,311.20	45,00,000.00	(5,71,883.36)	98,47,716.00	
ख) निधियों में परिवर्धन								
i. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	
ii. निधियों के कारण किए गए निवेश से आय								
iii. अन्य परिवर्धन					5,00,000.00			
कुल (क+ख)	2,00,000.00	10,89,93,784.00	88,375.00	16,89,311.20	50,00,000.00	-5,71,883.36	98,47,716.00	
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोगन/व्यय								
i. पूंजी व्यय								
- स्थिर परिसंपत्तियाँ								
- अन्य	2,00,000.00		88,375.00	16,89,311.20			98,47,716.00	
कुल	2,00,000.00	-	88,375.00	16,89,311.20	-	-	98,47,716.00	
ii. राजस्व व्यय								
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि								
- किराया								
- अन्य प्रशासनिक खर्च								
कुल	-	-	-	-	-	-	-	
कुल (ग)	2,00,000.00	-	88,375.00	16,89,311.20	-	-	98,47,716.00	
निवल शेष जैसेकि वर्ष के अंत में है (क+ख-ग)	-	10,89,93,784.00	-	-	50,00,000.00	-5,71,883.36	-	



स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682 025
जैसेकि 31 मार्च, 2025 को है, तुलन-पत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची - 3 - उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियाँ	निधिवार ब्यौरा						
	महिला वैज्ञानिक योजना	बायर परियोजना	फ्लूपिरीमिन का मूल्यांकन	एस एच एम केरल परियोजना-आई सी आर आई	पॉलीसफेट का मूल्यांकन	स्पिनटोरम का मूल्यांकन	नैनो फर्टिलाइजर का मूल्यांकन
क) निधियों का अथ शेष	31,268.95	4,33,982.56	11,75,363.60	4,13,519.00	2,04,425.05	15,06,958.99	1,64,995.28
ख) निधियों में परिवर्धन							
i. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ii. निधियों के कारण किए गए निवेश से आय							
iii. अन्य परिवर्धन			6,00,000.00				2,40,000.00
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोगन/व्यय							
कुल (क+ख)	31,268.95	4,33,982.56	11,75,363.60	4,13,519.00	8,04,425.05	15,06,958.99	4,04,995.28
i. पूँजी व्यय							
- स्थिर परिसंपत्तियाँ							
- अन्य	2,583.66	3,03,423.00	4,33,916.89		21,185.00	11,70,970.16	
कुल	2,583.66	3,03,423.00	4,33,916.89	-	21,185.00	11,70,970.16	-
ii. राजस्व व्यय							
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि							
- किराया							
- अन्य प्रशासनिक खर्च							
कुल	-	-	-	-	4,88,680.00		1,70,127.00
कुल (ग)	2,583.66	3,03,423.00	4,33,916.89	-	4,88,680.00	-	1,70,127.00
निवल शेष जैसेकि वर्ष के अंत में है (क+ख-ग)	28,685.29	1,30,559.56	7,41,446.71	4,13,519.00	2,94,560.05	3,35,988.83	2,34,868.28

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682 025
जैसेकि 31 मार्च, 2025 को है, तुलन-पत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची - 3 - उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियाँ	निधिवार ब्यौरा			
	एसएचएम- हाई टेक नर्सरी	सिंगनेटा - कीटनाशक मैलाडुंपारा	सिंगनेटा - कीटनाशक सक्लेशपुर	सिंगनेटा - कनकनाशक- सक्लेशपुर
क) निधियों का अथ शेष	1,00,00,000.00	18,00,000.00	5,88,000.00	9,09,836.00
ख) निधियों में परिवर्धन				
i. दान/अनुदान	-	-	-	-
ii. निधियों के कारण किए गए निवेश से आय				
iii. अन्य परिवर्धन				
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोगन/व्यय				
i. पूँजी व्यय				
- स्थिर परिसंपत्तियाँ				
- अन्य	71,41,323.29	22,955.00	98,226.00	2,64,086.53
कुल	71,41,323.29	22,955.00	98,226.00	2,64,086.53
ii. राजस्व व्यय				
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि				
- किराया				
- अन्य प्रशासनिक खर्च				
कुल	-	-	-	-
कुल (ग)	71,41,323.29	22,955.00	98,226.00	2,64,086.53
निवल शेष जैसेकि वर्ष के अंत में है (क+ख-ग)	28,58,676.71	17,77,045.00	4,89,774.00	6,45,749.47





स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682 025
जैसेकि 31 मार्च, 2025 को है, तुलन-पत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची - 3 - उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियाँ	निधिवार ब्योरा		कुल योग	
	स्पाइस एक्सचेंज इंडिया	नबार्ड - सिकिकम	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
	9,57,500.00	94,376.00	3,17,00,08,361.32	3,11,18,16,703.09
क) निधियों का अथ शेष				
ख) निधियों में परिवर्धन				
i. दान/अनुदान	-	-	-	8,90,49,853.00
ii. निधियों के कारण किए गए निवेश से आय			13,40,59,919.00	3,99,33,728.00
iii. अन्य परिवर्धन			15,07,80,266.00	20,06,78,540.00
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोगन/व्यय				
कुल (क+ख)	9,57,500.00	94,376.00	3,45,48,48,546.32	3,44,14,78,824.09
i. पूंजी व्यय				
- स्थिर परिसंपत्तियाँ				
- अन्य	2,82,500.00	94,376.00	2,65,06,129.59	27,14,70,462.77
कुल	2,82,500.00	94,376.00	2,65,06,129.59	27,14,70,462.77
ii. राजस्व व्यय				
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि				
- किराया				
- अन्य प्रशासनिक खर्च				
कुल	-	-	3,67,63,602.00	27,14,70,462.77
कुल (ग)	2,82,500.00	94,376.00	6,32,69,731.59	27,14,70,462.77
निवल शेष जैसेकि वर्ष के अंत में है (क+ख-ग)	6,75,000.00	-	3,39,15,78,814.73	3,17,00,08,361.32

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682 025
जैसोकि 31 मार्च, 2025 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

विवरण	रकम (रुपयों में)	रकम (रुपयों में)
	चालू वर्ष 2024-25	पिछले वर्ष 2023-24
अनुसूची-4 जमानती ऋण एवं उधार		
1 केन्द्रीय सरकार	-	-
2 राज्य सरकार	-	-
3 वित्तीय संस्थाएं		
4 बैंक		
5 अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण	-	-
6 डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	-
कुल	-	-
नोट एक वर्ष के अंतर्गत देय रकम		
अनुसूची-5 गैर-जमानती ऋण एवं उधार		
1 केन्द्रीय सरकार	-	-
2 राज्य सरकार	-	-
3 वित्तीय संस्थाएं		
4 बैंक		
5 अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण	-	-
6 डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	-
कुल	-	-
अनुसूची - 6 आस्थगित ऋण देयताएं		
क) पूंजीगत उपकरण एवं अन्य परिसंपत्तियों के दृष्टिबंधक से सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य परिसम्पत्तियां	-	-
कुल	-	-





अनुसूची-7 क) चालू देयताएं एवं प्रावधान - चालू देयताएं				
1	पार्टियों से ई एम डी एवं सुरक्षा जमा	2,54,15,973.92	2,66,66,689.92	
2	विलंबित काम के लिए रोकी गई राशि	8,16,554.00	8,16,554.00	
3	देय - वेतन	2,13,60,775.00	2,03,07,900.00	
4	देय लेखा परीक्षा शुल्क	-	-	
5	लाइसेंस शुल्क / बाहरी क्वार्टर देय	12,866.00	-	
6	छुट्टी वेतन व पेंशन अंशदान	-	-	
7	कानूनी देयताएं	-	-	
(i)	डब्ल्यू डब्ल्यू एफ	14,04,545.00	14,04,545.00	
(ii)	टी डी एस देय	33,76,341.55	19,72,108.55	
(iii)	ईपीएफ देय	1,75,137.00	1,25,659.00	
(iv)	जीएसटी बकाया	49,00,012.00	31,43,758.54	
8	व्यापार लेखा देय	-	-	
9	वेतन वसूलियाँ	-	-	
a)	सामूहिक बीमा देय	10,09,515.00	10,09,515.00	
b)	जीवन बीमा निगम देय	-	-	
c)	सी पी एफ अभिदान	-	62,97,966.00	
d)	वृत्तिक कर देय	13,000.00	13,000.00	
e)	सी. पी. एफ. देय	-	-	
f)	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समिति	66,880.00	57,340.00	
g)	पी एल आई	45,314.00	45,314.00	
h)	मजदूरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	-	
i)	स्टाफ क्लब देयता	2,01,850.00	1,84,350.00	
j)	अन्य देयताएं	1,57,99,809.13	1,79,50,894.00	



10	पेंशन देय	2,16,99,811.00			2,05,78,310.00	
11	सामूहिक बीमा दावा देय	6,09,196.00			-	
12	सेवा निवृत्ति लाभ देय	2,46,388.00			2,46,388.00	
13	इमदाद - देय	-			-	
	कुल - (क)			9,71,53,967.60		10,08,20,292.01
	अनुसूची-7 ख) चालू देयताएं एवं प्रावधान - प्रावधान					
1	ब्याज वापसी	6,51,501.00			1,85,453.00	
2	उपदान	29,70,00,000.00			26,80,00,000.00	
3	अधिवार्षिता/पेंशन	2,72,21,00,000.00			2,53,14,00,000.00	
4	संचित छुट्टी का नकदीकरण	23,40,00,000.00			20,60,00,000.00	
	कुल - (ख)			3,25,37,51,501.00		3,00,55,85,453.00
	कुल - (क) + (ख)			3,35,09,05,468.60		3,10,64,05,745.01



स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682 025
जैसेकि 31 मार्च, 2025 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची - 8 - स्थिर परिसंपत्तियाँ

क्रमांक	परिसंपत्ति का नाम	सफल खण्ड				मूल्यहास				जैसेकि 31.03.2025 को है निवल खंड	जैसेकि 31.03.2025 को है निवल खंड	जैसेकि 31.03.2024 को है निवल खंड				
		जैसेकि 01.04.2024 को है	वर्ष के दौरान जोड़ाई	विक्री/अवगण	जैसेकि 31.03.2025 को है	दर	जैसेकि 01.04.2024 को है संशोधित मूल्यहास	पूर्व अवधि समायोजन	वर्ष के लिए				वर्ष के दौरान देयता कटौती	जैसेकि 31.03.2025 को है संशोधित मूल्यहास		
अ	स्थिर परिसंपत्तियाँ															
1	भूमि	10,13,52,127.40			10,13,52,127.40	0	80,69,061.00	-	-	-	80,69,061.00	9,32,83,066.40	9,32,83,066.40	9,32,83,066.40		
2	सॉफ्ट वेयर	23,64,250.00	24,78,000.00		48,42,250.00	33	5,91,063.00	-	10,62,797.00	-	16,53,860.00	31,88,390.00	31,88,390.00	17,73,187.00		
3	मकान	2,45,86,99,868.44	67,14,492.00		2,46,54,14,360.44	10	1,42,91,51,128.60	-	10,36,26,324.00	-	1,53,27,77,452.60	93,26,36,907.84	93,26,36,907.84	1,02,95,48,739.84		
4	गाडियाँ	1,90,20,917.67			1,90,20,917.67	15	1,75,21,267.78	-	2,24,948.00	-	1,77,46,215.78	12,74,701.89	12,74,701.89	14,99,649.89		
5	सिंचाई व पीपी उपकरण	62,19,813.00			62,19,813.00	15	36,63,213.48	-	3,83,490.00	-	40,46,703.48	21,73,109.52	21,73,109.52	25,56,599.52		
6	कंप्यूटर हार्डवेयर	13,26,63,497.46	29,28,574.00		13,55,92,071.46	60	11,88,78,162.37	-	62,88,906.00	-	12,51,67,068.37	1,04,25,003.09	1,04,25,003.09	1,37,85,335.09		
7	व्यूरिंग हाउस	2,37,257.52			2,37,257.52	5	2,00,765.29	-	1,825.00	-	2,02,590.29	34,667.23	34,667.23	36,492.23		
8	संदर्भ व पुस्तकालय किताबें	1,05,37,914.38			1,05,37,914.38	100	1,05,08,299.38	-	11,846.00	-	1,05,20,145.38	17,769.00	17,769.00	29,615.00		
9	प्लांट एवं मशीनरी	31,46,33,105.93	54,68,292.00		32,01,01,397.93	15	25,26,40,819.12	-	1,00,61,778.00	-	26,27,02,597.12	5,73,98,800.81	5,73,98,800.81	6,19,92,286.81		
10	जल आपूर्ति उपकरण	2,35,928.34			2,35,928.34	10	2,26,500.70	-	1,415.00	-	2,27,915.70	8,012.64	8,012.64	9,427.64		
11	फर्नीचर एवं जुड़नार	8,38,37,557.27	8,16,252.00		8,46,53,809.27	10	6,22,67,518.97	-	22,27,124.00	-	6,44,94,642.97	2,01,59,166.30	2,01,59,166.30	2,15,70,038.30		
12	प्रयोगशाला उपकरण	60,17,41,245.20	5,23,47,229.00		65,40,88,474.20	15	45,69,49,512.87	-	2,66,87,037.00	-	48,36,36,549.87	17,04,51,924.33	17,04,51,924.33	14,47,91,732.33		
	कुल - चालू वर्ष	3,73,15,43,482.61	7,07,52,839.00		3,80,22,96,321.61		2,36,06,67,312.56	-	15,05,77,490.00	-	2,51,12,44,802.56	1,29,10,51,519.05	1,29,10,51,519.05	1,37,08,76,170.05		
आ	पूजी चालू कार्य	10,75,76,218.16	22,33,710.00		10,98,09,928.16		-	-	-	-	-	10,98,09,928.16	10,98,09,928.16	12,27,38,705.16		
	कुल चालू वर्ष	3,83,91,19,700.77	7,29,86,549.00		3,91,21,06,249.77		2,36,06,67,312.56	-	15,05,77,490.00	-	2,51,12,44,802.56	1,40,08,61,447.21	1,40,08,61,447.21	1,49,36,14,875.21		
	पिछले वर्ष	3,85,79,30,497.77	2,26,43,255.00	4,14,54,052.00	3,83,91,19,700.77		2,19,81,27,410.56	-	16,25,39,902.00	-	2,36,06,67,312.56	1,47,84,52,388.21	1,47,84,52,388.21	1,65,98,03,087.21		

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682 025
जैसेकि 31 मार्च, 2025 को है, तुलन-पत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

विवरण	रकम (रुपयों में)	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछले वर्ष 2023-24
अनुसूची - 9 उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियों से निवेश		
1. दीर्घकालीन निवेश		
क) शेयरों में	50,00,000.00	45,00,000.00
2. अल्पकालीन निवेश		
क) जी पी एफ निवेश लेखा	11,47,31,721.77	12,38,75,305.27
कुल	11,97,31,721.77	12,83,75,305.27
अनुसूची-10 - निवेश अन्य		
1) दीर्घकालीन निवेश		
क) रोपकों को ऋण	4,22,148.56	4,22,148.56
कुल	4,22,148.56	4,22,148.56
अनुसूची-11 क) चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि चालू परिसंपत्तियां		
1) माल - सूची		
क) मंडार, रासायनिक पदार्थ व पुर्जे	2,33,25,892.64	1,23,53,806.00
ख) व्यापार में स्टॉक		
i) इलायची, एवं अन्य उत्पाद	19,47,080.11	2,52,72,972.75
2) हाथ में रोकड़ शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अप्रदाय सहित)	238.60	238.60
4) बैंक में बाकी		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
i) चालू खातों में	25,52,46,916.04	16,38,98,590.59
ii) जमा खातों में (मार्जिन राशि शामिल)	2,88,36,22,140.00	2,44,17,93,316.00
iii) बचत खाते में	-	-
कुल - (अ)	3,16,41,42,267.39	2,61,84,03,850.31





अनुसूची-11 ख) चालू परिसंभितियाँ, ऋण, अग्रिम आदि - ऋण, अग्रिम	-	-	-	-	-	-
1) स्टाफ़ को ऋण	-	-	-	-	-	-
क) उत्सव अग्रिम	-	-	-	-	-	-
ख) वेतन अग्रिम	-	-	-	-	4,72,089.00	-
ग) विशेष अग्रिम	4,76,783.00	-	-	-	-	-
घ) गृह निर्माण अग्रिम	2,77,378.00	-	-	-	3,49,378.00	-
ङ) कंप्यूटर अग्रिम	2,02,635.00	-	-	-	2,43,255.00	-
च) स्कूटर अग्रिम	-	-	-	-	-	-
छ) चिकित्सा अग्रिम	3,79,854.00	-	-	-	3,79,854.00	-
ज) एल टी सी अग्रिम	12,14,167.00	-	-	-	11,14,415.00	-
झ) स्थाई अग्रिम/कार्यालय अग्रदाय	-	-	25,50,817.00	-	-	25,58,991.00
2) नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ						
क) यात्रा अग्रिम	23,47,878.00		23,47,878.00		26,50,928.00	26,50,928.00
ख) जमा						
(i) के एस ई बी के साथ	4,22,740.00				3,87,780.00	
(ii) अन्य	1,74,87,968.00				67,27,235.00	
(iii) बी एस एन एल के साथ	9,796.00		1,79,20,504.00		9,796.00	71,24,811.00
ग) पूर्वदत्त खर्च						
(i) पूर्वदत्त ए एम सी चार्ज	-	-	-	-	-	-
3) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज	8,14,02,158.00		8,14,02,158.00		9,22,55,219.00	9,22,55,219.00
4) किराया अग्रिम/जमा	16,96,600.00		16,96,600.00		33,44,953.00	33,44,953.00
5) अनुदान प्राप्य	-	-	-	-	-	-
6) ठेका अग्रिम	2,55,57,161.00		2,55,57,161.00		2,63,77,161.00	2,63,77,161.00
7) पूर्वदत्त बीमा	-	-	-	-	-	-
8) जी एस टी निविष्टि कर जमा	4,69,41,295.00		4,69,41,295.00		3,97,93,755.83	3,97,93,755.83
9) सामूहिक बीमा प्राप्य	-	-	-	-	-	-
10) भूमि खरीद अग्रिम-गुजरात सरकार	4,78,22,405.00		4,78,22,405.00		4,78,22,405.00	4,78,22,405.00



11) गैर-अनुदान प्राप्य	-	-	48,69,832.00	48,69,832.00
12) टी डी एस प्राप्य	-	-	2,47,074.00	2,47,074.00
13) अन्य				
क) अग्रिम संग्रहण	16,00,839.00		55,00,839.00	
ख) ब्रैंड संवर्धन ऋण योजना	74,66,000.00		74,66,000.00	
ग) अन्य अग्रिम	3,14,55,613.20		3,14,55,613.20	
घ) बयाना जमा-राशि एवं सुरक्षा जमा	4,42,047.00		4,91,200.00	
ङ) पूर्वदत्त अन्य	37,842.00	4,10,02,341.20	48,927.00	4,49,62,579.20
14) उपकरणों की खरीद के लिए अग्रिम	-	-	58,01,596.20	58,01,596.20
		26,72,41,159.20		28,85,70,038.23
		3,43,13,83,426.59		2,90,69,73,888.54



स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682 025
जैसेकि 31 मार्च, 2025 को है, आय और व्यय लेखों का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

विवरण	रकम (रुपयों में)	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछले वर्ष 2023-24
अनुसूची-12 - बिक्री/सेवा से आय		
1 बिक्री से आय		
क) मसालों, रोपण सामग्रियों और बागान निवेशों की बिक्री		
(i) इलायची	11,57,587.60	5,90,514.00
(ii) कालीमिर्च कतरनें	21,90,820.00	22,04,524.00
(iii) कालीमिर्च कतरनें	27,788.00	3,73,822.50
(iv) बायो एजेंट	9,77,103.00	6,42,657.50
विकास शुल्क	-	
(v) अन्य उत्पाद-अनुसंधान फार्म	6,10,343.00	6,09,708.00
ख) पादपों की बिक्री से प्राप्त आय		
(i) इलायची पादप	29,10,801.00	21,58,597.00
ग) फुटकर प्राप्तियाँ		
(i) स्कैप/अप्रयुक्त वस्तुओं की बिक्री	8,54,583.14	7,44,904.20
(ii) वापसी-बैंड संवर्धन अनुदान	-	8,54,583.14
2 सेवाओं से आय		
क) विश्लेषणात्मक शुल्क	18,51,43,811.04	16,38,69,587.73
ख) स्वास्थ्य प्रमाणपत्र	4,19,23,500.00	36,74,002.00
ग) नमूना विश्लेषण के लिए अपील शुल्क	3,66,000.00	18,000.00
घ) योजनाओं के लिए प्रोसेसिंग शुल्क	10,32,130.51	19,06,504.05
ङ) प्रयोगशाला मान्यता शुल्क	-	2,05,000.00
च) प्रशिक्षण शुल्क	3,35,000.00	5,53,040.65
कुल	23,75,29,467.29	17,75,50,861.63



	(अधिकतमी अनुदान एवं इमदाद प्राप्त)								
	अनुसूची-13 - अनुदान व इमदाद								
	योजना								
	भारत सरकार से सहायता अनुदान	1,30,00,00,000.00						1,15,50,00,000.00	
	भैर-योजना								
	भारत सरकार से सहायता अनुदान	-				1,30,00,00,000.00		-	1,15,50,00,000.00
	जोड - परिसंपत्तियों के निपटान से वसूल राशि	-				-		-	-
	घटाना - पूँजी निधि केलिए अंशदान	-				-		-	-
	कुल					1,30,00,00,000.00			1,15,50,00,000.00
	अनुसूची-14 - शुल्क व चन्दा								
1	ब्यौहारी अनुज्ञप्ति शुल्क	15,26,355.93						64,40,042.00	
2	सी आर ई एस	3,91,05,672.65						3,38,97,292.63	
3	निर्यातकों केलिए प्रतिभागिता शुल्क	1,19,83,112.00						47,30,497.00	
4	प्राप्ति-ई-नीलाम प्रयोक्ता शुल्क	1,52,71,275.41						1,33,21,033.26	
5	परामर्श शुल्क	4,83,550.00						3,84,900.00	5,87,73,764.89
6	निरिक्षण शुल्क	10,000.00							
7	पैनलबद्ध प्रयोगशाला के लिए आवेदन शुल्क	6,00,000.00				6,89,79,965.99			
	कुल					6,89,79,965.99			5,87,73,764.89
	अनुसूची-15 - निवेश से आय								
1	ब्याज	-				-		-	-
2	लाभांश	-				-		-	-
	कुल								
	अनुसूची-16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय								
1	आवधिक-समाचार-पत्रिका	1,000.00				1,000.00		500.00	500.00
	कुल					1,000.00			500.00
	अनुसूची-17 - ब्याज अर्जित								
1	अल्पावधि जमा पर								
क)	बचत खाते से ब्याज	6,56,80,159.00				6,56,80,159.00		8,66,82,093.00	8,66,82,093.00



5	छुट्टी का नकदीकरण	3,93,20,348.00		4,20,60,455.00	
6	स्थापना खर्च	2,44,97,563.59	69,31,85,332.59	1,55,05,656.71	67,71,77,566.71
	कुल		69,31,85,332.59		67,71,77,566.71
अनुसूची-21 - अन्य प्रशासनिक खर्च आदि					
1	प्रशासनिक खर्च	8,88,991.37		49,54,404.28	
2	विज्ञापन शुल्क	49,14,897.20		40,82,523.25	
3	हवाई टिकट खर्च	33,16,541.00		56,01,580.00	
4	ए एम सी शुल्क	1,39,65,213.87		1,65,93,215.89	
5	वार्षिक सदस्यता शुल्क (ए एस टी ए/ई एस ए /आई पी सी आई ओ एस टी ए / आई टी सी) आदि	45,000.00		2,83,000.00	
6	लेखापरीक्षा शुल्क	-		22,01,585.00	
7	बैंक शुल्क	3,42,927.26		82,290.65	
8	मूल वेतन	13,41,40,260.00		14,12,44,621.00	
9	बच्चों का शैक्षणिक भत्ता	37,99,752.00		34,29,000.00	
10	पूरक/उपहार पैक	26,73,585.13		44,94,035.84	
11	कंप्यूटर स्टेशनरी और उपभोग्य वस्तुएं	2,51,779.21		4,40,017.92	
12	कंप्यूटर अनुक्षण	39,573.72		1,08,719.34	
13	परामर्श शुल्क	5,79,28,280.50		6,30,74,164.80	
14	बिजली शुल्क - मसाला पार्क	40,46,679.60		84,12,509.00	
15	कार्यालयों का बिजली शुल्क	2,28,05,777.20		1,87,47,987.11	
16	मनोरंजन	-		82,562.00	
17	ई पी एफ उपदान	3,38,588.00		5,58,049.00	
18	ईंधन शुल्क	26,70,182.18		32,29,320.99	
19	पारिश्रमिक	1,36,960.00		1,33,376.00	
20	हाउस कीपिंग/झाड़ू लगाने का शुल्क	14,79,826.04		12,33,502.10	
21	बीमा शुल्क	3,66,375.00		2,95,690.00	
22	इंटरनेट खर्च	27,93,363.00		26,02,843.71	
23	छुट्टी वेतन अंशदान	-		12,96,113.00	
24	पुस्तकालय-चन्दा	-		95,098.00	



25	लाइसेंस शुल्क	3,66,866.00	27,422.00
26	लॉडिंग/अनलोडिंग शुल्क	400.00	1,070.00
27	स्थानीय परिवहन व्यय	4,05,360.00	7,88,380.30
28	स्थानीय परिवहन-ऑटो और टैक्सी - प्रतिपूर्ति	52,02,434.48	25,23,302.00
29	चिकित्सा प्रतिपूर्ति-कर्मचारी	25,73,125.00	53,54,135.00
30	विविध व्यय	1,76,645.34	9,92,622.39
31	नेटवर्क, वेब साइट निर्माण और रखरखाव	2,17,175.00	47,758.00
32	समाचारपत्र कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति	10,61,240.34	3,07,100.00
33	कार्यालय उपभोग्य वस्तुएं	11,569.14	44,261.66
34	कार्यालय व्यय	4,434.00	33,564.00
35	कार्यालय आतिथ्य	-	24,994.00
36	कार्यालय किराया	1,14,86,710.28	1,23,31,068.00
37	राजभाषा	73,774.00	2,33,027.42
38	फोटोकॉपी शुल्क	8,257.72	4,382.00
39	डाक शुल्क	21,39,080.17	15,08,644.15
40	विद्युत वस्तुओं की खरीद	40,866.66	1,71,408.27
41	मसाला नमूनों की खरीद	1,160.00	2,390.00
42	जल-पान	2,72,072.50	1,67,238.00
43	सी आर ई एस की प्रतिपूर्ति	-	22,500.00
44	चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति-कर्मआचारी-ओपी	-	5,42,139.00
45	टेलीफोन शुल्क की प्रतिपूर्ति-कर्मचारी	7,32,456.13	5,85,282.16
46	मरम्मत एवं रखरखाव लैब उपकरण	52,51,213.35	29,35,356.81
47	मरम्मत एवं रखरखाव कंप्यूटर	1,19,459.16	7,070.00
48	विद्युत मरम्मत एवं रखरखाव	1,52,97,462.81	66,66,064.87
49	मरम्मत एवं रखरखाव सामान्य	23,58,113.26	5,91,657.86
50	ज्वांट व मशीनरी की मरम्मत एवं रखरखाव	28,43,681.03	13,15,900.00
51	वाहनों की मरम्मत एवं रखरखाव	5,55,743.90	9,03,322.05
52	मकानों की मरम्मत एवं रखरखाव	36,12,028.98	29,26,181.17



53	मरम्मत - फर्नीचर व फिटिंग	1,39,385.91			49,207.00	
54	सेवानिवृत्ति - यात्रा भत्ते का समाधान	-			4,42,550.00	
55	वेतन बकाया	-			8,172.00	
56	स्टाल ड्यूटी भत्ता	21,600.00			44,000.00	
57	स्टेशनरी खरीद व्यय	-			1,85,416.43	
58	समाचार पत्रों की सदस्यता - प्रतिपूर्ति	-			3,14,687.00	
59	स्वच्छा कार्रवाई व्यय	48,91,339.52			33,00,921.36	
60	टेलीफोन शुल्क	10,85,566.51			9,71,595.44	
61	प्रशिक्षु-हॉस्टल खर्च	-			32,805.49	
62	स्थानांतरण यात्रा भत्ता	-			26,86,731.00	
63	परिवहन भत्ता	1,50,62,572.00			1,33,20,357.00	
64	यात्रा भत्ता आउटसोर्स	2,74,173.00			1,36,891.00	
65	कर्मचारियों का यात्रा भत्ता	1,04,34,868.11			91,95,833.64	
66	डब्ल्यू.आई.पी. बोर्ड शेयर एसाइड स्कीम्स	-			2,74,346.00	
67	मजदूरी	-			800.00	
68	अपशिष्ट निपटान शुल्क	28,845.00			100.00	
69	बॉच एंड वार्ड	24,693.00			81,404.00	
70	पानी / पेयजल शुल्क	10,73,034.00			8,96,621.99	
71	अन्य पुनर्गठित व्यय	-		34,47,91,958.58	-	35,62,76,889.34
				34,47,91,958.58		35,62,76,889.34
अनुसूची-22 - अनुदानों एवं इमदादों आदि पर व्यय						
1	ब्रैंड संवर्धन	-			33,34,000.00	
2	घरलू मेलों के लिए व्यय	1,95,36,684.43			2,21,66,087.00	
3	अंतर्राष्ट्रीय मेलों के लिए व्यय	7,97,90,834.00			2,43,81,507.00	
4	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला प्रत्यायन शुल्क	11,73,432.62			5,15,126.00	
5	बायोएजेंट उत्पादन	1,05,787.11			2,36,379.46	
6	कोडेक्स व्यय	8,98,494.00			1,50,38,168.00	
7	अनुसंधान अध्ययन	1,48,004.58			3,62,675.00	



8	सैपलिंग स्टफिंग शुल्क	2,65,07,985.65	1,65,87,796.70
9	विभिन्न लाभार्थियों के लिए इमदाद	22,09,27,057.02	23,73,06,939.28
10	सहायता अनुदान	-	16,10,394.00
11	श्रमिक मजदूरी - नर्सरी और फार्म	1,20,45,436.36	1,24,19,367.00
12	श्रम कल्याण व्यय-फार्म/नर्सरी	1,54,086.15	1,52,110.00
13	प्रशिक्षु वजीफा - सामान्य	1,01,69,833.00	60,67,963.69
14	प्रशिक्षु वजीफा-अनुसूचित जाति	3,40,08,392.00	3,77,68,627.00
15	प्रशिक्षु वजीफा-अनुसूचित जन-जाति	43,03,550.00	34,03,588.00
16	प्रशिक्षण एचआरडी	22,37,364.08	8,53,087.00
17	बैठक और संगोष्ठी व्यय	1,64,27,361.59	50,53,023.43
18	कृषि मौसम विज्ञान	16,742.00	28,430.00
19	क्रेता विक्रेता बैठक	49,01,404.61	96,06,010.36
20	उद्यमिता विकास कार्यक्रम	-	2,04,760.00
21	अनुग्रह	3,24,181.00	8,82,368.00
22	श्रमिकों को अनुग्रह राशि/बोनस आदि	5,37,113.00	
23	खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और बाजार संपर्क	57,25,266.00	
24	मिशन क्लीन स्पाइसेज़	1,68,711.00	
25	कृषि विकास व्यय	18,62,589.12	16,00,939.35
26	उर्वरक और खाद	2,15,277.52	6,20,449.07
27	सिंचाई उपकरण	8,255.53	9,731.94
28	कीटनाशक और कवकनाशी	91,992.65	11,503.00
29	मौसम सुरक्षात्मक शुल्क	5,900.00	25,456.00
30	पीटीपी/आईएलसी कार्यक्रम	7,37,268.64	60,950.00
31	अनुसंधान संस्थान/निर्यातक को सहायता	66,65,661.00	17,53,689.00
32	रसायन और अन्य लेब मीटरियल	4,81,70,569.47	2,59,93,323.22
33	बीज और नर्सरी इन्पुट की लागत	10,34,847.37	5,83,354.25
34	क्यूआईटीपी	22,32,151.00	28,60,481.64



35	पूंजी के अलावा लेब खर्च	41,40,759.01		70,63,626.82		
36	मसाला उत्पादक समाज	-	50,52,72,991.51	-		43,85,61,911.21
	कुल		50,52,72,991.51			43,85,61,911.21
अनुसूची-23 - वित्तीय शुल्क						
1	स्थाई ऋणों पर	-				
2	अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित)	-				
3	अन्य (स्पष्ट करें)	-	-			-
	कुल		-			-
अनुसूची-24 - मूल्यहास						
1	मूल्यहास - जमीन (पट्टा परिशोधन)	-				
2	मूल्यहास - सॉफ्ट वेयर	10,62,797.00			5,91,063.00	
3	मूल्यहास - मकान	10,36,26,324.00			11,43,94,304.00	
4	मूल्यहास - गाड़ियां	2,24,948.00			2,64,644.00	
5	मूल्यहास - सिंचाई एवं पौ.सं. उपकरण	3,83,490.00			4,51,165.00	
6	मूल्यहास - कंप्यूटर हार्डवेयर	62,88,906.00			82,98,251.00	
7	मूल्यहास - फार्म/क्यूरिंग हाउस	1,825.00			4,055.00	
8	मूल्यहास - सन्दर्भ एवं पुस्तकालय पुस्तकें	11,846.00			19,744.00	
9	मूल्यहास - प्लान्ट एवं मशीनरी	1,00,61,778.00			1,09,32,314.00	
10	मूल्यहास - जल आपूर्ति उपकरण	1,415.00			1,664.00	
11	मूल्यहास - फर्नीचर एवं जुड़नार	22,27,124.00			23,41,798.00	
12	मूल्यहास - प्रयोगशाला उपकरण	2,66,87,037.00			2,52,40,900.00	
	कुल		15,05,77,490.00			16,25,39,902.00
अनुसूची-25 - पूर्व अवधि मदें						
1	पूर्व अवधि समायोजन - आय/(व्यय)	2,69,39,319.20			3,17,17,406.00	
	कुल		2,69,39,319.20			3,17,17,406.00



स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682 025
जैसेकि 31 मार्च, 2025 को है, प्राप्ति और अदायगी लेखों का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

विवरण	रकम (रुपयों में)	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछले वर्ष 2023-24
अनुसूची-26 - भारत सरकार से अनुदान योजना		
आय - सरकारी इमदाद - जनजातीय उप योजना (टीएसपी) से निर्मोचन	4,22,00,000.00	4,22,00,000.00
आय - पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन एवं अन्य व्यय के लिए सरकारी अनुदान से निर्मोचन	1,00,00,000.00	47,50,000.00
आय - सरकार की सहायता - अनुदान से निर्मोचन सामान्य	28,06,00,000.00	4,99,00,000.00
आय - सरकारी इमदाद से निर्मोचन - अन्य व्यय	42,00,00,000.00	31,99,00,000.00
आय - सरकार की सहायता - अनुदान से निर्मोचन सामान्य - अन्य खर्च	18,47,00,000.00	34,37,00,000.00
आय - सरकार की सहायता - अनुदान से निर्मोचन - वेतन	23,00,00,000.00	26,70,00,000.00
आय - सरकारी सहायता - अनुदान से निर्मोचन - सामान्य उत्तर - पूर्व	4,49,00,000.00	2,98,50,000.00
आय - सरकारी सहायता - अनुदान से निर्मोचन - स्वच्छता कार्य योजना (एस ए पी)	1,00,00,000.00	1,00,00,000.00
आय - सरकारी योजना के तहत - इमदाद से निर्मोचन - उत्तर पूर्व	3,99,00,000.00	4,49,00,000.00
आय - पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सरकारी अनुदान से निर्मोचन - एनई	1,00,000.00	-
आय - सरकारी सहायता - अनुदान से निर्मोचन - सामान्य अनुसूचित जाति	1,27,00,000.00	1,28,00,000.00
आय - सरकारी सहायता - अनुदान से निर्मोचन - सामान्य जनजातीय यूपी योजना (टी एस पी)	1,27,00,000.00	1,28,00,000.00
आय - सरकारी इमदाद से निर्मोचन - अनुसूचित जाति	1,22,00,000.00	1,72,00,000.00
कुल	1,30,00,00,000.00	1,15,50,00,000.00
अनुसूची-27 - अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान (राजस्व)		
आईसीएआर-एआईसीआरपीएस	21,31,200.00	14,18,924.49
डीयूएस जांच केंद्र	75,000.00	1,00,000.00
विश्व व्यापार संगठन एसटीडीएफ		64,75,770.00
कुल	22,06,200.00	79,94,694.49
	22,06,200.00	79,94,694.49



अनुसूची-28 - अन्य एजेंसियों से प्राप्त सहायता अनुदान (उद्दिष्ट निधि)							
मसालों के निर्यात में गुणवत्ता मानक	2,00,00,000.00				2,00,00,000.00		
मसाला पार्क की अवसंरचना	1,07,43,583.00				62,99,915.00		
पेंशन देनदारियां	10,00,00,000.00		13,07,43,583.00		10,00,00,000.00		12,62,99,915.00
कुल			13,07,43,583.00				12,62,99,915.00
अनुसूची-29 - उद्दिष्ट निधियों के निवेश से आय							
अल्पकालीन जमा ब्याज पेंशन	12,62,68,949.00		12,62,68,949.00		7,14,59,029.00		7,14,59,029.00
कुल			12,62,68,949.00				7,14,59,029.00
अनुसूची-30 - बचत बैंक से ब्याज							
आय - बचत बैंक से ब्याज	10,64,907.00		10,64,907.00		18,18,432.00		18,18,432.00
कुल			10,64,907.00				18,18,432.00
अनुसूची-31 - अल्पकालीन जमा पर ब्याज							
आय - अल्पकालीन जमा पर ब्याज - सामान्य	7,64,57,417.00		7,64,57,417.00		6,27,99,007.00		6,27,99,007.00
कुल			7,64,57,417.00				6,27,99,007.00
अनुसूची-32 - बिक्री/सेवाओं से आय							
आय - विश्लेषणात्मक शुल्क	19,24,79,264.04				20,08,35,503.00		
आय - नमूना विश्लेषण के लिए अपील शुल्क	3,66,000.00				18,000.00		
आय - स्वास्थ्य प्रमाण पत्र	4,19,59,000.00				36,73,502.00		
आय - योजनाओं के लिए प्रसंस्करण शुल्क	10,32,130.51				18,06,021.00		
आय - प्राप्त - इलायची पादप	29,10,801.00				9,14,410.00		
आय - प्राप्त - काली मिर्च की कतरनें	21,90,820.00				13,47,716.00		
आय - प्राप्त - बायोएजेंट	9,77,103.00				5,84,883.00		
आय - प्राप्त - इलायची बिक्री	11,57,587.60				4,87,389.00		
आय - प्राप्त - अन्य फार्म उत्पाद	6,10,343.00				4,13,790.00		
आय - प्राप्त - कालीमिर्च बिक्री	27,788.00				2,96,567.00		
आय - सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं के लिए आवेदन शुल्क	6,15,000.00				-		
आय - निरीक्षण शुल्क	10,000.00				-		



आय - स्कैप/अप्रयुक्त साधनों की बिक्री	-			7,67,028.00	
आय - प्रशिक्षण शुल्क	3,35,000.00		24,46,70,837.15	5,27,450.00	21,16,72,259.00
कुल			24,46,70,837.15		21,16,72,259.00
अनुसूची-33 - शुल्क /चन्दा					
सी आर ई एस	3,91,53,172.65			3,39,03,293.00	
ब्यौहारी अनुज्ञापित शुल्क	15,26,355.93			64,60,042.00	
निर्यातकों के ली प्रतिभागिता शुल्क	1,22,85,000.00			47,30,294.00	
चन्दा शुल्क	1,000.00			-	
प्राप्ति प्रयोक्ता शुल्क - ईनीलाम			5,29,65,528.58	1,33,21,036.00	5,84,14,665.00
कुल			5,29,65,528.58		5,84,14,665.00
अनुसूची-34 - अन्य प्राप्तियां					
आय - विज्ञापन शुल्क	1,30,000.00			38,000.00	
आय - विकास शुल्क	-			5,00,000.00	
आय - अतिथि कमरा भाड़ा	2,17,905.00			3,44,550.00	
आय - पट्टा	-			-	
आय - विभिन्न आय	2,46,524.86			2,32,067.00	
आय - अन्य प्राप्तियां	8,82,46,995.98			9,87,00,608.00	
आय - प्राप्त किराया	27,29,784.40			66,94,054.00	
आय - चन्दा	34,080.00			27,327.00	
आय - स्कैप/अप्रयुक्त साधनों की बिक्री	8,54,583.14		9,24,59,873.38		10,65,36,606.00
कुल			9,24,59,873.38		10,65,36,606.00
अनुसूची-35 - ऋण चुकोतियां					
विशेष अग्रिम				30,370.00	
कुल					30,370.00
अनुसूची-36 - प्राप्तियां-स्पाइस एक्सचेंज इंडिया					
प्राप्ति ई-नीलामी प्रयोक्ता शुल्क	1,52,71,275.41		1,52,71,275.41	22,40,500.00	22,40,500.00
कुल			1,52,71,275.41		22,40,500.00



अनुसूची-37 - विशेष अग्रिम							
वशेष अग्रिम					1,92,782.00		
स्थाई अग्रिम /कार्यालय अग्रदाय					41,843.00		
						2,34,625.00	
कुल						2,34,625.00	
अनुसूची-38 - बाहरी पार्टियों से जमा							
बाहरी पार्टियों से जमा					20,00,229.00		20,00,229.00
कुल							20,00,229.00
अनुसूची-39 - विप्रेषण प्रतीक्षित वसूलियां							
विप्रेषण प्रतीक्षित वसूलियां	4,58,41,480.00			4,58,41,480.00	17,86,48,808.11		17,86,48,808.11
कुल				4,58,41,480.00			17,86,48,808.11
अनुसूची-40 - अग्रिम/जमा/वसूलियां							
यात्रा अग्रिम							
छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम							
चिकित्सा अग्रिम							
कुल							
अनुसूची-41 - स्थापना खर्च							
कार्मिक लागत - अधिकारियों का वेतन	22,57,07,189.00				24,50,88,060.00		
कार्मिक लागत - अधिकारियों का सेवानिवृत्ति-लाभ	27,19,41,573.00				15,93,60,295.00		
कार्मिक लागत - अन्य खर्च					2,17,01,931.00		
स्थापना खर्च	35,31,029.17			50,11,79,791.17	82,67,851.50		43,44,18,137.50
कुल				50,11,79,791.17			43,44,18,137.50
अनुसूची-42 - प्रशासनिक खर्च							
कैंटीन खर्च		36,044.81			1,19,942.06		
मनोरंजन					46,220.00		
ईपीएफ उपदान		3,38,588.00			1,39,773.00		
स्थापना खर्च					48,29,876.46		
अनुग्रह राशि					4,51,676.00		
उपदान				1,27,90,683.00	2,14,39,104.00		



पारिश्रमिक	1,13,960.00	43,276.00
एल टी सी खर्च	24,95,523.00	17,21,160.00
छुट्टी नकदीकरण	77,21,337.00	1,05,77,906.00
छुट्टी वेतन अंशदान	-	12,96,113.00
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	25,83,125.00	50,62,632.00
स्टाफ के लिए समाचार-पत्र प्रतिपूर्ति	4,04,467.00	2,75,990.00
पेंशन अंशदान	-	27,19,295.00
सेवानिवृत्ति	-	4,42,550.00
कर्मआचारी कल्याण व्यय	92,174.00	3,44,587.56
प्रशिक्षुओं के हॉस्टल खर्च	-	32,805.49
प्रशिक्षु वजीफ़ा	40,64,140.00	51,23,814.00
प्रशिक्षण एच आर डी	2,04,523.88	2,36,617.00
स्थानांतरण यात्रा भत्ता	-	27,45,851.00
यात्रा भत्ता	-	12,000.00
पी एल आई	-	2,65,230.00
व्यवसाय कर	-	2,96,200.00
प्रशासनिक लागत और विज्ञापन शुल्क	10,41,137.37	3,59,00,875.28
अन्य प्रभार पूंजी	-	3,24,20,524.00
कार्यालय खर्च	4,434.00	5,92,52,053.87
अन्य प्रशासनिक खर्च	11,18,843.00	1,97,95,313.83
किराया भुगतान	-	1,22,98,768.00
लेखापरीक्षा शुल्क	-	22,01,585.00
परामर्श शुल्क	6,02,41,645.50	5,79,83,267.33
मरम्मत और रखरखाव	1,78,95,423.49	68,32,430.24
कृषि मौसम विज्ञान	1,375.00	
हवाई टिकट व्यय	33,16,541.00	
वार्षिक रखरखाव करार शुल्क	72,06,376.42	
वार्षिक सदस्यता शुल्क	45,000.00	



बैंक शुल्क	3,42,927.26		
बच्चों की शैक्षणिक भत्ता	86,064.00		
समादर /उपहार पैक	26,73,585.13		
कंप्यूटर स्टेशनरी एवं उपभोग्य सामग्री	2,51,779.21		
कंप्यूटर रखरखाव	39,573.72		
कार्यालय की बिजली शुल्क	2,25,32,026.20		
बिजली शुल्क - स्पाइस पार्क	33,15,975.00		
कृषि विकास व्यय	2,780.00		
ईंधन शुल्क	26,65,029.18		
उद्यान और परिसर रखरखाव व्यय	1,33,373.50		
हाउस कीपिंग /सफाई का शुल्क	14,79,826.04		
बीमा शुल्क	3,66,375.00		
इंटरनेट शुल्क	27,80,408.00		
कानूनी व्यय	13,58,456.00		
लाइसेंस शुल्क	3,66,866.00		
स्थानीय परिवहन व्यय	3,80,072.00		
स्थानीय परिवहन - ऑटो और टैक्सी - प्रतिपूर्ति	49,06,063.48		
बैठक और सेमिनार व्यय	52,86,291.14		
विविध व्यय	1,72,015.34		
कार्यालय उपभोग्य वस्तुएं	11,569.14		
कार्यालय किराया	1,25,02,384.28		
राजभाषा	73,774.00		
फोटोकॉपी शुल्क	8,257.72		
डाक शुल्क	8,50,505.31		
मुद्रण और स्टेशनरी व्यय	10,32,611.18		
विद्युत उपकरणों की खरीद	40,866.66		
दरें और कर	3,12,46,780.00		
जलपान	2,72,072.50		



टेलीफोन शुल्क की प्रतिपूर्ति - कर्मचारी	7,32,456.13				
सुरक्षा गार्ड व्यय	22,896.00				
स्टॉल ड्यूटी भत्ता	21,600.00				
समाचार पत्रों की सदस्यता	3,03,118.34				
प्रकाशनों की सदस्यता	57,915.00				
स्वच्छता कार्य व्यय	49,01,240.52				
टेलीफोन शुल्क	10,85,566.51				
यात्रा व्यय	1,04,30,868.11			33,76,611.00	28,82,84,047.12
कुल			23,44,49,309.07		28,82,84,047.12
अनुसूची-43 - निर्यातमुख्य उत्पादन इलायची					
विभिन्न लाभार्थियों के लिए इमदाद				20,35,28,063.30	
जी एस टी भुगतान				5,73,384.80	
परामर्श शुल्क				3,96,165.00	
स्थानीय परिवहन ऑटो और टैक्सी प्रतिपूर्ति				19,03,338.00	
बैठक व संगोष्ठी लागत				4,00,566.00	
पूर्णांक करना (राउंड ऑफ)				185.00	
प्रशिक्षुओं की वजीफा सामान्य				8,53,765.00	
प्रशिक्षुओं की वजीफा - अनुसूचित जाति				58,21,785.00	
प्रशिक्षुओं की वजीफा - अनुसूचित जनजाति				32,07,217.00	
एच आर डी प्रशिक्षण खर्च				2,82,770.00	
बीज और नर्सरी इनपुट की लागत				2,05,127.21	
व्यय ईपीएफ उपदान				50,110.00	
वेतन बैंड में वेतन					
अन्य खर्च					
कुल					21,72,22,476.31
अनुसूची-43(i) - इलायची की उत्पादकता में सुधार					21,72,22,476.31
बीज और नर्सरी इनपुट की लागत				10,10,795.00	



अनुग्रह राशि	3,16,038.00			
मजदूरों को अनुग्रह राशि/बोनस आदि	1,86,960.00			
कृषि विकास व्यय	5,13,204.00			
उर्वरक और खाद, नर्सरी और खेत	27,740.00			
आईजीएसटी इनपुट टैक्स	21,935.70			
श्रम मजदूरी	35,38,030.00			
कीटनाशक और कवकनाशक	40,523.00			
विभिन्न लाभार्थियों के लिए सब्सिडी	9,74,94,128.00		10,31,49,353.70	
कुल			10,31,49,353.70	
अनुसूची-43(ii) - मसालों की कटाई उपरंत गुणवत्ता उन्नयन				
अनुसंधान संस्थान/निर्यातक को सहायता	2,25,107.00			
कटाई मशीनों का खर्च	2,36,32,250.00			
विभिन्न लाभार्थियों के लिए सब्सिडी	7,94,27,576.52			
ट्रॉफियां और पुरस्कार	15,27,560.00			
प्रशिक्षुओं का वजीफा सामान्य	35,500.00			
प्रशिक्षुओं का वजीफा-अनुसूचित जाति	70,32,124.00			
प्रशिक्षुओं का वजीफा अनुसूचित जनजाति	26,55,691.00			
प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास	11,83,707.00			
कुल			11,57,19,515.52	
अनुसूची-44 - निर्यात विकास एवं संवर्धन				
विभिन्न लाभार्थियों के लिए इमदाद				4,04,03,790.00
सहायता अनुदान				16,10,394.00
अंतर्राष्ट्रीय मेलों के लिए खर्च				2,27,24,570.00
अनुसंधान संस्थान/निर्यातकों के लिए सहायता				16,95,189.00
जी एस टी भुगतान				93,25,352.03
मसाला पार्क				15,52,329.00
विद्युत मरम्मत एवं रखरखाव				8,07,581.00



मकानों का मरम्मत एवं रखरखाव				5,16,071.00
विज्ञापन शुल्क				36,93,603.25
हवाई टिकट खर्च				23,30,658.00
ए एम सी शुल्क				3,21,871.00
वार्षिक सदस्यता शुल्क (ए एस टी ए/ई एस ए /आई पी सी/आई ओ एस टी ए/आई टी सी/ आदि)				33,000.00
बैंड संवर्धन व्यय				33,34,000.00
क्रेता-विक्रेता बैठक				87,71,314.06
समादर/उपहार पैक				44,94,035.84
परामर्श शुल्क				31,18,010.47
उद्यमिता विकास कार्यक्रम				1,16,910.00
घरेलू मेलों का व्यय				2,00,40,181.00
पारिश्रमिक				80,500.00
कानूनी व्यय				2,89,810.00
स्थानीय परिवहन-ऑटो और टैक्सी की प्रतिपूर्ति				1,98,563.00
बैठक और सेमिनार व्यय				15,94,793.22
डाक शुल्क				8,10,013.00
मुद्रण और स्टेनरी व्यय				49,28,722.85
मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के परीक्षण शुल्क				1,54,000.00
सी आर ई एस की प्रतिपूर्ति				22,500.00
विद्युत मरम्मत और रखरखाव				20,000.00
भवन की मरम्मत और रखरखाव				1,55,456.00
पूर्णांक करना (राउंड ऑफ)				1.50
नमूनन भराई शुल्क				1,47,74,646.00
स्टॉल ड्यूटी भत्ता				44,000.00
प्रशिक्षुओं का वजीफा - सामान्य				13,09,306.00
प्रशिक्षुओं का वजीफा-अनुसूचित जाति				60,80,701.00
अन्य व्यय				-
कुल				15,53,51,872.22



अनुसूची-44(i) - गुणवत्ता सुधार						
जीएसटी भुगतान	44,29,693.14				1,27,20,812.71	
हवाई टिकट खर्च	-				46,998.00	
एएमसी शुल्क	35,10,856.39				79,64,497.89	
रसायन और अन्य प्रयोगशाला सामग्री	4,86,40,701.47				2,59,93,323.22	
कोडेक्स व्यय	6,35,884.00				1,00,47,912.00	
पूँजीगत व्यय के अलावा प्रयोगशाला व्यय	33,62,809.27				25,66,380.78	
विविध व्यय	-				52,325.00	
पीटीपी/आईएलसी कार्यक्रम	7,37,048.64				60,950.00	
गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला मान्यता शुल्क	7,06,485.00				4,24,980.00	
प्रयोगशाला उपकरण	2,76,77,288.00					
प्रयोगशाला उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव	29,28,073.39					
मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के परीक्षण शुल्क					2,81,00,512.00	
प्रयोगशाला उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव	20,24,722.52				29,35,356.81	
संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव	-				11,05,389.00	
भवन की मरम्मत और रखरखाव	-				2,19,584.60	
पूर्णांक करना (राउंड ऑफ)	-				6.79	
प्रशिक्षुओं का तजीफा - सामान्य	-				14,57,577.69	
प्रशिक्षुओं का तजीफा-अनुसूचित जाति	96,52,901.00				1,80,91,249.00	
प्रशिक्षुओं का तजीफा-अनुसूचित जन जाति	1,58,043.00					
स्थानांतरण यात्रा भत्ता						11,17,87,855.49
कुल				10,44,64,505.82		11,17,87,855.49
अनुसूची-44(ii) - बाजार विस्तार के लिए क्षमता बढ़ाना						
जीएसटी भुगतान	50,40,525.67					
विज्ञापन शुल्क	21,65,391.00					
परामर्श शुल्क	6,67,025.00					
बैठक और सेमिनार व्यय	4,75,371.67					
नेटवर्क, वेबसाइट निर्माण और रखरखाव	1,29,037.00					



डाक शुल्क	1,82,478.00		
मुद्रण और स्टेशनरी व्यय	12,58,505.00		
नमूनन भराई शुल्क	72,10,045.75		
प्रशिक्षुओं का वजीफा - सामान्य	4,21,868.00		
प्रशिक्षुओं का वजीफा-अनुसूचित जाति	19,00,345.00		
एएमसी शुल्क	47,91,384.06		
सीजीएसटी इनपुट टैक्स	40,52,709.84		
आईजीएसटी इनपुट टैक्स	77,55,001.79		
एसजीएसटी इनपुट टैक्स	40,52,709.84		
अनुसंधान संस्थान/निर्यातक को सहायता	37,40,554.00		
परामर्श शुल्क	1,38,600.00		
उर्वरक और खाद	3,000.00		
उद्यान और परिसर रखरखाव व्यय	57,034.00		
विविध व्यय	4,630.00		
डाक शुल्क	10,86,614.46		
बिजली की मरम्मत और रखरखाव	53,68,607.00		
मरम्मत और रखरखाव सामान्य	13,44,700.00		
नमूना भरने का शुल्क	2,34,62,616.90		
प्रकाशनों की सदस्यता	2,95,740.00		
विभिन्न लाभार्थियों के लिए सब्सिडी	1,41,12,040.50		
प्रशिक्षुओं का वजीफा - सामान्य	4,50,209.00		
प्रशिक्षुओं का वजीफा-अनुसूचित जाति	1,14,34,328.00		
प्रशिक्षुओं का वजीफा-अनुसूचित जन जाति	5,37,732.00		
प्रशिक्षण एचआरडी	26,600.00	10,21,65,403.48	
कुल		10,21,65,403.48	
अनुसूची-44(iii) - व्यापार संवर्धन			
विज्ञापन शुल्क	21,48,849.20		
क्रैता-विक्रेता बैठक	49,45,012.61		



सीजीएसटी इनपुट टैक्स	12,11,566.67		
घरेलू मेलों का व्यय	1,76,69,004.43		
अंतर्राष्ट्रीय मेलों का व्यय	7,78,99,195.00		
आईजीएसटी इनपुट टैक्स	58,23,815.06		
बैठक और सेमिनार का खर्च	1,01,60,683.50		
मुद्रण और स्टेशनरी का खर्च	29,16,992.80		
एसजीएसटी इनपुट टैक्स	12,11,566.67		
विभिन्न लाभार्थियों के लिए इमदाद	62,61,062.00	13,02,47,747.94	
कुल		13,02,47,747.94	
अनुसूची-44(iv) तकनीकी हस्तक्षेप			
एमसी शुल्क	60,356.00		
अनुसंधान संस्थान/निर्यातक को सहायता	20,00,000.00		
सीजीएसटी इनपुट टैक्स	3,873.33		
आईजीएसटी इनपुट टैक्स	9,369.00		
नेटवर्क, वेबसाइट निर्माण और रखरखाव	85,505.00		
एसजीएसटी इनपुट टैक्स	3,873.33		
प्रशिक्षुओं का सामान्य वजीफा	23,05,583.00	44,68,559.66	
कुल		44,68,559.66	
अनुसूची-45 - निर्यातोन्मुख अनुसंधान - इलायची			
जीएसटी भुगतान			31,474.22
बायोएजेंट उत्पादन			48,173.00
परामर्श शुल्क			56,685.00
बीज और नर्सरी इनपुट की लागत			13,500.00
ईपीएफ ग्रेज्युटी			3,68,166.00
कृषि विकास व्यय			30,525.00
उद्यान और परिसर रखरखाव व्यय			23,030.00
सिंचाई उपकरण			8,556.94
पूंजीगत व्यय के अलावा प्रयोगशाला व्यय			1,42,898.68



नर्सरी और फार्मों की मजदूरी				3,72,129.00	
विद्युत मरम्मत और रखरखाव				24,15,200.00	
प्रशिक्षुओं का वजीफा-सामान्य				2,10,172.00	
प्रशिक्षुओं का वजीफा - अनुसूचित जाति				15,67,957.00	
प्रशिक्षुओं का वजीफा - अनुसूचित जन जाति				11,72,855.00	
				64,61,321.84	
कुल				64,61,321.84	
अनुसूची-45(i) छोटी एवं बड़ी इलायची पर अनुसंधान					
जीएसटी भुगतान		96,916.95			
बायोएजेंट उत्पादन		92,572.61			
कृषि विकास व्यय		6,53,367.54			
उद्यान एवं परिसर रखरखाव व्यय		73,185.00			
पूँजीगत व्यय के अलावा प्रयोगशाला व्यय		3,19,255.26			
नर्सरी एवं फार्मों के लिए श्रम मजदूरी		39,98,569.00			
फार्म/नर्सरी के लिए श्रम कल्याण व्यय		89,761.15			
बैठक एवं सेमीनार व्यय		2,37,856.44			
शोध अध्ययन		78,696.00			
प्रशिक्षुओं का वजीफा - सामान्य		14,11,738.00			
प्रशिक्षुओं का वजीफा - अनुसूचित जाति		27,14,324.00			
प्रशिक्षुओं का वजीफा - अनुसूचित जन जाति		6,19,485.00			
उर्वरक एवं खाद		1,37,727.86			
कृषि मौसम विज्ञान		15,367.00			
परिसंपत्ति		75,89,500.00			
अनुसंधान संस्थान/निर्यातक को सहायता		7,00,000.00			
बायोएजेंट उत्पादन		13,214.50			
सीजीएसटी इनपुट टैक्स		24,271.25			
बीज एवं नर्सरी इनपुट की लागत		54,482.37			
अनुग्रह राशि		8,143.00			



मजदूरों को अनुग्रह राशि/बोनस आदि	3,50,153.00			
कृषि विकास व्यय	6,93,237.58			
उर्वरक एवं खाद	46,809.66			
उद्यान एवं परिसर रखरखाव व्यय	21,390.00			
आईजीएसटी इनपुट टैक्स	33,500.45			
सिंचाई उपकरण	8,255.53			
पूँजीगत व्यय के अलावा प्रयोगशाला व्यय	4,62,472.48			
श्रमिक मजदूरी	38,79,130.36			
श्रम कल्याण व्यय	64,325.00			
बैठक एवं संगोष्ठी व्यय	8,08,123.84			
कीटनाशक और कवकनाशी	50,809.65			
शोध अध्ययन	69,308.58			
एसजीएसटी इनपुट कर	24,271.25			
प्रशिक्षु वजीफा	41,83,648.00			
मौसम सुरक्षा शुल्क	600.00			
	2,96,24,468.31			
कुल	2,96,24,468.31			
अनुसूची-46- मानव संसाधन विकास एवं कार्य				
जीएसटी भुगतान	-		3,143.00	
बैठक एवं सेमिनार व्यय	-		6,62,563.84	
गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम	-		16,98,944.00	
रखरखाव व्यय	-			
प्रशिक्षकों का वजीफा - अनुसूचित जाति	-		2,44,421.00	
प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास	-		3,31,300.00	29,40,371.84
कुल				29,40,371.84
अनुसूची-46(i) क्षमता निर्माण और कौशल विकास				
सीजीएसटी इनपुट टैक्स			17,818.22	
खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और बाजार संपर्क			57,07,428.00	



आईजीएसटी इनपुट टैक्स	23,400.00			
बैठक और सेमिनार व्यय	8,300.00			
मिशन क्लीन स्पाइसेज	1,68,711.00			
गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम	22,40,321.00			
एसजीएसटी इनपुट टैक्स	17,818.22			
मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण	7,32,533.20	89,16,329.64		
कुल		89,16,329.64		
अनुसूची-47-बाह्य वित्तपोषित/ए एस आई डी ई योजनाएं				
ए एस आई डी ई - गुना कैपिटल				
ए एस आई डी ई - टाईज़ सिविकम	98,47,716.00		12,74,00,000.00	
पॉलीसर्फेट का मूल्यांकन			3,83,574.96	
नाबार्ड सिविकम	94,376.00			
आरकेवीवाई आंध्र प्रदेश	5,93,200.00			
विदेश मंत्रालय म्यांमार बड़ी इलायची	2,62,028.00			
बायर परियोजना	3,03,423.00		6,40,933.72	
ई-मसाले परियोजना सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			1,01,08,131.65	
महिला वैज्ञानिक योजना	3,363.66			
अदरक परियोजना बस्तर	1,76,750.00			
फ्लूपिसिमिन का मूल्यांकन	4,33,916.89		16,436.42	
मसाला पार्क के लिए बुनियादी ढाँचा			11,62,460.00	
काली मिर्च पर एकीकृत परियोजना	4,00,000.00		20,859.00	
नैनो उर्वरकों का मूल्यांकन	1,70,127.00		75,004.72	
रिस्पेक्टोरम का मूल्यांकन	11,70,970.16		10,70,485.01	
हल्दी प्रतिपूर्ति पर एम आई डी एच एकीकृत परियोजना	28,30,000.00		27,04,223.00	
मसालों के निर्यात में गुणवत्ता मानक			1,20,51,038.00	
हंक (रैलीज) के मूल्यांकन पर अध्ययन			345.00	
सिंजेंटा कवकनाशी सकलेशपुर	3,85,267.53		60,484.00	
विश्व व्यापार संगठन -एस टी डी एफ	30,28,697.00		58,04,266.00	



राज्य बागवानी मिशन -केरल परियोजना-आई सी आर आई	71,41,516.29		1,30,47,633.00		
स्पिनेटोरम का मूल्यांकन - कॅपिटल		2,68,41,351.53			17,45,45,874.48
कुल		2,68,41,351.53			17,45,45,874.48
अनुसूची-48 - व्यय - स्पाईस एक्सचेंज इंडिया					
परामर्श शुल्क		-	10,16,400.00		10,16,400.00
कुल		-			10,16,400.00
अनुसूची-49 - बाहरी पार्टियों से अग्रिम/जमा					
पार्टियों से बयाना जमा राशि एवं सुरक्षा जमा	1,49,500.00	1,49,500.00	20,00,229.00		20,00,229.00
कुल		1,49,500.00			20,00,229.00
अनुसूची-50 - विप्रेषण प्रतीक्षित वसूलियां					
विप्रेषण प्रतीक्षित वसूलियां	10,59,32,521.49	10,59,32,521.49	20,86,54,848.88		20,86,54,848.88
कुल		10,59,32,521.49			20,86,54,848.88
अनुसूची-51 - चालू देयताएं देय					
देय समूह बीमा दावा	13,33,100.00		25,27,124.00		
देय समूह बीमा	18,86,760.00		19,73,160.00		
देय जीवन बीमा निगम	25,63,164.00		25,77,089.00		
देय सीपीएफ	3,16,60,752.00		2,95,81,736.00		
अन्य देय	3,51,88,934.76				
सेवानिवृत्ति लाभ देय			1,40,37,145.00		
ईपीएफ देय	15,68,453.00		16,10,240.00		
सोसाइटी देय	20,61,735.00		1,95,57,580.00		
पेंशन कम्प्यूटेशन	1,12,21,914.00	8,74,84,812.76	1,66,90,077.00		8,85,54,151.00
कुल		8,74,84,812.76			8,85,54,151.00
अनुसूची-52 स्टाफ़ के लिए ब्याज सहित अग्रिम					
कंप्यूटर अग्रिम	-	-	57,020.00		57,020.00
कुल		-			57,020.00



अनुसूची-53 स्टाफ़ के लिए ब्याज रहित अग्रिम							
यात्रा अग्रिम	-					20,216.00	
एल टी सी अग्रिम	-					79,150.00	
चिकित्सा अग्रिम	-					1,77,079.00	
							2,76,445.00
कुल							2,76,445.00
अनुसूची-54 अंतिम बैंक शेष							
परिसंपत्ति-बैंक खाता मण्डल कार्यालय अमरला : इंडियन बैंक - 7695749810	5,642.00					5,000.00	
परिसंपत्ति-बैंक खाता मण्डल कार्यालय ऐजोल : एस बी आई: - 34329142419	11,409.20					11,446.20	
परिसंपत्ति-बैंक खाता मण्डल कार्यालय हैदराबाद : सी बी आई खाता - 3626434493	53,083.18					99,057.18	
परिसंपत्ति-बैंक खाता मण्डल कार्यालय इटानगर : एस बी आई - 30809004797	2,000.00					2,000.00	
परिसंपत्ति-बैंक खाता मण्डल कार्यालय कलिपोंग :एस बी आई खाता - 30982126228	10,000.00					9,999.94	
परिसंपत्ति-बैंक खाता मण्डल कार्यालय मडिकेरी : एस बी आई - 57046308408	10,000.00					15,000.00	
परिसंपत्ति-बैंक खाता मण्डल कार्यालय मांगन : एस बी आई - 11714364569	1,000.00					918.00	
परिसंपत्ति-बैंक खाता मण्डल कार्यालय नेडुम्कंडम : यू बी आई खाता - 455101010050062	5,118.00					5,000.00	
परिसंपत्ति-बैंक खाता मण्डल कार्यालय पुडुच्ची : यू बी आई - 336901010029049	1,76,258.00					12,735.87	
परिसंपत्ति-बैंक खाता मण्डल कार्यालय राय बरेली : यू बी आई खाता - 693701010050175	10,000.00					10,000.00	
परिसंपत्ति-बैंक खाता मण्डल कार्यालय राजकुमारी : यू बी आई - 372201010034008	5,000.00					15,000.44	
परिसंपत्ति-बैंक खाता मण्डल कार्यालय विमोगा : एस बी आई - 10624023356	10,000.00					14,999.72	
परिसंपत्ति-बैंक खाता फार्म कार्यालय आईगूर : एस बी आई - 30675727570	10,000.00					10,000.00	
परिसंपत्ति-बैंक खाता फार्म कार्यालय बेलगोला : कर्नाटक - 5362500100373601	4,999.16					1,000.00	
परिसंपत्ति-बैंक खाता फार्म कार्यालय बेलिगेरी : एस बी आई - 37275563035	10,000.00					10,000.00	
परिसंपत्ति-बैंक खाता फार्म कार्यालय बेष्टुदामने : एस बी आई - 54026085338	1,000.00					1,000.00	
परिसंपत्ति-बैंक खाता फार्म कार्यालय येसलूर : कानरा - 0549201000519	997.00					991.00	
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय अडिमाली : यू बी आई - 352501010033022	5,000.00					5,000.00	
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय अहम्मदाबाद : एस बी आई - 36694408081	15,000.02					10,000.02	
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय बतलगुंडु : एस बी आई - 38173387748	10,000.69					6,547.69	
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय चूराचोदपुर : एस बी आई - 30832209946	2,000.00					2,000.00	



परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय दीमापुर : यू बी आई - 641301010050178	5,000.00	4,881.99
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय एलम्पारा : एस बी आई - 67090372678	5,000.00	5,000.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय रोयसिंग : यू बी आई - 574401010050014	5,008.00	5,002.34
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय कलपेछा : एस बी आई - 67092030564	10,000.05	10,000.05
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय कट्टपना : एस बी आई - 30851492807	10,000.00	10,000.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय कोहिमा : एफ डी आर एल - 196702000000437	5,000.00	4,998.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय कोष्ठा : एस बी आई - 64045273265	1,000.00	1,000.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय कोरापुट : एस बी आई - 35755218737	2,000.00	1,999.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय कुमिली : यू बी आई - 553801010050080	10,494.68	10,494.68
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय मुडिगरे : एस बी आई - 64076625928	1,000.00	1,000.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय नागरकोविल : यू बी आई - 336101010294351	4,997.34	4,797.91
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय नमसाई : एस बी आई - 35268836632	10,000.00	10,000.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय पडेरु : यू बी आई - 329201010750109	1,047.48	3,375.38
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय पम्पाडुम्पारा : यू बी आई - 455102010024638	1,000.00	1,000.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय पसीघाट : सी एन आर बी - 4073201000043	5,000.00	5,013.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय पटना : एस बी आई - 35161784785	18,000.14	18,000.14
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय पोंडा : एस बी आई - 40601690538	10,000.00	10,000.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय राजक्काड : यू बी आई - 372302010015511	1,000.00	997.18
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय रोयिंग : एच डी एफ सी - 50200011008801	10,000.00	10,000.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय शंतनपारा : यू बी आई - 372202010010155	1,000.00	1,002.50
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय शिल्लोंग : एस बी आई - 30324640112	3,000.00	3,000.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय सोमवारपेट : एस बी आई - 41052532597	10,000.00	10,000.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय उडुम्बनचोला : यू बी आई - 423401100050000	5,000.00	5,000.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय वनपूर : बी ओ बी - 83130100002676	1,027.00	1,000.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता क्षेत्र कार्यालय ज़ीरो : एस बी आई - 35134795813	5,000.13	5,000.13
परिसंपत्ति-बैंक खाता मुख्यालय : एक्सिस बैंक एन पी एस खाता -91302003724497	30,82,646.47	28,02,194.47
परिसंपत्ति-बैंक खाता मुख्यालय : एक्सिस बैंक सी एन ए खाता -922010030162903	9,77,396.25	2,27,478.25
परिसंपत्ति-बैंक खाता मुख्यालय : बडौदा बैंक : सी आर ई एस -374502000000222	3,72,26,239.90	2,15,45,603.69



परिसंपत्ति-बैंक खाता मुख्यालय : एच डी एफ सी : चालू खाता -50200062709730	26,25,856.00	3,26,346.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता मुख्यालय : पी एन बी चालू खाता -7176002100002239	8,38,68,896.28	2,69,89,702.31
परिसंपत्ति-बैंक खाता मुख्यालय : पी एन बी प्रॉप्टि खाता -7176002100002354	2,10,19,649.64	1,83,44,437.59
परिसंपत्ति-बैंक खाता मुख्यालय : पी एन बी नमूना जांच खाता -7176002100002345	77,345.05	98,45,344.66
परिसंपत्ति-बैंक खाता मुख्यालय : एस बी आई चालू खाता -57067470909	25,52,085.99	46,92,209.99
परिसंपत्ति-बैंक खाता मुख्यालय : एस बी आई प्रॉप्टि खाता - 41612063686	8,20,07,024.63	6,94,61,154.01
परिसंपत्ति-बैंक खाता मुख्यालय : येस बैंक 075988700000074	1,16,24,402.42	
परिसंपत्ति-बैंक खाता आई सी आर आई मैलाडुंपारा: एस बी आई-57050612514	68,25,401.99	63,26,908.07
परिसंपत्ति-बैंक खाता आई सी आर आई मैलाडुंपारा: यू बी आई - 455102010027092	26,586.99	29,170.65
परिसंपत्ति-बैंक खाता आई सी आर आई सकलेशपुर : एस बी आई - 64039256044	13,43,448.12	16,14,928.49
परिसंपत्ति-बैंक खाता आई सी आर आई तादोंग : एस बी आई - 10738827085	20,788.05	4,12,669.66
परिसंपत्ति-बैंक खाता समर्क कार्यालय हावेरी : एस बी आई - 35570626186	10,000.00	10,000.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता गु मू प्र., कंडला: एक्सिस - 915020058866482	-	2.02
परिसंपत्ति-बैंक खाता गु मू प्र., नरेला : एस बी आई - 62384074847	1,16,331.09	2,03,924.09
परिसंपत्ति-बैंक खाता गु मू प्र./प्रा.का. तूतिकोरिन : आई ओ बी- 014302000000596	2,42,000.00	1,590.01
परिसंपत्ति-बैंक खाता प्रादेशिक कार्यालय बंगलुरु : एस बी आई - 35087812026	9,985.86	9,999.95
परिसंपत्ति-बैंक खाता प्रादेशिक कार्यालय बाराबंकी : एस बी आई - 35077617935	10,000.00	10,000.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता प्रादेशिक कार्यालय बोडिनायकनूर : यू बी आई - 335201010035105	1,29,157.29	16,126.50
परिसंपत्ति-बैंक खाता प्रादेशिक कार्यालय इरोड : एस बी आई - 34922512679	5,000.00	5,000.84
परिसंपत्ति-बैंक खाता प्रादेशिक कार्यालय गांतोक : एस बी आई - 110186602438	10,000.00	10,000.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता प्रादेशिक कार्यालय गुना : एस बी आई - 31698842249	10,000.00	10,000.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता प्रादेशिक कार्यालय गुंटूर : यू बी आई - 409002010574263	6,924.09	1,000.71
परिसंपत्ति-बैंक खाता प्रादेशिक कार्यालय गुवाहटी : यू बी आई - 380601010029168	10,000.00	10,000.42
परिसंपत्ति-बैंक खाता प्रादेशिक कार्यालय जोधपुर : एस बी आई - 30936314772	5,000.00	1,05,000.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता प्रादेशिक कार्यालय मुम्बई : एस बी आई - 62037101256	4,65,412.88	1,34,109.99
परिसंपत्ति-बैंक खाता प्रादेशिक कार्यालय नई दिल्ली : इंडियन - 883075118	5,000.57	2,000.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता प्रादेशिक कार्यालय निजामाबाद : एस बी आई - 35628136521	9,997.64	9,999.86
परिसंपत्ति-बैंक खाता प्रादेशिक कार्यालय सकलेशपुर : एस बी आई - 54030030186	5,000.00	10,000.00



परिसंपत्ति-बैंक खाता प्रादेशिक कार्यालय श्रीनगर : एस बी आई - 40581089910	15,905.08			53,511.08
परिसंपत्ति-बैंक खाता प्रादेशिक कार्यालय ऊंझा: आई डी बी आई - 0330102000005463	10,000.00			10,000.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता प्रादेशिक कार्यालय वारंगल : एस बी आई - 62099220340	10,567.31			10,000.00
परिसंपत्ति-बैंक खाता प्रादेशिक कार्यालय /गु मू प्र., चेन्नई : आई ओ बी - 179901000007770	3,45,788.28			5,544.90
परिसंपत्ति-बैंक खाता प्रादेशिक कार्यालय /गु मू प्र., कोलकता : एस बी आई - 38436383521	10,000.00		2,37,386.88	
परिसंपत्ति-बैंक खाता मसाला पार्क छिंदवाड़ा : एस बी आई - 30189351096	10,000.00		10,000.00	
परिसंपत्ति-बैंक खाता मसाला पार्क रामगंजमंडी, कोटा: यू बी आई - 723601010050158	8,000.70		4,991.63	
परिसंपत्ति-बैंक खाता मसाला पार्क शिवगंगा : आई ओ बी - 8402000002564	9,995.40	25,52,46,916.04		9,995.51
कुल		25,52,46,916.04		16,38,98,590.59
अनुपूची - 55 - इति बैंक शेष (जमा खाते में)				
परिसम्पत्ती: अत्यावधि जमा - सामान्य	1,33,30,54,155.00		1,11,74,88,575.00	
परिसम्पत्ती: अत्यावधि जमा - पेंशन	1,55,05,67,985.00	2,88,36,22,140.00	1,32,43,04,741.00	2,44,17,93,316.00
कुल		2,88,36,22,140.00		2,44,17,93,316.00



महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ व लेखों पर टिप्पणियाँ

अनुसूची - 56 - लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखाकरण परिपाटी

बोर्ड आम तौर पर आय-व्यय लेखे और तुलन-पत्र तैयार करते समय प्रोद्भवन आधार पर लेखांकन करता है। हालाँकि, वेतन और महंगाई भत्ते (डीए) के बकाया, अवकाश नकदीकरण, सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य समान देनदारियों जैसी कुछ मदों को नकद आधार पर मान्यता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रयोगशाला और अन्य कार्यालय उपकरणों के वार्षिक रखरखाव शुल्क का भी वास्तविक नकद आधार पर लेखा किया जाता है। वित्तीय विवरण परंपरागत लागत परिपाटी के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. मालसूची मूल्यांकन

आई सी ए आई द्वारा जारी, लेखाकरण मानक 2, मालसूचियों के मूल्यांकन के अनुसार, मालसूचियों का मूल्य, लागत में या वसूल करने योग्य निवल मूल्य, जो भी कम हो, में लगाया जाता है। जैसेकि 31-03-2025 को है, मालसूची का शेष स्टॉक ₹ 2,52,72,972.75/- का है, जिसमें इलायची, कॉफी, कालीमिर्च और रसायन शामिल हैं।

3. निवेश

जहाँ पर लागू हो, निवेशों को 'दीर्घकालीन निवेश' और 'चालू निवेश' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दीर्घकालीन निवेशों को लागत पर लिया जाता है। चालू निवेशों को निम्नतम लागत एवं उचित मूल्य में लिया जाता है।

4. स्थिर परिसंपत्तियाँ

स्थिर परिसंपत्तियाँ आवक मालभाडा, शुल्क, कर, प्रत्यक्ष व्यय और अभिग्रहण से संबंधित व्यय को मिलाकर अभिग्रहण या निर्माण की लागत में दिखाई जाती है।

5. मूल्यहास

बोर्ड ने 01-04-2008 से लेकर अपनी स्थिर परिसंपत्तियों पर आयकर नियमों में उल्लिखित दरों में मूल्यहास लगाया है। सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को अवलिखित मूल्य (डबल्यू डी वी) तरीके के आधार पर प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों, जिसका प्रयोग 180 दिनों से कम समय के लिए किया जाता है, की जोड़ई के संबंध में मूल्यहास, लागू दर के आधे में प्रदान किया गया है।

6. विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में आँकी गई लेनदेन की गणना आई सी ए आई द्वारा जारी ए एस-11 का अनुपालन करते हुए ऐसी लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर की जाती है।

7. राजस्व मान्यता

(क) सहायता अनुदान और इमदाद: बोर्ड के योजनाधीन कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता भारत सरकार के सहायता अनुदानों और इमदादों के ज़रिए प्राप्त हो जाती है। इनका लेखा प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। बोर्ड द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जाने वाले वार्षिक बजट के अनुमोदन के ज़रिए यह प्राप्त की जाती है।

(ख) आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन: प्राप्ति के प्रमुख स्रोत मसाले नमूनों के विश्लेषणात्मक चार्ज, पादपों, फार्म उत्पादों की बिक्री से आय, पत्रिकाओं/सावधि प्रकाशनों के लिए प्राप्त चंदा, निर्यातकों से प्राप्त रजिस्ट्रीकरण शुल्क और



मसालापार्कों से प्राप्त विकास शुल्क, प्रयोक्ता शुल्क व पट्टे का किराया आदि हैं। इन्हें वास्तविक आधार पर मान्यता दी जाती है।

8. सरकारी अनुदान/इमदाद

8.1 सरकारी अनुदानों/इमदादों का हिसाब वसूली के आधार पर रखा जाता है।

8.2 सरकारी अनुदान को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस-12 के अनुपालनार्थ पुंजी दृष्टिकोण और आय दृष्टिकोण, जो भी लागू हो, के अधीन लिया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ; नामत उपादान, पेंशन सारांशीकरण के लिए प्रावधान और संचित छुट्टियों के नकदीकरण लाभ के लिए प्रावधान वर्ष 2021-22 के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार खाते में किया जाता है। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी लाभ ₹ 348.72 करोड़ है, जिसमें से बोर्ड ने 31.03.2024 तक ₹ 300.55 करोड़ पहले ही प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 24.77 करोड़ की राशि प्रदान की गई है:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. समूह अधिवार्षिता | - | ₹ 19.07 करोड़ |
| 2. समूह उपदान | - | ₹ 2.90 करोड़ |
| 3. छुट्टी का नकदीकरण | - | ₹ 2.80 करोड़ |

10. परिसंपत्तियों की क्षति

जैसे कि तुलनपत्र की तारीख को है, बोर्ड ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 28 के अनुसरण में परिसंपत्तियों के वसूलीयोग्य मूल्य का मूल्यांकन किया है। जैसे कि तुलनपत्र की तारीख में है, क्षतिहानि, यदि कोई है तो, का पता लगाने के लिए परिसंपत्तियों की रखावराशि की समीक्षा की गई। जैसेकि मूल्यांकन तारीख को है, परिसंपत्तियों की वसूलीयोग्य राशि प्रत्येक परिसंपत्तियों की रखावराशि से अधिक है। बोर्ड ने वित्तीय विवरणी में किसी क्षतिहानि के लिए अपने में कोई प्रावधान नहीं बनाया है।

11. सामान्य भविष्य निधि

बोर्ड के सामान्य भविष्य निधि का लेखा अनुसूची संख्या 3 के अंतर्गत दर्शाया गया है।

अनुसूची-57. लेखाओं पर टिप्पणी

1. मसालों के निर्यात में गुणवत्ता मानकों के रखरखाव के लिए उद्दिष्ट निधि

बोर्ड ने मसालों के निर्यात में गुणवत्ता मानक बनाए रखने के एकल लक्ष्य के साथ कोच्ची, मुम्बई, गुण्टूर, दिल्ली के नरेला, तूत्तिकोरिन, चेन्नई, कोलकाता और गुजरात के कांडला में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएँ (गु.मू.प्र.) पहले ही स्थापित की हैं। बोर्ड कोलकाता में भी गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला स्थापित करने की प्रक्रिया में है। स्पाइसेस बोर्ड निर्यातकों से विश्लेषणात्मक शुल्क एकत्रित करता है और गुणवत्ता उन्नयन, मसालों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों में सामंजस्य और वैश्विक मानकों के साथ अपनी प्रक्रियाओं के बेंचमार्किंग के लिए उसके एक हिस्से का उपयोग करता है। बोर्ड निर्यात संवर्धन का प्रयास भी करता है, जिसमें प्रचार, ब्रैंडिंग, विपणन, भारतीय मसालों की उत्कृष्ट गुणवत्ता को विशेष महत्व देना और मसाला भवन प्रमाणन शामिल है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के दौरान, संगृहीत विश्लेषणात्मक चार्ज में से ₹ 2.00 करोड़ की राशि उद्दिष्ट की है।



2. मसाला पार्कों की अवसंरचना के रखरखाव के लिए उद्दिष्ट निधि

बोर्ड ने मसाला उत्पादक क्षेत्रों के समीप मसालों के फसलोत्तर व प्रसंस्करण कार्य, दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर की सामान्य अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश के छिन्दवाडा और गुना, केरल के पुट्टुडी, राजस्थान के जोधपुर और कोट्टा, तमिलनाडु के शिवगंगा, आंध्र प्रदेश के गुंटूर, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मसाला पार्कों की स्थापना पहले ही की है। उपर्युक्त मसाला पार्कों की स्थापना हेतु खर्च का वित्तीय प्रबंधन प्लान निधि और ए एस आई डी ई से प्राप्त सहायता दोनों से किया जाता है, जो इस कार्य के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मसाला पार्क के रखरखाव के लिए भी प्रयाप्त रकम अपेक्षित है। अतः विकास चार्ज/पट्टा राशि तथा प्रयोक्ता शुल्क के रूप में प्रवृत्त मसाला पार्कों से प्राप्त आय, जो कि ₹ 1.07 करोड़ है, को मसाला पार्कों को पूरा करने/उनके रखरखाव के लिए उद्दिष्ट की गई है।

3. स्पाइसेस बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि के लिए उद्दिष्ट निधि

बोर्ड की वर्ष 2013-2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा (पी डी सी ए) ने पेंशन, उपादान और छुट्टी के नकदीकरण के रूप में स्पाइसेस बोर्ड द्वारा कर्मचारियों के विषय में देयताओं के लिए कोई प्रावधान न होने के कारण ₹ 111.69 करोड़ का वस्तुगत प्रभाव पाया है। तदनुसार बोर्ड को पी डी सी ए के सामने मंत्रालय से इस संबंध में एक सुविधापत्र प्रस्तुत करना पड़ा था कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से जो और जैसा निर्णय लिया जाता है, बोर्ड की अनुमोदित बजट के भाग के रूप में संबंधित वर्षों में सेवानिवृत्त होनेवाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित पेंशन देयताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रावधान बनाया जाएगा।

इन परिस्थितियों में, बोर्ड इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कर्मचारियों के लिए एक पेंशन निधि स्थापित करना उचित मानता है। तदनुसार इस संबंध में, जैसे कि 31-03-2021 को है, बोर्ड की पेंशन देयताओं का एक बीमांकिक मूल्यांकन तैयार करने का कार्य एक एजेंसी को सौंपा गया। बीमांकिक मूल्यांकन, जैसेकि 31.03.2021 को है, ₹ 348.72 करोड़ (₹ 319.07 करोड़ पेंशन के लिए, ₹ 18.54 करोड़ उपदान के लिए और ₹ 11.11 करोड़ छुट्टी नकदीकरण के लिए) है।

सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में बोर्ड की देयताओं की पूर्ति के लिए बोर्ड ने स्पाइसेस बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि के रूप में प्रारंभिक तौर पर वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 10 करोड़, जैसेकि पिछले साल किया था, वर्ष 2022-23 में प्राप्त विश्लेषणात्मक शुल्क में से उद्दिष्ट किए हैं। अपेक्षित राशि जमा होने तक या मंत्रालय से बजटीय निर्मोचन या दूसरे तरीके से यह प्राप्त होने तक, यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इस प्रकार से उद्दिष्ट राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में आवधिक जमा में जमा की गई है।

4. बाहरी एजेंसियों से प्राप्त निधियाँ

ए एस आई डी ई/बाहरी एजेंसियों से प्राप्त निधियों को एक राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते के ज़रिए संचालित किया जाता है। किसी एक योजना के तहत प्राप्त निधि उस योजना के लिए प्रस्तावित व्यय के लिए पर्याप्त नहीं होती। ऐसे मामलों में कमियों को पूरा करने के लिए बोर्ड की निधियों का उपयोग किया जाता है। एएसआईडीई/बाहरी एजेंसियों के तहत निधीयन भारत सरकार द्वारा निर्मोचित प्लान/नॉनप्लान निधि से भिन्न, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होता है। वैसे ही, बोर्ड की निधियों व योजना निधियों के लेखों का रखरखाव व्यावहारिक सुविधा के लिए एकसाथ किया जाता है।

1. अनुसूची-3 में, टी आई ई एस -सिक्किम के अंतर्गत धर्मस्व निधि का अथ शेष जैसे कि 01.04.2023 को है, ₹ 8.87 करोड़ है। सिक्किम में मसाला कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए संपूर्ण निधि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग गंगटोक को हस्तांतरित कर दी गई। उपलब्ध शेष ₹ 0.98 करोड़, टी आई ई एस निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज से संबंधित है। इसे चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की समेकित निधि में वापस कर दिया गया है और वर्तमान शेष शून्य है।

2. अनुसूची-3 में, राज्य बागवानी मिशन केरल के अंतर्गत धर्मस्व निधि का अथ शेष जैसे कि 01.04.2023 को है, ₹ 1.30 करोड़ है; जिसमें से इलायची में कीटनाशकों के परीक्षण के लिए जी सी एम एस-एम एस मशीन प्राप्त करने के लिए ₹ 1.27 करोड़ का भुगतान किया गया था। इसे बोर्ड के लेखा पुस्तकों में परिसंपत्ति के रूप में नहीं दिखाया गया है, क्योंकि यह योजना बाहरी रूप से वित्त पोषित है।



5. स्थिर परिसम्पत्तियों में परिवर्धन - प्लान निधि (समग्र निधि में अंतरित)

बोर्ड द्वारा प्राप्त अनुदान सामान्य प्रयोजन के अनुदान है। बोर्ड की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अनुदान प्राप्त किए जाते हैं। निधियों का उपयोग किसानों तथा निर्यातकों के लिए अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने हेतु स्थिर परिसम्पत्तियों की स्थापना या अधिग्रहण के लिए भी किया जाता है। इन्हीं निधियों से बोर्ड के परिचालन व्यय की पूर्ति भी की जाती है। चूंकि अनुदान विनिर्दिष्ट रूप से स्थिर परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए उद्दिष्ट नहीं है, परिसंपत्ति मूल्य से अनुदान राशि की कटौती करने या उसे आस्थगित राजस्व के रूप में समझने का सवाल नहीं उठता।

6. बाह्य निधिक/ ए एस आई डी ई योजनाओं से कराया गया जमा

जैसेकि 31.03.2025 को है जमा खातों में बैंक में शेष राशि, बाह्य निधिक/ए एस आई डी ई योजनाओं से कराई गई ₹ 133.31 करोड़ की जमा राशि सहित ₹ 288.36 करोड़ की है।

7. आकस्मिक देयताएँ

1.1 संस्था के खिलाफ के दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किए गए रुपए शून्य (पिछले वर्ष रुपए शून्य)

1.2 इनके बारे में कि:

- संस्था द्वारा /की ओर से दी गई बैंक गैरंटी - रुपए शून्य (पिछले वर्ष रुपए शून्य)
- संस्था की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साखपत्र रुपए शून्य (पिछले वर्ष रुपए शून्य)
- बैंकों के साथ भुनाए गए बिल रुपए शून्य (पिछले वर्ष रुपए शून्य)

1.3 निम्नलिखित बातों पर विवादग्रस्त माँग: आयकर रुपए शून्य (पिछले वर्ष रुपए शून्य) बिक्री कर रु. शून्य (पिछले वर्ष रुपए शून्य), नगरपालिका कर: शून्य (पिछले वर्ष रुपए शून्य)

1.4 आदेशों के गैर निष्पादन के लिए व्यक्तियों से प्राप्त, लेकिन संस्था द्वारा विरोध किए गए दावे के बारे में रुपए शून्य (पिछले वर्ष रुपए शून्य)

1.5 कोलकाता उच्च न्यायालय में सिवकॉन कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड के साथ ₹ 9.77 करोड़ का मध्यस्थता मामला लंबित है। लेकिन कार्य-आदेश के अनुसार यदि ठेकेदार निर्धारित समय में कार्य पूरा कर लेता है तो शेष कार्य के निपटान के लिए केवल ₹ 0.65 करोड़ ही लंबित हैं। इस पर विचार करते हुए, ठेकेदार द्वारा किया गया दावा न्यायोचित नहीं है और इसलिए ठेकेदार द्वारा दावा की गई विशाल राशि के लिए आकस्मिक दायित्व प्रदान नहीं किया जाता है।

1.6 राजस्थान सरकार ने मसाला पार्क, कोटा की स्थापना के लिए बोर्ड को राजस्थान के कोटा जिले के रामगंजमढी में 12.14 हेक्टेयर भूमि 99 वर्षों के लिए निःशुल्क आवंटित की। भूमि आवंटन के बाद, जिला कलेक्टर ने वर्ष 2016 में बोर्ड से भूमि की लागत के रूप में ₹ 1.33 करोड़ जमा करने का अनुरोध किया। इस मामले में एक अदालती मामला लंबित है। यदि अदालत का फैसला बोर्ड के पक्ष में नहीं आता है, तो बोर्ड पर राजस्थान सरकार को ₹ 1.33 करोड़ का भुगतान करने का दायित्व होगा।

1.7 दिनांक 31.3.2025 तक बोर्ड ने ब्रंड संवर्धन योजना के तहत उन्हें वितरित ब्याज मुक्त ऋण के लिए सुरक्षा जमा के रूप में चार निर्यातकों से ₹ 2.90 करोड़ की बैंक गारंटी एकत्र की है।

8. पूंजी प्रतिबद्धताएँ

पूंजी लेखे पर जो संविदाएँ बनाए जाने हेतु बाकि हैं और नहीं प्रदान की गई हैं, उनका आकलित मूल्य (अग्रिम का निवल) के लिए रुपए शून्य (पिछले वर्ष रुपए शून्य)



9. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में, कारोबार के सामान्य क्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम का वसूल किया गया मूल्य कम से कम तुलनपत्र में दर्शाए कुल रकम के तत्तुल्य हैं।

10. कराधान

स्पाइसेस बोर्ड का आय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 29ए के अधीन छूट प्राप्त है, आयकर के लिए कोई भी प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

11.1 सी.आई.एफ. आधार पर आयातों के संगणित मूल्य

विवरण	मुद्रा	
	युएसडी	यूरो
तैयार माल की खरीद	शून्य	शून्य
पूंजी माल	शून्य	शून्य
भंडारण, अतिरिक्त और उपभोज्य	471.45	3105.45
अन्य	शून्य	शून्य

11.2 विदेशी मुद्राओं में व्यय

विवरण	मुद्रा			
	युएसडी	यूरो	येन	जीबीपी
क यात्रा	15.600	शून्य	शून्य	शून्य
ख बैंकों व वित्तीय संस्थाओं में विदेशी मुद्रा में विप्रेषण और ब्याज भुगतान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग व्यापार मेले में स्टॉल भाड़ा	111885	112095	19294000	43700
घ अन्य व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बैठकें व सेमिनार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बिक्री पर कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड कानूनी एवं व्यावसायिक खर्च	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11.3 अर्जन

एफ ओ बी आधार पर निर्यातों का मूल्य शून्य

11.4 लेखापरीक्षकों को मेहनताना:

लेखापरीक्षकों के रूप में

- कराधान मामले शून्य
- प्रबंधन सेवा के लिए शून्य
- अन्य शून्य



12. पूंजी निधि

जैसा कि 01.04.2024 को है निधि का शेष (-) ₹ 1,76,21,90,375.75 था। निधि का समूचा स्रोत केंद्र सरकार से प्राप्त आबंटन था। अतः वर्ष के दौरान पूंजी के रूप में संगठन की अपेक्षा के लिए सरकार से प्राप्त राशि को निधि में जोड़ाई के रूप में दिखाया गया था। वर्ष के लिए आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता ₹ 2,78,95,163.45 का था, जिसे निधि से घटाया गया है। जैसेकि 31-3-2025 को है निधि का शेष (-) ₹ 1,79,00,85,539.20 है। योजना एवं गैर-योजना के अधीन स्थाई परिसंपत्तियों के अभिग्रहण के लिए अनुदान के रूप में वर्ष के दौरान प्राप्त निधि को विशेष उपयोग के लिए उद्दिष्ट निधि के रूप में नहीं माना गया है क्योंकि यह किसी विशेष परिसंपत्ति के लिए रखी निधि नहीं है। संगठन ने वर्ष के दौरान किसी पूंजीगत रिज़र्व, पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व और विशेष रिज़र्व नहीं बनाया है। कोई सामान्य रिज़र्व भी नहीं है।

13. अन्य

बोर्ड ने वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित एकीकृत लेखा सॉफ्टवेयर को सफलतापूर्वक लागू किया है। इस कार्यान्वयन का उद्देश्य वित्तीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, लेखा अभिलेखों में सटीकता बढ़ाना और वित्तीय प्रबंधन में समग्र दक्षता में सुधार करना है। सॉफ्टवेयर एकीकरण से वास्तविक समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग, नियामक आवश्यकताओं का बेहतर अनुपालन और अधिक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण संभव होगा। इसके अतिरिक्त, इससे मैनुअल त्रुटियों में कमी और समय की बचत होने की उम्मीद है, जिससे बोर्ड रणनीतिक वित्तीय नियोजन और निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा।

पिछले वर्ष के अनुरूप अंकों को, जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनःवर्गीकृत/पुनः क्रमीकृत किया गया है।

पिछले वर्षों से संबंधित विशेष अग्रिम वर्ष के दौरान निपटाया जाता है। विशेष अग्रिम की निवल प्राप्ति को वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाते के प्राप्ति हिस्से में दिखाई जाती है।

एक से 57 तक की अनुसूचियाँ, अनुबंध के रूप में दी गई हैं और तुलनपत्र, जैसेकि 31.03.2023 को है, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे तथा प्राप्ति एवं अदायगी लेखे का एक अभिन्न अंग बनती हैं।

(ह.)

निदेशक (वित्त)

(ह.)

सचिव



**AUDIT
REPORT OF
SPICES BOARD
FOR THE YEAR
2024-25**



INDEX

Sl. No.	Description	Page No.
1	Separate Audit Report	A-G
2	Balance Sheet	1
3	Income and Expenditure Account	2-3
4	Receipts and Payment Account	4-5
5	Schedules forming part of Balance Sheet	6-20
6	Schedules forming part of Income and Expenditure Account	21-28
7	Schedules forming part of Receipts and Payment Account	29-48
8	Significant Accounting Policies and Notes on Accounts	49-54



A

Opinion of the Comptroller & Auditor General of India on the financial statements of Spices Board for the year ended 31 March 2025

Qualified Opinion

We have audited the financial statements of Spices Board, which comprise the statement of financial position as at 31 March 2025 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account-for the year ended 31 March 2025, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 24 of the Spices Board Act, 1986. These financial statements include the accounts of Head Office and 82 units of the Board.

This Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety & Regularity) and efficiency cum performance aspects, etc., if any, are reported through inspection reports/ CAG's audit reports separately.

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the accompanying financial statements of Spices Board, read together with the accounting policies and Notes thereon and other matters mentioned in the Separate Audit Report, which follows, give a **true and fair view** of the financial position of the autonomous body as at March 31, 2025, and (of) its financial performance for the year then ended in accordance with uniform format of accounts applicable to the Autonomous Body.

Basis for Qualified Opinion

- i) depreciation on fixed assets procured from earmarked/endowment funds/grant in aids was being accounted as expenditure in Income and Expenditure Account instead of treating the depreciation charge as adjustment/utilization in earmarked/endowment funds/related grants. Thus, the balance of Earmarked/Endowment funds, deficit for the year and Corpus/Capital Fund were not correctly stated in the accounts. However, due to non-availability of details of assets procured from earmarked/endowment funds and assets procured from grants in aid, audit could not quantify the financial impact of the incorrect accounting of depreciation charge.
- ii) Earmarked / Endowment Funds were meant for a specific purpose. The assets for Spices



B

parks under ASIDE scheme were procured in previous years utilizing the funds of ₹115.83 crore but use of assets was not expensed against the endowment funds.

iii) Further, annual pension liabilities of ₹24.94 crore and expenses incurred for the upkeep and maintenance of Quality Evaluation Labs (QELs) amounting to ₹9.34 crore for the current year were met by utilising grants-in-aid from Government of India, though the Board has earmarked funds for pension and the up-keep and maintenance of QELS. In another instance analytical charges amounting to ₹12 crore received during the year were transferred to earmarked /endowment funds i.e. Pension Fund (₹10 crore) and "Quality Standard in Export of Spices" (₹2 crore) (Note 1 of Schedule 57-Notes to Accounts) directly without accounting as income in the Income and Expenditure Statement.

Spices Board did not take any corrective action in this regard despite the repeated comments in previous years 2021-22, 2022-23 and 2023-24

Para A.1.1

iv) The Spices Board conducted an Actuarial valuation of Employee-related Liabilities and arrived at figure of ₹348.72 crore as on 31.03.2021 against which it has provided for ₹325.31 crore as on 31.03.2025 as detailed below:

(₹ in crore)

	Pension	Gratuity	Leave Encashment	Total
Actuarial value as on 31.03.2021	319.07	18.54	11.10	348.72
Provision as on 31.03.2025	272.21	29.70	23.40	325.31
Shortfall (Excess) w.r.t to 31.03.2021 valuation	46.86	(11.16)	(12.30)	23.41

The non-provisioning of the actuarial liability has resulted in understatement of provisions for Employees Benefits and deficit for the year by ₹23.41 crore (net). Further, as per Accounting standard 15 (Para 58) the detailed actuarial valuation of the present value of defined benefit obligations may be made at intervals not exceeding three years. However, the last actuarial valuation was carried out in 2020-21, i.e., a period exceeding three years as on 31.03.2025.

Para A.1.2

We conducted our audit in accordance with CAG's auditing regulations/ standards/ manuals/ guidelines/ guidance-notes/ orders/ circulars etc. Our responsibilities are further described in



C

the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the autonomous body in accordance with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Responsibilities of Management for the financial statements

The Governing Body of Spices Board is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with uniform format of accounts/format applicable to the AB/accounting standards generally accepted in India and for internal control as management determines it necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion in accordance with CAG's auditing regulations /standards/ manuals/ guidelines/ guidance-notes/ orders/ circulars etc.

For and on behalf of the CAG of India

S. Velliangiri
(S. Velliangiri)

Principal Director of Commercial Audit

Place: Chennai

Date: 17.10.2025



D

Separate Audit Report on the accounts of Spices Board for the year ended 31 March 2025

A	Balance Sheet
A.1	Liabilities
A.1.1	<p>Earmarked/ Endowment Fund - ₹339.16 crore (Schedule -3)</p> <p>i) Depreciation on fixed assets procured from earmarked/endowment funds/grant in aids was being accounted as expenditure in Income and Expenditure Account instead of treating the depreciation charge as adjustment/utilization in earmarked/endowment funds/related grants. Thus, the balance of Earmarked/Endowment funds, deficit for the year and Corpus/Capital Fund were not correctly stated in the accounts. However, due to non-availability of details of assets procured from earmarked/endowment funds and assets procured from grants in aid, Audit could not quantify the financial impact of the incorrect accounting of depreciation charge.</p> <p>ii) Earmarked / Endowment Funds were meant for a specific purpose. The assets for Spices parks under ASIDE scheme were procured in previous years utilizing the funds of ₹115.83 crore but use of assets was not expensed against the endowment funds.</p> <p>iii) Further, annual pension liabilities of ₹24.94 crore and expenses incurred for the upkeep and maintenance of Quality Evaluation Labs (QELs) amounting to ₹9.34 crore for the current year were met by utilising grants-in-aid from Government of India, though the Board has earmarked funds for pension and the up-keep and maintenance of QELS. In another instance, analytical charges amounting to ₹12 crore received during the year were transferred to earmarked /endowment funds i.e. Pension Fund (₹10 crore) and "Quality Standard in Export of Spices" (₹2 crore) (Note 1 of Schedule 57-Notes to Accounts) directly without accounting as income in the Income and Expenditure Statement.</p> <p>Spices Board did not take any corrective action in this regard despite the repeated comments in previous years 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</p>
A.1.2	<p>Current Liabilities and Provision –Provisions: ₹325.37 crore (Schedule 7B)</p> <p>(i) The Spices Board conducted an Actuarial valuation of Employee-related Liabilities and arrived at figure of ₹348.72 crore as on 31.03.2021 against which it has provided</p>



E

for ₹325.31 crore as on 31.03.2025 as detailed below:				
(₹ in crore)				
	Pension	Gratuity	Leave Encashment	Total
Actuarial value as on 31.03.2021	319.07	18.54	11.10	348.72
Provision as on 31.03.2025	272.21	29.70	23.40	325.31
Shortfall (Excess) w.r.t to 31.03.2021 valuation	46.86	(11.16)	(12.30)	23.41
<p>The non-provisioning of the actuarial liability has resulted in understatement of provisions for Employees Benefits and deficit for the year by ₹23.41 crore (net).</p> <p>(ii) As per Accounting standard 15 (Para 58) the detailed actuarial valuation of the present value of defined benefit obligations may be made at intervals not exceeding three years. However, the last actuarial valuation was carried out in 2020-21, i.e., a period exceeding three years as on 31.03.2025.</p>				
A.2	Assets			
A.2.1	Current Assets, Loan, Advances etc.			
	Current Assets-₹316.41 crore (Schedule 11A)			
	The above does not include ₹0.87 crore being the accumulated rent receivable from Flavourit Spices Trading Limited (FSTL) for the leased facilities of Spices Board. Thus, the Current Assets and Corpus/Capital Fund were understated by ₹0.87 crore. This issue was highlighted in the SAR 2023-24 also.			
A.2.2	Current Assets, Loans, Advances etc. -			
	Loans and Advances -₹26.72 crore (Schedule 11B)			
	The above includes long pending advances of ₹6.72 crore being carried over from 2017-18 onwards. The Board was unable to identify and recover these amounts as the breakup of the advances was not traceable. Considering the passage of time and the absence of relevant records, a provision for advances should have been created.			
	The non-creation of provision resulted in overstatement of advances and			



F

	understatement of deficit for the year by ₹6.72 crore. This matter was pointed out in SAR 2023-24 also.
B.	Income and Expenditure Account
B.1	Income
B.1.1	<p>Grant from Govt. of India-Plan - ₹130.00 crore (Schedule 13)</p> <p>The above includes grants of ₹1.01 crore (₹1 crore grant for creation of capital assets other expenditure, and ₹0.01 crore (Grants for creation of Capital Assets - NE) received from the Ministry of Commerce and Industry.</p> <p>The Board, instead of accounting the above grants as per Para 8 of Accounting Standard 12 - Government Grants, accounted the grant amount as income in Income and Expenditure Account under income approach.</p> <p>This has resulted in overstatement of the grants in aid from GoI - Plan in Income and Expenditure Account, understatement of deficit and understatement of Earmarked/Endowment Fund by ₹1.01 crore as on 31 March 2025.</p>
C.	Receipts and Payments Account - NIL
D.	Accounting Policies - NIL
E.	General - NIL
F.	<p>Management Letter</p> <p>Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Management through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.</p>
G.	<p>(i) Adequacy of Internal Control</p> <p>Out of the 85 accounts classified under Current Accounts with Banks, for 41 cases of confirmation balances (₹10,56,60,233.60) were without showing whether it is Current account or Savings bank account. In 11 cases (amounting to ₹95,55,445) of confirmation balances were shown as Savings Bank account. As on 31 March 2025, the book balance of Central Bank of India, Hyderabad Branch, was ₹53,083, whereas the balance as per the bank confirmation was ₹8,377. The reconciliation of balances were not done.</p> <p>(ii) Adequacy of Internal Audit System</p>



G

	<p>As per the records furnished to audit, internal audit was not conducted during the year 2023-24 and 2024-25 in any of the 82 branch offices and HO of Spices Board. This issue was commented in SAR of 2023-24 also.</p> <p>(iii) System of Physical verification of fixed assets</p> <p>The Board had carried out physical verification of fixed for all the 83 units during the year 2024-25.</p> <p>(iv) System of Physical verification of inventory</p> <p>The physical verification and valuation of inventory has been conducted by the Board during the year 2024-25.</p> <p>(v) Regularity in payment of statutory dues</p> <p>The Board has regularly deposited all statutory dues like GST, TDS, CPF etc.</p> <p>(vi) Other matters relating to functioning of the entity: NA</p>
H.	<p>Grants in aid</p> <p>Opening balance of grants-in-aid was nil. Grants-in aid received during the year from Government of India were amounting to ₹130 crore. The same was fully utilized during the year.</p>

For and on behalf of the CAG of India

S. Velliangiri
(S. Velliangiri)

Principal Director of Commercial Audit

Place: Chennai

Date: 17.10.2025



SPICES BOARD, COCHIN - 682 025
BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

Sl.No.	Particulars	Schedule No.	Amount (in Rupees)	
			As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
CORPUS/CAPITAL FUND & LIABILITIES				
1	CORPUS/CAPITAL FUND	1	(1,79,00,85,539.20)	(1,76,21,90,375.75)
2	RESERVES AND SURPLUS	2	-	-
3	EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	3	3,39,15,78,814.73	3,17,00,08,361.32
4	SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	-	-
5	UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	-	-
6	DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
7	CURRENT LIABILITIES AND PROVISION - CURRENT LIABILITIES	7A	9,71,53,967.60	10,08,20,292.01
8	CURRENT LIABILITIES AND PROVISION - PROVISIONS	7B	3,25,37,51,501.00	3,00,55,85,453.00
	TOTAL		4,95,23,98,744.13	4,51,42,23,730.58
ASSETS				
9	FIXED ASSETS LESS DEPRECIATION	8	1,40,08,61,447.21	1,47,84,52,388.21
10	INVESTMENTS- FROM EARMARKED /ENDOWMENT FUNDS	9	11,97,31,721.77	12,83,75,305.27
11	INVESTMENTS- OTHERS	10	4,22,148.56	4,22,148.56
12	CURRENT ASSETS, LOAN, ADVANCES ETC.: CURRENT ASSETS	11A	3,16,41,42,267.39	2,61,84,03,850.31
13	CURRENT ASSETS, LOAN, ADVANCES ETC.: LOANS, ADVANCES	11B	26,72,41,159.20	28,85,70,038.23
14	"MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off)"		-	-
	TOTAL		4,95,23,98,744.13	4,51,42,23,730.58
15	SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	56		
16	CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	57		

(Sd.)
DIRECTOR (FINANCE)

(Sd.)
SECRETARY

SPICES BOARD, COCHIN - 682 025
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31-03-2025

Sl.No.	Particulars	Schedule No.	Amount (in Rupees)	
			2024-25	2023-24
INCOME				
1	INCOME FROM SALES/SERVICES	12	23,75,29,467.29	17,75,50,861.63
2	GRANTS/SUBSIDIES	13	1,30,00,00,000.00	1,15,50,00,000.00
3	FEES/SUBSCRIPTION	14	6,89,79,965.99	5,87,73,764.89
4	"INCOME FROM INVESTMENTS (Income on investment from earmarked/endowment funds)"	15	-	-
5	INCOME FROM ROYALTY,PUBLICATION etc.	16	1,000.00	500.00
6	INTEREST EARNED	17	6,60,12,449.00	8,70,32,300.00
7	OTHER INCOME	18	77,67,509.50	1,20,02,336.64
8	INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS AND WORK IN PROGRESS	19	1,25,81,536.65	-41,73,335.00
	TOTAL - (A)		1,69,28,71,928.43	1,48,61,86,428.16
EXPENDITURE				
9	ESTABLISHMENT EXPENSES-NON PLAN	20	69,31,85,332.59	67,71,77,566.71
10	ADMINISTRATIVE EXPENSES-NON PLAN	21	34,47,91,958.58	35,62,76,889.34
11	EXPENDITURE-PLAN	22	50,52,72,991.51	43,85,61,911.21
13	FINANCE CHARGES	23	-	-
15	DEPRECIATION	24	15,05,77,490.00	16,25,39,902.00
	TOTAL - (B)		1,69,38,27,772.68	1,63,45,56,269.26





16	BALANCE BEING EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE			-14,83,69,841.10
17	PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS INCOME/ (EXP.)	25		3,17,17,406.00
18	TRANSFER TO SPECIAL RESERVE (Specify each)			-
19	TRANSFER TO /FROM GENERAL RESERVE (Specify each)			-
20	BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS / CAPITAL FUND			-11,66,52,435.10
21	SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	56		
22	CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	57		

(Sd.)
DIRECTOR (FINANCE)

(Sd.)
SECRETARY



SPICES BOARD, COCHIN - 682 025
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

S. No.	Receipts	SC. No.	Current Year	Previous Year	S. No.	Payments	SC. No.	Current Year	Previous Year
I	OPENING BALANCE				I	EXPENDITURE -NON PLAN			
	Cash In Hand		20,507.62	1,05,665.72		Establishment Expenses	41	50,11,79,791.17	43,44,18,137.50
	Bank Balance		16,38,98,590.59	16,31,28,549.57		Administration Expenses	42	23,44,49,309.07	28,82,84,047.12
	Deposit Accounts		2,44,17,93,316.00	2,14,89,00,110.00	II	EXPENDITURE-PLAN			
II	GRANDS RECEIVED					A. Export Oriented Production - Cardamom	43	-	21,72,22,476.31
	A.Grants From Govt. of India	26	1,30,00,00,000.00	1,15,50,00,000.00		i) Improving Productivity of Cardamom	i	10,31,49,353.70	-
	B. Grants from other Agencies					ii) Post Harvest Quality Upgradation of Spices	ii	11,57,19,515.52	-
	i) Revenue	27	22,06,200.00	79,94,694.49		B. Export Development and Promotion	44	-	15,53,51,872.22
	ii) Earmarked fund	28	13,07,43,583.00	12,62,99,915.00		i) Quality Improvement	i	10,44,64,505.82	11,17,87,855.49
						ii) Enhancing Capacities for Market Expenditure	ii	10,21,65,403.48	-
						iii) Trade Promotion	iii	13,02,47,747.94	
						iv) Technologic Intervention	iv	44,68,559.66	
III	INCOME FROM INVESTMENTS EARMARKED FUNDS					C. Export Oriented Research - Cardamom	45	-	64,61,321.84
						i) Research on Small & Large Cardamom	i	2,96,24,468.31	
	Income Investments Earmarked Funds	29	12,62,68,949.00	7,14,59,029.00		D. Human Resources Development and Works	46	-	29,40,371.84
						i) Capacity Building & Skill Development	i	89,16,329.64	



SPICES BOARD, COCHIN - 682 025
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

Particulars	Amount (in Rupees)	
	Current year 2024-25	Previous year 2023-24
SCHEDULE-1 CORPUS/CAPITAL FUND		
Balance at the beginning of the year	-1,76,21,90,375.75	-1,64,55,37,940.65
Add Contributions towards Corpus/Capital Fund(Net)	-	-
Add/(Deduct): Balance of Net Income/ (Expenditure) transferred from the Income and Expenditure A/c	-2,78,95,163.45	-11,66,52,435.10
Balance at the end of the Year	-1,79,00,85,539.20	-1,76,21,90,375.75
SCHEDULE-2 - RESERVE AND SURPLUS	TOTAL	-1,76,21,90,375.75
A. CAPITAL RESERVE	-	-
B. REVALUATION RESERVE	-	-
C. SPECIAL RESERVE	-	-
D. GENERAL RESERVE	-	-
TOTAL	-	-



SPICES BOARD, COCHIN - 682 025
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

SCHEDULE-3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP						
	Employee GPF Fund	ICAR - AICRPS	ASIDE - Guntur	ASIDE - New Delhi	ASIDE - Chennai	ASIDE - Kolkata	ASIDE - Tuticorin
a) Opening Balance of Funds	12,38,75,305.27	14,36,750.33	15,41,75,621.47	3,98,52,715.00	5,45,63,766.50	5,33,87,567.49	4,65,63,308.00
b) Additions to the funds							
i. Donations / Grants	-	-	-	-	-	-	-
ii. Income from investments made on account of funds	77,90,970.00						
iii. Other Additions	1,64,87,175.00	21,31,200.00					
TOTAL (a+b)	14,81,53,450.27	35,67,950.33	15,41,75,621.47	3,98,52,715.00	5,45,63,766.50	5,33,87,567.49	4,65,63,308.00
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds							
i. Capital Expenditure							
- Fixed Assets							
- Others		6,68,153.86					
Total		6,68,153.86					
ii. Revenue Expenditure							
- Salaries, Wages and Allowances etc							
- Rent							
- Other Administrative Expenses	3,34,21,728.50	26,56,661.50					
Total	3,34,21,728.50	26,56,661.50					
TOTAL (c)	3,34,21,728.50	33,24,815.36					
NET BALANCE AS AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	11,47,31,721.77	2,43,134.97	15,41,75,621.47	3,98,52,715.00	5,45,63,766.50	5,33,87,567.49	4,65,63,308.00



SPICES BOARD, COCHIN - 682 025
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

SCHEDULE-3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP						
	ASIDE - Mumbai	ASIDE-Guna	ASIDE -Kota	ASIDE-Kandla	ASIDE - IIPM	Soil based plant nutrient management plan	DUS- Test Centre
a) Opening Balance of Funds	15,25,96,304.00	25,71,92,419.28	10,28,77,981.76	5,29,26,458.08	7,56,37,435.00	5,84,326.00	1,11,550.00
b) Additions to the funds							
i. Donations / Grants	-	-	-	-	-	-	-
ii. Income from investments made on account of funds							
iii. Other Additions							75,000.00
TOTAL (a+b)	15,25,96,304.00	25,71,92,419.28	10,28,77,981.76	5,29,26,458.08	7,56,37,435.00	5,84,326.00	1,86,550.00
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds							
i. Capital Expenditure							
- Fixed Assets							
- Others							
Total	-	-	-	-	-	-	-
ii. Revenue Expenditure							
- Salaries, Wages and Allowances etc							
- Rent							
- Other Administrative Expenses							15,405.00
Total	-	-	-	-	-	-	15,405.00
TOTAL (c)	-	-	-	-	-	-	15,405.00
NET BALANCE AS AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	15,25,96,304.00	25,71,92,419.28	10,28,77,981.76	5,29,26,458.08	7,56,37,435.00	5,84,326.00	1,71,145.00



SPICES BOARD, COCHIN - 682 025
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

SCHEDULE-3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP							RKVY Andhra Pradesh
	Quality Standard in Export of Spices	Infrastructure for Spice park	ASIDE Rai Bareli - Spice Park	MIDH	Myanmar Large Cardamom	Pension (Earmarked)		
a) Opening Balance of Funds	26,49,09,461.86	14,97,27,504.74	16,85,72,389.27	28,30,000.00	2,62,028.00	1,32,43,04,741.00	5,93,200.00	
b) Additions to the funds								
i. Donations / Grants	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Income from investments made on account of funds						12,62,68,949.00		
iii. Other Additions	2,00,00,000.00	1,07,46,891.00				10,00,00,000.00		
TOTAL (a+b)	28,49,09,461.86	16,04,74,395.74	16,85,72,389.27	28,30,000.00	2,62,028.00	1,55,05,73,690.00	5,93,200.00	
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds								
i. Capital Expenditure								
- Fixed Assets								
- Others		4,91,800.00		28,30,000.00	2,62,028.00		5,93,200.00	
Total		4,91,800.00		28,30,000.00	2,62,028.00		5,93,200.00	
ii. Revenue Expenditure								
- Salaries, Wages and Allowances etc								
- Rent								
- Other Administrative Expenses	11,000.00							
Total	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (c)	11,000.00	4,91,800.00	-	28,30,000.00	2,62,028.00	-	5,93,200.00	
NET BALANCE AS AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	28,48,98,461.86	15,99,82,595.74	16,85,72,389.27	-	-	1,55,05,73,690.00	-	-



SPICES BOARD, COCHIN - 682 025
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

SCHEDULE-3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP					
	Areawide IPM Black Pepper	Centre For Excellence In Micro Biology	Ginger Project Bastar	WTO STDF	FSTL	RPL-PMKVY
a) Opening Balance of Funds	2,00,000.00	10,89,93,784.00	88,375.00	16,89,311.20	45,00,000.00	(5,71,883.36)
b) Additions to the funds						
i. Donations / Grants	-	-	-	-	-	-
ii. Income from investments made on account of funds						
iii. Other Additions				5,00,000.00		
TOTAL (a+b)	2,00,000.00	10,89,93,784.00	88,375.00	16,89,311.20	50,00,000.00	-5,71,883.36
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds						
i. Capital Expenditure						
- Fixed Assets						
- Others	2,00,000.00		88,375.00	16,89,311.20		
Total	2,00,000.00	-	88,375.00	16,89,311.20	-	-
ii. Revenue Expenditure						
- Salaries, Wages and Allowances etc						
- Rent						
- Other Administrative Expenses						
Total	-	-	-	-	-	-
TOTAL (c)	2,00,000.00	-	88,375.00	16,89,311.20	-	-
NET BALANCE AS AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	-	10,89,93,784.00	-	-	50,00,000.00	-5,71,883.36



SPICES BOARD, COCHIN - 682 025
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

SCHEDULE-3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP				
	ASIDE - TIES - SIKKIM	Women Scientist Scheme	Bayer Project	Evaluation of Flupyrimin	SHM Kerala Project-ICRI
a) Opening Balance of Funds	98,47,716.00	31,268.95	4,33,982.56	11,75,363.60	4,13,519.00
b) Additions to the funds					
i. Donations / Grants	-	-	-	-	-
ii. Income from investments made on account of funds					
iii. Other Additions					
TOTAL (a+b)	98,47,716.00	31,268.95	4,33,982.56	11,75,363.60	4,13,519.00
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds					
i. Capital Expenditure					
- Fixed Assets					
- Others	98,47,716.00	2,583.66	3,03,423.00	4,33,916.89	
Total	98,47,716.00	2,583.66	3,03,423.00	4,33,916.89	
ii. Revenue Expenditure					
- Salaries, Wages and Allowances etc					
- Rent					
- Other Administrative Expenses					
Total	-	-	-	-	-
TOTAL (c)	98,47,716.00	2,583.66	3,03,423.00	4,33,916.89	-
NET BALANCE AS AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	-	28,685.29	1,30,559.56	7,41,446.71	4,13,519.00



SPICES BOARD, COCHIN - 682 025
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

SCHEDULE-3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP				
	Assessment of Polysulphate	Evaluation of Spinetoram	Evaluation of Nano fertilisers	SHM- High Tech Nursery	Syngenta - Insecticide Mayiladumpara
a) Opening Balance of Funds	2,04,425.05	15,06,958.99	1,64,995.28	1,00,00,000.00	18,00,000.00
b) Additions to the funds					
i. Donations / Grants	-	-	-	-	-
ii. Income from investments made on account of funds					
iii. Other Additions	6,00,000.00		2,40,000.00		
TOTAL (a+b)	8,04,425.05	15,06,958.99	4,04,995.28	1,00,00,000.00	18,00,000.00
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds					
i. Capital Expenditure					
- Fixed Assets					
- Others	21,185.00	11,70,970.16		71,41,323.29	22,955.00
Total	21,185.00	11,70,970.16	-	71,41,323.29	22,955.00
ii. Revenue Expenditure					
- Salaries, Wages and Allowances etc					
- Rent					
- Other Administrative Expenses	4,88,680.00		1,70,127.00		
Total	4,88,680.00	-	1,70,127.00	-	-
TOTAL (c)	5,09,865.00	11,70,970.16	1,70,127.00	71,41,323.29	22,955.00
NET BALANCE AS AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	2,94,560.05	3,35,988.83	2,34,868.28	28,58,676.71	17,77,045.00



SPICES BOARD, COCHIN - 682 025
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

SCHEDULE-3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP					GRAND TOTAL	
	Syngenta - Insecticide Sakleshpur	Syngenta - Fungicide Sakleshpur	SPICE EXCHANGE INDIA	NABARD - Sikkim	Current Year	Previous Year	
a) Opening Balance of Funds	5,88,000.00	9,09,836.00	9,57,500.00	94,376.00	3,17,00,08,361.32	3,11,18,16,703.09	
b) Additions to the funds							
i. Donations / Grants	-	-	-	-	-	8,90,49,853.00	
ii. Income from investments made on account of funds					13,40,59,919.00	3,99,33,728.00	
iii. Other Additions					15,07,80,266.00	20,06,78,540.00	
TOTAL (a+b)	5,88,000.00	9,09,836.00	9,57,500.00	94,376.00	3,45,48,48,546.32	3,44,14,78,824.09	
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds							
i. Capital Expenditure							
- Fixed Assets							
- Others	98,226.00	2,64,086.53	2,82,500.00	94,376.00	2,65,06,129.59		
Total	98,226.00	2,64,086.53	2,82,500.00	94,376.00	2,65,06,129.59		
ii. Revenue Expenditure							
- Salaries, Wages and Allowances etc							
- Rent							
- Other Administrative Expenses							
Total	-	-	-	-	3,67,63,602.00	27,14,70,462.77	
TOTAL (c)	98,226.00	2,64,086.53	2,82,500.00	94,376.00	6,32,69,731.59	27,14,70,462.77	
NET BALANCE AS AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	4,89,774.00	6,45,749.47	6,75,000.00	-	3,39,15,78,814.73	3,17,00,08,361.32	



SPICES BOARD, COCHIN - 682 025
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

Particulars	Amount (in Rupees)	
	Current year 2024-25	Previous year 2023-24
SCHEDULE - 4 - SECURED LOANS & BORROWINGS		
1 Central Government	-	-
2 State Government	-	-
3 Financial Institutions		
4 Banks		
5 Other Institutions and Agencies	-	-
6 Debentures and Bonds	-	-
TOTAL	-	-
Note:- Amounts due within one year		
SCHEDULE - 5 - UNSECURED LOANS & BORROWINGS		
1 Central Government	-	-
2 State Government	-	-
3 Financial Institutions		
4 Banks		
5 Other Institutions and Agencies	-	-
6 Debentures and Bonds	-	-
TOTAL	-	-
SCHEDULE - 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES		
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets.	-	-
b) Other Assets	-	-
TOTAL	-	-



SCHEDULE - 7A - CURRENT LIABILITIES AND PROVISION - CURRENT LIABILITIES				
1	EMD and Security Deposit From Parties	2,54,15,973.92		2,66,66,689.92
2	Amount Withheld Against Delayed Work	8,16,554.00		8,16,554.00
3	Salary Payable	2,13,60,775.00		2,03,07,900.00
4	Audit Fees Payable	-		-
5	License Fee / Outside Quarters Payable	12,866.00		-
6	Leave Salary & Pension Contribution	-		-
7	Statutory Liabilities	-		-
(i)	WWF	14,04,545.00		14,04,545.00
(ii)	TDS Payable	33,76,341.55		19,72,108.55
(iii)	EPF Payable	1,75,137.00		1,25,659.00
(iv)	GST dues	49,00,012.00		31,43,758.54
8	Accounts Trade Payable	-		-
9	Salary Recoveries	-		-
a)	Group Insurance Payable	10,09,515.00		10,09,515.00
b)	LIC Payable	-		-
c)	CPF Subscription	-		62,97,966.00
d)	Professional Tax Payable	13,000.00		13,000.00
e)	C.P.F. Payable	-		-
f)	Central Govt Employees Welfare Committee	66,880.00		57,340.00
g)	PLI	45,314.00		45,314.00
h)	Medical Reimbursement To Labourers	-		-
i)	Staff Club Liability	2,01,850.00		1,84,350.00
j)	Others Payable	1,57,99,809.13		1,79,50,894.00
10	Pension Payable	2,16,99,811.00		2,05,78,310.00



11	Group Insurance Claim Payable	6,09,196.00			-	
12	Retirement Benefits Payable	2,46,388.00			2,46,388.00	
13	Subsidy payable	-			-	
	TOTAL - (A)			9,71,53,967.60		10,08,20,292.01
	SCHEDULE - 7B - CURRENT LIABILITIES AND PROVISION - PROVISIONS					
1	Interest Refund	6,51,501.00			1,85,453.00	
2	Gratuity	29,70,00,000.00			26,80,00,000.00	
3	Superannuation/Pension	2,72,21,00,000.00			2,53,14,00,000.00	
4	Accumulated Leave Encashment	23,40,00,000.00			20,60,00,000.00	
	TOTAL - (B)			3,25,37,51,501.00		3,00,55,85,453.00
	TOTAL - (A) + (B)			3,35,09,05,468.60		3,10,64,05,745.01



SPICES BOARD, COCHIN - 682 025
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

SCHEDULE - 8 - FIXED ASSETS

Sl. No	Name of the Asset	Gross Block				Depreciation					Net Block as on 31.03.2025	Net Block as on 31.03.2024	
		As on 01.04.2024	Additions during the year	Sales/ Transfer	As on 31.03.2025	Rate	Accumulated Depreciation as on 01.04.2024	Prior Period Adjustment	For the year	Deductions during the year			Accumulated Depreciation as on 31.03.2025
A	FIXED ASSETS												
1	LAND	10,13,52,127.40			10,13,52,127.40	0	80,69,061.00	-	-	-	80,69,061.00	9,32,83,066.40	9,32,83,066.40
2	SOFTWARES	23,64,250.00	24,78,000.00		48,42,250.00	33	5,91,063.00	-	10,62,797.00	-	16,53,860.00	31,88,390.00	17,73,187.00
3	BUILDING	2,45,86,99,868.44	67,14,492.00		2,46,54,14,360.44	10	1,42,91,51,128.60	-	10,36,26,324.00	-	1,53,27,77,452.60	93,26,36,907.84	1,02,95,48,739.84
4	VEHICLES	1,90,20,917.67			1,90,20,917.67	15	1,75,21,267.78	-	2,24,948.00	-	1,77,46,215.78	12,74,701.89	14,99,649.89
5	IRRIGATION & PP INSTRUMENTS	62,19,813.00			62,19,813.00	15	36,63,213.48	-	3,83,490.00	-	40,46,703.48	21,73,109.52	25,56,599.52
6	COMPUTER HARDWARE	13,26,63,497.46	29,28,574.00		13,55,92,071.46	60	11,88,78,162.37	-	62,88,906.00	-	12,51,67,068.37	1,04,25,003.09	1,37,85,335.09
7	CURING HOUSE	2,37,257.52			2,37,257.52	5	2,00,765.29	-	1,825.00	-	2,02,590.29	34,667.23	36,492.23
8	REFERENCE & LIBRARY BOOKS	1,05,37,914.38			1,05,37,914.38	100	1,05,08,299.38	-	11,846.00	-	1,05,20,145.38	17,769.00	29,615.00
9	PLANT & MACHINERY	31,46,33,105.93	54,68,292.00		32,01,01,397.93	15	25,26,40,819.12	-	1,00,61,778.00	-	26,27,02,597.12	5,73,98,800.81	6,19,92,286.81
10	WATER SUPPLY INSTRUMENTS	2,35,928.34			2,35,928.34	10	2,26,500.70	-	1,415.00	-	2,27,915.70	8,012.64	9,427.64
11	FURNITURE AND FIXTURES	8,38,37,557.27	8,16,252.00		8,46,53,809.27	10	6,22,67,518.97	-	22,27,124.00	-	6,44,94,642.97	2,01,59,166.30	2,15,70,038.30
12	LAB EQUIPMENTS	60,17,41,245.20	5,23,47,229.00		65,40,88,474.20	15	45,69,49,512.87	-	2,66,87,037.00	-	48,36,36,549.87	17,04,51,924.33	14,47,91,732.33
	TOTAL CURRENT YEAR	3,73,15,43,482.61	7,07,52,839.00		3,80,22,96,321.61		2,36,06,67,312.56		15,05,77,490.00		2,51,12,44,802.56	1,29,10,51,519.05	1,37,08,76,170.05
B	CAPITAL W I P	10,75,76,218.16	22,33,710.00		10,98,09,928.16		-					10,98,09,928.16	12,27,38,705.16
	TOTAL CURRENT YEAR	3,83,91,19,700.77	7,29,86,549.00		3,91,21,06,249.77		2,36,06,67,312.56		15,05,77,490.00		2,51,12,44,802.56	1,40,08,61,447.21	1,49,56,14,875.21
	PREVIOUS YEAR	3,85,79,30,497.77	2,26,43,255.00		3,83,91,19,700.77		2,19,81,27,410.56		16,25,39,902.00		2,36,06,67,312.56	1,47,84,52,388.21	1,65,98,03,087.21

SPICES BOARD, COCHIN - 682 025
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET
AS AT 31-03-2025

Particulars	Amount (in Rupees)	
	Current year 2024-25	Previous year 2023-24
SCHEDULE - 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS		
1. Long term investments		
a) Shares	50,00,000.00	45,00,000.00
2. Short term investments		
a) GPF Investment Account	11,47,31,721.77	12,38,75,305.27
TOTAL	11,97,31,721.77	12,83,75,305.27
SCHEDULE-10 - INVESTMENTS - OTHERS		
1) Long term investments		
a) Loan to Planters	4,22,148.56	4,22,148.56
TOTAL	4,22,148.56	4,22,148.56
SCHEDULE - 11A - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES etc. :		
CURRENT ASSETS		
1) Inventories		
a) Stores, Chemicals and Spares	2,33,25,892.64	1,23,53,806.00
b) Stock in Trade		
i) Cardamom & Other Products	19,47,080.11	3,37,630.10
2) Cash Balance in Hand (including cheques/drafts and imprest)	238.60	20,507.62
3) Bank Balance		
a) With scheduled Banks		
i) In Current Accounts	25,52,46,916.04	16,38,98,590.59
ii) In Deposit Accounts (includes Margin Money)	2,88,36,22,140.00	2,44,17,93,316.00
iii) In savings Account	-	-
TOTAL - (A)	3,16,41,42,267.39	2,61,84,03,850.31





SCHEDULE - 11B - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES etc. :					
1) Loans to Staff					
a) Festival Advance	-	-	-	-	-
b) Pay Advance	-	-	4,72,089.00	-	-
c) Special Advance	4,76,783.00	-	-	-	-
d) House Building Advance	2,77,378.00	-	3,49,378.00	-	-
e) Computer Advance	2,02,635.00	-	2,43,255.00	-	-
f) Scooter Advance	-	-	-	-	-
g) Medical Advance	3,79,854.00	-	3,79,854.00	-	-
h) LTC Advance	12,14,167.00	-	11,14,415.00	-	-
i) Permanent Advance / Office Imprests	-	25,50,817.00	-	-	25,58,991.00
2) Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received					
a) Travel advance	23,47,878.00	23,47,878.00	26,50,928.00	26,50,928.00	26,50,928.00
b) Deposits					
(i) With KSEB	4,22,740.00	-	3,87,780.00	-	-
(ii) Others	1,74,87,968.00	-	67,27,235.00	-	-
(iii) With BSNL	9,796.00	1,79,20,504.00	9,796.00	9,796.00	71,24,811.00
c) Pre paid Expenses					
(i) AMC Charges prepaid	-	-	-	-	-



3) Interest Accrued On Bank Deposits	8,14,02,158.00	8,14,02,158.00	9,22,55,219.00	9,22,55,219.00
4) Rent Advances/Deposits	16,96,600.00	16,96,600.00	33,44,953.00	33,44,953.00
5) Grant Receivable	-	-	-	-
6) Contract Advance	2,55,57,161.00	2,55,57,161.00	2,63,77,161.00	2,63,77,161.00
7) Prepaid Insurance	-	-	-	-
8) GST Input Tax Credit	4,69,41,295.00	4,69,41,295.00	3,97,93,755.83	3,97,93,755.83
9) Group Insurance Dues	-	-	-	-
10) Land Purchase Advance-Govt of Gujarat	4,78,22,405.00	4,78,22,405.00	4,78,22,405.00	4,78,22,405.00
11) Non Subsidy Receivable	-	-	48,69,832.00	48,69,832.00
12) TDS Receivable	-	-	2,47,074.00	2,47,074.00
13) Others				
a) Mobilization Advance	16,00,839.00		55,00,839.00	
b) Brand Promotion Loan Scheme	74,66,000.00		74,66,000.00	
c) Other Advances	3,14,55,613.20		3,14,55,613.20	
d) EMD And Security Deposit	4,42,047.00		4,91,200.00	
e) Prepaid Others	37,842.00	4,10,02,341.20	48,927.00	4,49,62,579.20
14 Advance against purchase of equipment	-	-	58,01,596.20	58,01,596.20
		TOTAL - (B)	26,72,41,159.20	28,85,70,038.23
		TOTAL - (A) + (B)	3,43,13,83,426.59	2,90,69,73,888.54



SPICES BOARD, COCHIN - 682 025
SCHEDULES FORMING PART OF THE INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31-03-2025

Particulars		Amount (in Rupees)	
		Current year 2024-25	Previous year 2023-24
SCHEDULE - 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES			
1	Income from Sales		
a)	Sale of Spices, Planting materials and Plantation Inputs		
(i)	Cardamom	11,57,587.60	5,90,514.00
(ii)	Pepper Cuttings	21,90,820.00	22,04,524.00
(iii)	Pepper	27,788.00	3,73,822.50
(iv)	Bio Agent	9,77,103.00	6,42,657.50
	Development Fee	-	
(v)	Other Products - Res.Farm	6,10,343.00	49,63,641.60
b)	Sale Proceeds of Seedlings		
(i)	Cardamom seedlings	29,10,801.00	21,58,597.00
c)	Miscellaneous Receipts		
(i)	Sale Of Scrap/Unused Articles	8,54,583.14	7,44,904.20
(ii)	Refund - Brand promotion Grant	-	8,54,583.14
2	Income from Services		
a)	Analytical Charges	18,51,43,811.04	16,38,69,587.73
b)	Health certificate	4,19,23,500.00	36,74,002.00
c)	Appeal Fee for Sample Analysis	3,66,000.00	18,000.00
d)	Processing Fee for Schemes	10,32,130.51	19,06,504.05
e)	Lab Recognition Fee	-	2,05,000.00
f)	Training Fee	3,35,000.00	5,53,040.65
TOTAL		23,75,29,467.29	17,75,50,861.63
(Irrevocable grants & subsidies received)			



SCHEDULE - 13 - GRANTS AND SUBSIDIES											
	PLAN										
	Grant-in-aid from Government of India	1,30,00,00,000.00							1,15,50,00,000.00		
	NON-PLAN										
	Grant-in-aid from Government of India	-	1,30,00,00,000.00						-		1,15,50,00,000.00
	Add Amount Realised by Disposal of Assets	-	-						-		-
	Less Contribution towards Capital Fund	-	-						-		-
	TOTAL		1,30,00,00,000.00						1,15,50,00,000.00		
SCHEDULE - 14 - FEES/SUBSCRIPTION											
1	Dealers Licence Fee		15,26,355.93						64,40,042.00		
2	CRES		3,91,05,672.65						3,38,97,292.63		
3	Participation Fee For Exporters		1,19,83,112.00						47,30,497.00		
4	Receipt User Fee E-Auction		1,52,71,275.41						1,33,21,033.26		
5	Consultancy Fees		4,83,550.00						3,84,900.00		5,87,73,764.89
6	Inspection Fee		10,000.00								
7	Application Fee for Empanelled Lab		6,00,000.00					6,89,79,965.99			
	TOTAL							6,89,79,965.99			5,87,73,764.89
SCHEDULE - 15 - INCOME FROM INVESTMENT											
1	Interest	-							-		-
2	Dividends	-							-		-
	TOTAL										
SCHEDULE - 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATIONS											
1	Periodicals-Newletters		1,000.00					1,000.00	500.00		500.00
	TOTAL							1,000.00			500.00
SCHEDULE - 17 - INTEREST EARNED											
1	On Short Term Deposit										
a)	Interest From Savings Bank		6,56,80,159.00					6,56,80,159.00	8,66,82,093.00		8,66,82,093.00
2	Other Interest										
a)	Other Interest		1,30,000.00					1,30,000.00	48,647.00		48,647.00



3	On Loans to Employees								
a)	Interest received from Employees - HBA	2,02,290.00						3,01,560.00	
b)	Other Interest from Employees	-			2,02,290.00				3,01,560.00
	TOTAL				6,60,12,449.00				8,70,32,300.00
SCHEDULE - 18 - OTHER INCOME									
1	Guest Room Rent	12,84,410.00						14,64,856.00	
2	Licence Fee Board's Quarters	61,966.00						57,335.00	
3	Lease	4,660.00						-	
4	Other Receipts	63,82,393.50					1,04,52,818.64		
5	Subscriptions - Spice Exchange	34,080.00			77,67,509.50			27,327.00	1,20,02,336.64
	TOTAL				77,67,509.50				1,20,02,336.64
SCHEDULE - 19 - INCREASE/(DECREASE) IN THE STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS									
1	Closing stock								
	Stores, Chemicals and Spares	2,33,25,892.64						1,26,91,436.10	
	Cardamom & Other Products	19,47,080.11							
	Work in Progress	-			2,52,72,972.75			-	1,26,91,436.10
2	Less Opening Stock								
	Cardamom & Other Products	1,26,91,436.10						1,68,64,771.10	
	Work in Progress	-			1,26,91,436.10			-	1,68,64,771.10
	NET INCREASE/(DECREASE) a-b				1,25,81,536.65				-41,73,335.00
SCHEDULE - 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES									
1	Salaries & Pension - Officers	1,45,15,903.00						2,50,98,631.00	
2	Salaries, Bonus & Pension - Staff	54,58,91,904.00						51,64,80,185.00	
3	Other Allowances - Officers & Staff	2,39,75,981.00						2,21,50,315.00	
4	Gratuity	4,49,83,633.00						5,58,82,324.00	
5	Leave Encashment	3,93,20,348.00						4,20,60,455.00	
6	Establishment Expenses	2,44,97,563.59			69,31,85,332.59			1,55,05,656.71	67,71,77,566.71
	TOTAL				69,31,85,332.59				67,71,77,566.71



SCHEDULE - 21 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC				
1	Administrative Expense		8,88,991.37	49,54,404.28
2	Advertisement Charges		49,14,897.20	40,82,523.25
3	Air Ticket Expenses		33,16,541.00	56,01,580.00
4	AMC Charges		1,39,65,213.87	1,65,93,215.89
5	Annual Membership Fee (ASTA/ESA/IPC/IOSTA/ITC Etc)		45,000.00	2,83,000.00
6	Audit Fee		-	22,01,585.00
7	Bank Charges		3,42,927.26	82,290.65
8	Basic Pay		13,41,40,260.00	14,12,44,621.00
9	Children's Educational Allowance		37,99,752.00	34,29,000.00
10	Complements/Gift Packs		26,73,585.13	44,94,035.84
11	Computer Stationary And Consumables		2,51,779.21	4,40,017.92
12	Computers Maintenance		39,573.72	1,08,719.34
13	Consultancy Charges		5,79,28,280.50	6,30,74,164.80
14	Electricity Charges - Spice Park		40,46,679.60	84,12,509.00
15	Electricity Charges Of Offices		2,28,05,777.20	1,87,47,987.11
16	Entertainment		-	82,562.00
17	EPF Gratuity		3,38,588.00	5,58,049.00
18	Fuel Charge		26,70,182.18	32,29,320.99
19	Honararium		1,36,960.00	1,33,376.00
20	House Keeping / Sweeping charges		14,79,826.04	12,33,502.10
21	Insurance Charges		3,66,375.00	2,95,690.00
22	Internet Charges		27,93,363.00	26,02,843.71
23	Leave Salary Contribution		-	12,96,113.00
24	Library-Subscription		-	95,098.00
25	License Fee		3,66,866.00	27,422.00
26	Loading/Unloading Charges		400.00	1,070.00
27	Local Conveyance expenses		4,05,360.00	7,88,380.30



28	Local Conveyance-Auto & Taxi - Recoupment	52,02,434.48	25,23,302.00
29	Medical Reimbursement - Staff	25,73,125.00	53,54,135.00
30	Miscellaneous Expenses	1,76,645.34	9,92,622.39
31	Network,Web Site Creation & Maintenance	2,17,175.00	47,758.00
32	Newspaper Reimbursement To Staff	10,61,240.34	3,07,100.00
33	Office Consumables	11,569.14	44,261.66
34	Office Expense	4,434.00	33,564.00
35	Office Hospitality	-	24,994.00
36	Office Rent	1,14,86,710.28	1,23,31,068.00
37	Official Language	73,774.00	2,33,027.42
38	Photocopy Charges	8,257.72	4,382.00
39	Postage Charge	21,39,080.17	15,08,644.15
40	Purchase Of Electrical Items	40,866.66	1,71,408.27
41	Purchase Of Spice Samples	1,160.00	2,390.00
42	Refreshment	2,72,072.50	1,67,238.00
43	Reimbursement of CRES	-	22,500.00
44	Reimbursement Of Medical Claim - Staff - OP	-	5,42,139.00
45	Reimbursement of Telephone Charges - Staff	7,32,456.13	5,85,282.16
46	Repair & Maintenance Lab Equipments	52,51,213.35	29,35,356.81
47	Repairs & Maintenance Computer	1,19,459.16	7,070.00
48	Repairs & Maintenance Electrical	1,52,97,462.81	66,66,064.87
49	Repairs & Maintenance General	23,58,113.26	5,91,657.86
50	Repairs & Maintenance Of Plant & Machinery	28,43,681.03	13,15,900.00
51	Repairs & Maintenances of Vehicle	5,55,743.90	9,03,322.05
52	Repairs And Maintenance of Building	36,12,028.98	29,26,181.17
53	Repairs Furniture & Fittings	1,39,385.91	49,207.00
54	Retirement-Settlement TA	-	4,42,550.00
55	Salary Arrear	-	8,172.00



56	Stall Duty Allowance		21,600.00		44,000.00	
57	Stationary purchase expenses		-		1,85,416.43	
58	Subscription To Newspapers - Recoupment		-		3,14,687.00	
59	Swacha Action Expenses		48,91,339.52		33,00,921.36	
60	Telephone charges		10,85,566.51		9,71,595.44	
61	Trainees Hostel Expenses		-		32,805.49	
62	Transfer TA		-		26,86,731.00	
63	Transport Allowance		1,50,62,572.00		1,33,20,357.00	
64	Travelling Expense Outsourced		2,74,173.00		1,36,891.00	
65	Travelling Expenses Of Staff		1,04,34,868.11		91,95,833.64	
66	W.I.P. Boards Share ASIDE Schemes		-		2,74,346.00	
67	Wages		-		800.00	
68	Waste Disposal Charges		28,845.00		100.00	
69	Watch & Ward		24,693.00		81,404.00	
70	Water / drinking water charges		10,73,034.00		8,96,621.99	
71	Other Regrouped Expenses		-	34,47,91,958.58	-	
	TOTAL			34,47,91,958.58	35,62,76,889.34	
SCHEDULE - 22 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC						
1	Brand Promotion		-		33,34,000.00	
2	Expenditure for Domestic Fairs		1,95,36,684.43		2,21,66,087.00	
3	Expenditure For International Fairs		7,97,90,834.00		2,43,81,507.00	
4	QC Lab Accreditation Charges		11,73,432.62		5,15,126.00	
5	Bioagent Production		1,05,787.11		2,36,379.46	
6	Codex Expenditure		8,98,494.00		1,50,38,168.00	
7	Research Studies		1,48,004.58		3,62,675.00	
8	Sampling Stuffing Charges		2,65,07,985.65		1,65,87,796.70	
9	Subsidy For Various Beneficiaries		22,09,27,057.02		23,73,06,939.28	
10	Grant In Aid		-		16,10,394.00	



11	Labour Wages -Nurseries & Farms	1,20,45,436.36	1,24,19,367.00	
12	Labour Welfare Expenses-Farm/Nursery	1,54,086.15	1,52,110.00	
13	Trainees Stipend - General	1,01,69,833.00	60,67,963.69	
14	Trainees Stipend - SC	3,40,08,392.00	3,77,68,627.00	
15	Trainees Stipend - ST	43,03,550.00	34,03,588.00	
16	Training HRD	22,37,364.08	8,53,087.00	
17	Meeting And Seminar Expenses	1,64,27,361.59	50,53,023.43	
18	Agri Meteorology	16,742.00	28,430.00	
19	Buyer Seller Meet	49,01,404.61	96,06,010.36	
20	Entrepreneurship Development Programs	-	2,04,760.00	
21	Ex Gratia	3,24,181.00	8,82,368.00	
22	Exgratia/Bonus Etc. To Labourers	5,37,113.00		
23	Food Safety Training & Market Linkage	57,25,266.00		
24	Mission Clean Spices	1,68,711.00		
25	Farm Development Expenses	18,62,589.12	16,00,939.35	
26	Fertilizers And Manure	2,15,277.52	6,20,449.07	
27	Irrigation Instrument	8,255.53	9,731.94	
28	Pesticides And Fungicides	91,992.65	11,503.00	
29	Weather Protective Charges	5,900.00	25,456.00	
30	PTP/ILC Program	7,37,268.64	60,950.00	
31	Assistance to Research Institution/Exporter	66,65,661.00	17,53,689.00	
32	Chemicals & Other Lab Materials	4,81,70,569.47	2,59,93,323.22	
33	Cost Of Seeds & Nursery inputs	10,34,847.37	5,83,354.25	
34	QJTP	22,32,151.00	28,60,481.64	
35	Lab Expenses Other Than Capital	41,40,759.01	70,63,626.82	
36	Spices Producer's society	-	-	43,85,61,911.21
TOTAL		50,52,72,991.51	43,85,61,911.21	



SCHEDULE - 23 - FINANCE CHARGES											
1	On Fixed Loans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	On Other Loans (Including Bank Charges)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Others (Specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL											
SCHEDULE - 24 - DEPRECIATION											
1	Depreciation - Land (Lease Amortisation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Depreciation - Softwares	10,62,797.00								5,91,063.00	
3	Depreciation - Buildings	10,36,26,324.00								11,43,94,304.00	
4	Depreciation - Vehicles	2,24,948.00								2,64,644.00	
5	Depreciation - Irrigation & PP Equipments	3,83,490.00								4,51,165.00	
6	Depreciation - Computer Hardware	62,88,906.00								82,98,251.00	
7	Depreciation - Farm/ Curing House	1,825.00								4,055.00	
8	Depreciation - Reference & Library Books	11,846.00								19,744.00	
9	Depreciation - Plant & Machinery	1,00,61,778.00								1,09,32,314.00	
10	Depreciation - Water Supply Instruments	1,415.00								1,664.00	
11	Depreciation - Furniture & Fixtures	22,27,124.00								23,41,798.00	
12	Depreciation - Lab Equipments	2,66,87,037.00								2,52,40,900.00	16,25,39,902.00
TOTAL											
15,05,77,490.00											
SCHEDULE - 25 - PRIOR PERIOD ITEMS											
1	Prior period adjustments - Income/ (Exp.)	2,69,39,319.20								3,17,17,406.00	3,17,17,406.00
TOTAL											
2,69,39,319.20											
3,17,17,406.00											



SPICES BOARD, COCHIN - 682 025
SCHEDULES FORMING PART OF THE RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT AS AT 31-03-2025

Particulars	Amount (in Rupees)	
	Current Year 2024-25	Previous Year 2023-24
SCHEDULE - 26 -GRANTS FROM GOVT. OF INDIA - PLAN		
Income - Release From Govt- Subsidies- Tribal Sub Plan(TSP)	4,22,00,000.00	4,22,00,000.00
Income - Release From Govt. - Grant for creation of capital assets Other Expenditure	1,00,00,000.00	47,50,000.00
Income - Release From Govt. - Grant-In-Aid-General	28,06,00,000.00	4,99,00,000.00
Income - Release From Govt. - Subsidies-Other Expenditure	42,00,00,000.00	31,99,00,000.00
Income - Release From Govt. -Grant-In-Aid General-Other Expenditure	18,47,00,000.00	34,37,00,000.00
Income - Release From Govt.- Grant-In-Aid -Salaries	23,00,00,000.00	26,70,00,000.00
Income - Release From Govt. -Grant-in-aid-General NE	4,49,00,000.00	2,98,50,000.00
Income - Release From Govt. -Grant-In-Aid-Swachhta Action Plan(SAP)	1,00,00,000.00	1,00,00,000.00
Income - Release From Govt. Under Plan - Subsidies-NE	3,99,00,000.00	4,49,00,000.00
Income - Release From Govt.-Grants for creation of capital assets -NE	1,00,000.00	-
Income - Release From Govt-Grant In Aid- General SC	1,27,00,000.00	1,28,00,000.00
Income - Release From Govt-Grant In Aid -General Tribal Sub Plan(TSP)	1,27,00,000.00	1,28,00,000.00
Income - Release From Govt-Subsidies-SC	1,22,00,000.00	1,72,00,000.00
TOTAL	1,30,00,00,000.00	1,15,50,00,000.00
SCHEDULE-27 GRANTS RECEIVED FROM OTHER AGENCIES (REVENUE)		
ICAR-AICRPS	21,31,200.00	14,18,924.49
DUS Test Centre	75,000.00	1,00,000.00
WTO STDF		64,75,770.00
	22,06,200.00	79,94,694.49
TOTAL	22,06,200.00	79,94,694.49
SCHEDULE - 28-GRANTS RECEIVED FROM OTHER AGENCIES (EARMARKED FUND)		
Quality Standards in export of spices	2,00,00,000.00	2,00,00,000.00
Infrastructure of spice park	1,07,43,583.00	62,99,915.00
Pension Liabilities	10,00,00,000.00	10,00,00,000.00
	13,07,43,583.00	12,62,99,915.00
TOTAL	13,07,43,583.00	12,62,99,915.00



SCHEDULE - 29-INCOME INVESTMENTS EARMARKED FUNDS					
Interest on short term deposits - Pension	12,62,68,949.00	12,62,68,949.00	7,14,59,029.00	7,14,59,029.00	7,14,59,029.00
TOTAL		12,62,68,949.00			7,14,59,029.00
SCHEDULE-30-INTEREST FROM SAVING BANK					
Income - Interest From Savings Bank	10,64,907.00	10,64,907.00	18,18,432.00	18,18,432.00	18,18,432.00
TOTAL		10,64,907.00			18,18,432.00
SCHEDULE-31-INTEREST ON SHORT TERM DEPOSITS					
Income - Interest On Short Term Deposits - General	7,64,57,417.00	7,64,57,417.00	6,27,99,007.00	6,27,99,007.00	6,27,99,007.00
TOTAL		7,64,57,417.00			6,27,99,007.00
SCHEDULE -32- INCOME FROM SALES/SERVICES					
Income - Analytical Charges	19,24,79,264.04		20,08,35,503.00		
Income - Appeal Fee for Sample Analysis	3,66,000.00		18,000.00		
Income - Health Certificate	4,19,59,000.00		36,73,502.00		
Income - Processing Fee for Schemes	10,32,130.51		18,06,021.00		
Income - Receipt - Cardamom Seedlings	29,10,801.00		9,14,410.00		
Income - Receipt - Pepper Cuttings	21,90,820.00		13,47,716.00		
Income - Receipt-Bioagent	9,77,103.00		5,84,883.00		
Income - Receipt-Cardamom sales	11,57,587.60		4,87,389.00		
Income - Receipt-Other Farm Produces	6,10,343.00		4,13,790.00		
Income - Receipt-Pepper sales	27,788.00		2,96,567.00		
Income - Application Fee for Empanelled Lab	6,15,000.00		-		
Income - Inspection Fee	10,000.00		-		
Income - Sale Of Scrap/Unused Articles	-		7,67,028.00		
Income - Training Fee	3,35,000.00	24,46,70,837.15	5,27,450.00	21,16,72,259.00	
TOTAL		24,46,70,837.15			21,16,72,259.00
SCHEDULE -33-FEES/SUBSCRIPTION					
CRES	3,91,53,172.65		3,39,03,293.00		
Dealers Licence Fee	15,26,355.93		64,60,042.00		



Participation Fee For Exporters	1,22,85,000.00		47,30,294.00	
Subscription fees	1,000.00		-	
Receipt User Fee		5,29,65,528.58	1,33,21,036.00	5,84,14,665.00
TOTAL		5,29,65,528.58		5,84,14,665.00
SCHEDULE -34-OTHER RECEIPTS				
Income - Advertisement Fee	1,30,000.00		38,000.00	
Income - Development Fee	-		5,00,000.00	
Income - Guest Room Rent	2,17,905.00		3,44,550.00	
Income - Lease	-		-	
Income - Miscellaneous Income	2,46,524.86		2,32,067.00	
Income - Other Receipts	8,82,46,995.98		9,87,00,608.00	
Income - Rent Received	27,29,784.40		66,94,054.00	
Income - Subscriptions	34,080.00		27,327.00	
Income - Sale Of Scrap/Unused Articles	8,54,583.14	9,24,59,873.38		10,65,36,606.00
TOTAL		9,24,59,873.38		10,65,36,606.00
SCHEDULE-35-LOAN REPAYMENTS				
Special Advance			30,370.00	
TOTAL				30,370.00
SCHEDULE-36-RECEIPTS - SPICE EXCHANGE INDIA				
Receipt User Fee E Auction	1,52,71,275.41	1,52,71,275.41	22,40,500.00	22,40,500.00
TOTAL		1,52,71,275.41		22,40,500.00
SCHEDULE-37-SPECIAL ADVANCE				
Special Advance			1,92,782.00	
Permenant Advance / Office Imprests			41,843.00	
TOTAL				2,34,625.00
TOTAL				2,34,625.00



SCHEDULE-38-DEPOSIT FROM OUTSIDE PARTIES								
Deposit from Outside Parties			-	20,00,229.00				20,00,229.00
TOTAL			-					20,00,229.00
SCHEDULE-39-RECOVERIES AWAITING REMITTANCE								
Recoveries Awaiting Remittance	4,58,41,480.00		4,58,41,480.00	17,86,48,808.11				17,86,48,808.11
TOTAL			4,58,41,480.00					17,86,48,808.11
SCHEDULE-40-ADVANCE/DEPOSITS/RECOVERIES								
Travel Advance								-
LTC Advance								-
Medical Advance								-
TOTAL			-					-
SCHEDULE -41-ESTABLISHMENT EXPENSES								
Personnel Cost Salary Officers	22,57,07,189.00			24,50,88,060.00				
Personnel Cost-Retirement Benefits Officers	27,19,41,573.00			15,93,60,295.00				
Personnel Cost - Other Expenses			-	2,17,01,931.00				
Establishment Expenses	35,31,029.17		50,11,79,791.17	82,67,851.50				43,44,18,137.50
TOTAL			50,11,79,791.17					43,44,18,137.50
SCHEDULE-42-ADMINISTRATIVE EXPENSE								
Canteen Expenses	36,044.81			1,19,942.06				
Entertainment			-	46,220.00				
EPF Gratuity	3,38,588.00			1,39,773.00				
Establishment Expenses				48,29,876.46				
Ex Gratia			-	4,51,676.00				
Gratuity	1,27,90,683.00			2,14,39,104.00				
Honararium	1,13,960.00			43,276.00				
L.T.C Expenditure	24,95,523.00			17,21,160.00				
Leave Encashment	77,21,337.00			1,05,77,906.00				
Leave Salary Contribution			-	12,96,113.00				



Medical Reimbursement	25,83,125.00	50,62,632.00
Newspaper Reimbursement To Staff	4,04,467.00	2,75,990.00
Pension Contribution	-	27,19,295.00
Retirement	-	4,42,550.00
Staff Welfare Expenses	92,174.00	3,44,587.56
Trainees Hostel Expenses	-	32,805.49
Trainees Stipend	40,64,140.00	51,23,814.00
Training HRD	2,04,523.88	2,36,617.00
Transfer TA	-	27,45,851.00
Transport Allowance	-	12,000.00
PLI	-	2,65,230.00
Professional Tax	-	2,96,200.00
Adminstration Costs & Advertisement Charges	10,41,137.37	3,59,00,875.28
Other Charges Capital	-	3,24,20,524.00
Office Expense	4,434.00	5,92,52,053.87
Other administration expenses	11,18,843.00	1,97,95,313.83
Rent Paid	-	1,22,98,768.00
Audit Fees	-	22,01,585.00
Consultancy Charges	6,02,41,645.50	5,79,83,267.33
Repair and maintenance	1,78,95,423.49	68,32,430.24
Agri Meteorology	1,375.00	
Air Ticket Expenses	33,16,541.00	
AMC Charges	72,06,376.42	
Annual Membership Fee	45,000.00	
Bank Charges	3,42,927.26	
Children's Educational Allowance	86,064.00	
Complements/Gift Packs	26,73,585.13	
Computer Stationary And Consumables	2,51,779.21	



Computers Maintenance		39,573.72	
Electricity Charges - Offices		2,25,32,026.20	
Electricity Charges - Spice Park		33,15,975.00	
Farm Development Expenses		2,780.00	
Fuel Charge		26,65,029.18	
Garden & Campus Maintenance Expenses		1,33,373.50	
House Keeping / Sweeping charges		14,79,826.04	
Insurance Charges		3,66,375.00	
Internet Charges		27,80,408.00	
Legal Expenses		13,58,456.00	
License Fee		3,66,866.00	
Local Conveyance expenses		3,80,072.00	
Local Conveyance-Auto & Taxi - Recoupment		49,06,063.48	
Meeting And Seminar Expenses		52,86,291.14	
Miscellaneous Expenses		1,72,015.34	
Office Consumables		11,569.14	
Office Rent		1,25,02,384.28	
Official Language		73,774.00	
Photocopy Charges		8,257.72	
Postage Charge		8,50,505.31	
Printing & Stationary Expense		10,32,611.18	
Purchase Of Electrical Items		40,866.66	
Rates And Taxes		3,12,46,780.00	
Refreshment		2,72,072.50	
Reimbursement of Telephone Charges - Staff		7,32,456.13	
Security Guard expenses		22,896.00	
Stall Duty Allowance		21,600.00	
Subscription To Newspapers		3,03,118.34	



Subscription To Publications	57,915.00					
Swatcha Action Expenses	49,01,240.52					
Telephone Charges	10,85,566.51					
Travelling Expenses	1,04,30,868.11			33,76,611.00		28,82,84,047.12
TOTAL		23,44,49,309.07	23,44,49,309.07			28,82,84,047.12
SCHEDULE-43-EXPORT ORIENTED PRODUCTION						
Subsidy For Various Beneficiaries				20,35,28,063.30		
GST Payment				5,73,384.80		
Consultancy Charges				3,96,165.00		
Local Conveyance Auto & Taxi Recoupment				19,03,338.00		
Meeting And Seminar Expenses				4,00,566.00		
Round Off				185.00		
Trainees Stipend General				8,53,765.00		
Trainees Stipend - SC				58,21,785.00		
Trainees Stipend - ST				32,07,217.00		
Expense Training HRD				2,82,770.00		
Expense Cost Of Seeds & Nursery inputs				2,05,127.21		
Expense EPF Gratuity				50,110.00		
Pay in the Pay Band						
Other Expenses			-			21,72,22,476.31
TOTAL			-			21,72,22,476.31
SCHEDULE-43(i) IMPROVING PRODUCTIVITY OF CARDAMOM						
Cost of Seeds & Nursery inputs	10,10,795.00					
Ex Gratia	3,16,038.00					
Exgratia/Bonus Etc. To Labourers	1,86,960.00					
Farm Development Expenses	5,13,204.00					
Fertilizers And Manure Nurseries & Farms	27,740.00					



IGST Input Tax	21,935.70			
Labour Wages	35,38,030.00			
Pesticides And Fungicides	40,523.00			
Subsidy For Various Beneficiaries	9,74,94,128.00	10,31,49,353.70		
Total		10,31,49,353.70		
SCHEDULE-43(ii) POST HARVEST QUALITY UPGRADATION OF SPICES				
Assistance to Research Institution/Exporter	2,25,107.00			
Harvest Machines Expenses	2,36,32,250.00			
Subsidy For Various Beneficiaries	7,94,27,576.52			
Trophies And Awards	15,27,560.00			
Trainees Stipend General	35,500.00			
Trainees Stipend SC	70,32,124.00			
Trainees Stipend ST	26,55,691.00			
Training HRD	11,83,707.00			
		11,57,19,515.52		
TOTAL		11,57,19,515.52		
SCHEDULE-44-EXPORT DEVELOPMENT AND PROMOTION				
Subsidy For Various Beneficiaries			4,04,03,790.00	
Grant In Aid			16,10,394.00	
Expenditure For International Fairs			2,27,24,570.00	
Assistance to Research Institution/Exporter			16,95,189.00	
GST Payment			93,25,352.03	
Spice Park			15,52,329.00	
Repairs & Maintenance Electrical			8,07,581.00	
Repairs And Maintenance of Building			5,16,071.00	
Advertisement Charges			36,93,603.25	
Air Ticket Expenses			23,30,658.00	
AMC Charges			3,21,871.00	



Annual Membership Fee (ASTA/ESA/IPC/IOSTA/ITC Etc)					33,000.00
Brand Promotion Expenses					33,34,000.00
Buyer Seller Meet					87,71,314.06
Complements/Gift Packs					44,94,035.84
Consultancy Charges					31,18,010.47
Entrepreneurship Development Programs					1,16,910.00
Expenditure for Domestic Fairs					2,00,40,181.00
Honararium					80,500.00
Legal Expenses					2,89,810.00
Local Conveyance Auto & Taxi Recoupment					1,98,563.00
Meeting And Seminar Expenses					15,94,793.22
Postage Charge					8,10,013.00
Printing & Stationary Expense					49,28,722.85
Recognized Labs Testing Charges					1,54,000.00
Reimbursement of CRES					22,500.00
Repairs & Maintenance Electrical					20,000.00
Repairs And Maintenance of Building					1,55,456.00
Round Off					1.50
Sampling Stuffing Charges					1,47,74,646.00
Stall Duty Allowance					44,000.00
Trainees Stipend General					13,09,306.00
Trainees Stipend SC					60,80,701.00
Other Expenses					-
TOTAL					15,53,51,872.22
SCHEDULE-44(i) QUALITY IMPROVEMENT					
GST Payment			44,29,693.14		1,27,20,812.71
Air Ticket Expenses			-		46,998.00
AMC Charges			35,10,856.39		79,64,497.89



Chemicals & Other Lab Materials	4,86,40,701.47		2,59,93,323.22
Codex Expenditure	6,35,884.00		1,00,47,912.00
Lab Expenses Other Than Capital	33,62,809.27		25,66,380.78
Miscellaneous Expenses	-		52,325.00
PTP/ILC Program	7,37,048.64		60,950.00
QC Lab Accreditation Charges	7,06,485.00		4,24,980.00
Lab Equipments	2,76,77,288.00		
Repair & Maintenance Lab Equipments	29,28,073.39		
Recognized Labs Testing Charges			2,81,00,512.00
Repair & Maintenance Lab Equipments	20,24,722.52		29,35,356.81
Repairs & Maintenance Of Plant & Machinery	-		11,05,389.00
Repairs And Maintenance of Building	-		2,19,584.60
Round Off	-		6.79
Trainees Stipend General	-		14,57,577.69
Trainees Stipend SC	96,52,901.00		1,80,91,249.00
Trainees Stipend ST	1,58,043.00		
Transfer TA		10,44,64,505.82	
TOTAL		10,44,64,505.82	11,17,87,855.49
SCHEDULE-44(ii) ENHANCING CAPACITIES FOR MARKET EXPANSION			
GST Payment	50,40,525.67		
Advertisement Charges	21,65,391.00		
Consultancy Charges	6,67,025.00		
Meeting And Seminar Expenses	4,75,371.67		
Network, Web Site Creation & Maintenance	1,29,037.00		
Postage Charge	1,82,478.00		
Printing & Stationary Expense	12,58,505.00		
Sampling Stuffing Charges	72,10,045.75		
Trainees Stipend General	4,21,868.00		



Trainees Stipend SC	19,00,345.00		
AMC Charges	47,91,384.06		
CGST Input Tax	40,52,709.84		
IGST Input Tax	77,55,001.79		
SGST Input Tax	40,52,709.84		
Assistance to Research Institution/Exporter	37,40,554.00		
Consultancy Charges	1,38,600.00		
Fertilizers And Manure	3,000.00		
Garden & Campus Maintenance Expenses	57,034.00		
Miscellaneous Expenses	4,630.00		
Postage Charge	10,86,614.46		
Repairs & Maintenance Electrical	53,68,607.00		
Repairs & Maintenance General	13,44,700.00		
Sampling Stuffing Charges	2,34,62,616.90		
Subscription To Publications	2,95,740.00		
Subsidy For Various Beneficiaries	1,41,12,040.50		
Trainees Stipend General	4,50,209.00		
Trainees Stipend SC	1,14,34,328.00		
Trainees Stipend ST	5,37,732.00		
Training HRD	26,600.00	10,21,65,403.48	
TOTAL		10,21,65,403.48	
SCHEDULE-44(iii) TRADE PROMOTION			
Advertisement Charges	21,48,849.20		
Buyer Seller Meet	49,45,012.61		
CGST Input Tax	12,11,566.67		
Expenditure for Domestic Fairs	1,76,69,004.43		
Expenditure For International Fairs	7,78,99,195.00		
IGST Input Tax	58,23,815.06		



Meeting And Seminar Expenses	1,01,60,683.50		
Printing & Stationary Expense	29,16,992.80		
SGST Input Tax	12,11,566.67		
Subsidy For Various Beneficiaries	62,61,062.00	13,02,47,747.94	
TOTAL		13,02,47,747.94	
SCHEDULE-44(iv) TECHNOLOGICAL INTERVENTIONS			
AMC Charges	60,356.00		
Assistance to Research Institution/Exporter	20,00,000.00		
CGST Input Tax	3,873.33		
IGST Input Tax	9,369.00		
Network,Web Site Creation & Maintenance	85,505.00		
SGST Input Tax	3,873.33		
Trainees Stipend General	23,05,583.00	44,68,559.66	
TOTAL		44,68,559.66	
SCHEDULE-45-EXPORT ORIENTED RESEARCH - CARDAMOM			
GST Payment			31,474.22
Bioagent Production			48,173.00
Consultancy Charges			56,685.00
Cost Of Seeds & Nursery inputs			13,500.00
EPF Gratuity			3,68,166.00
Farm Development Expenses			30,525.00
Garden & Campus Maintenance Expenses			23,030.00
Irrigation Instrument			8,556.94
Lab Expenses Other Than Capital			1,42,898.68
Labour Wages Nurseries & Farms			3,72,129.00
Repairs & Maintenance Electrical			24,15,200.00
Trainees Stipend General			2,10,172.00



Trainees Stipend - SC				15,67,957.00	
Trainees Stipend - ST				11,72,855.00	
TOTAL				64,61,321.84	64,61,321.84
SCHEDULE-45(i) RESEARCH ON SMALL & LARGE CARDAMOM					
GST Payment			96,916.95		
Bioagent Production			92,572.61		
Farm Development Expenses			6,53,367.54		
Garden & Campus Maintenance Expenses			73,185.00		
Lab Expenses Other Than Capital			3,19,255.26		
Labour Wages Nurseries & Farms			39,98,569.00		
Labour Welfare Expenses Farm/Nursery			89,761.15		
Meeting And Seminar Expenses			2,37,856.44		
Research Studies			78,696.00		
Trainees Stipend General			14,11,738.00		
Trainees Stipend - SC			27,14,324.00		
Trainees Stipend - ST			6,19,485.00		
fertilizers and manure			1,37,727.86		
Agri Meteorology			15,367.00		
Asset			75,89,500.00		
Assistance to Research Institution/Exporter			7,00,000.00		
Bioagent Production			13,214.50		
CGST Input Tax			24,271.25		
Cost Of Seeds & Nursery inputs			54,482.37		
Ex Gratia			8,143.00		
Exgratia/Bonus Etc. To Labourers			3,50,153.00		
Farm Development Expenses			6,93,237.58		
Fertilizers And Manure			46,809.66		



Garden & Campus Maintenance Expenses	21,390.00			
IGST Input Tax	33,500.45			
Irrigation Instrument	8,255.53			
Lab Expenses Other Than Capital	4,62,472.48			
Labour Wages	38,79,130.36			
Labour Welfare Expenses	64,325.00			
Meeting And Seminar Expenses	8,08,123.84			
Pesticides And Fungicides	50,809.65			
Research Studies	69,308.58			
SGST Input Tax	24,271.25			
Trainees Stipend	41,83,648.00			
Weather Protective Charges	600.00			
		2,96,24,468.31		
TOTAL		2,96,24,468.31		
SCHEDULE-46-HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AND WORKS				
GST Payment	-		3,143.00	
Meeting And Seminar Expenses	-		6,62,563.84	
QITP	-		16,98,944.00	
Maintenace Expenses	-			
Trainees Stipend - SC	-		2,44,421.00	
Training HRD	-		3,31,300.00	29,40,371.84
TOTAL		-	-	29,40,371.84
SCHEDULE-46(j) CAPACITY BUILDING & SKILL DEVELOPMENT				
CGST Input Tax	17,818.22			
Food Safety Training & Market Linkage	57,07,428.00			
IGST Input Tax	23,400.00			
Meeting And Seminar Expenses	8,300.00			
Mission Clean Spices	1,68,711.00			



QITP		22,40,321.00				
SGST Input Tax		17,818.22				
Training HRD		7,32,533.20	89,16,329.64			
TOTAL			89,16,329.64			
SCHEDULE-47-EXTERNALLY FUNDED / ASIDE SCHEMES						
ASIDE - Guna Capital						
ASIDE - Ties Sikkim		98,47,716.00			12,74,00,000.00	
Assessment of Polysulphate					3,83,574.96	
NABARD Sikkim		94,376.00				
RKVY Andhra Pradesh		5,93,200.00				
MEA Myanmar Large Cardamom		2,62,028.00				
Bayer Project		3,03,423.00			6,40,933.72	
E - Spices Project Ministry Of IT					1,01,08,131.65	
Women Scientist Scheme		3,363.66				
Ginger Project Bastar		1,76,750.00				
Evaluation of Flupyrimin		4,33,916.89			16,436.42	
Infrastructure for Spice Park					11,62,460.00	
Integrated Project on Black Pepper T		4,00,000.00			20,859.00	
Evaluation of Nano Fertilizers		1,70,127.00			75,004.72	
Evaluation of Spinetoram		11,70,970.16			10,70,485.01	
MIDH Integrated Project On Turmeric refund		28,30,000.00			27,04,223.00	
Quality Standard In Export Of Spices					1,20,51,038.00	
Study on Evaluation of Hunk (Rallies)					345.00	
Syngenta Fungicide Sakleshpur		3,85,267.53			60,484.00	
WTO STDF		30,28,697.00			58,04,266.00	
SHM Kerala Project-ICRI		71,41,516.29			1,30,47,633.00	
Evaluation of Spinetoram - Capital			2,68,41,351.53			17,45,45,874.48
TOTAL			2,68,41,351.53			17,45,45,874.48



SCHEDULE-48-EXPENSES - SPICE EXCHANGE INDIA				
Consultancy Charges				10,16,400.00
TOTAL				10,16,400.00
SCHEDULE-49-ADVANCES / DEPOSIT WITH OUTSIDE PARTIES				
EMD and Security Deposit From Parties	1,49,500.00		1,49,500.00	20,00,229.00
TOTAL			1,49,500.00	20,00,229.00
SCHEDULE-50-RECOVERIES AWAITING REMITTANCE				
Recoveries Awaiting Remittance	10,59,32,521.49		10,59,32,521.49	20,86,54,848.88
TOTAL			10,59,32,521.49	20,86,54,848.88
SCHEDULE-51-CURRENT LIABILITES PAYABLE				
Group Insurance claim payable	13,33,100.00			25,27,124.00
Group Insurance Payable	18,86,760.00			19,73,160.00
LIC Payable	25,63,164.00			25,77,089.00
CPF Payable	3,16,60,752.00			2,95,81,736.00
Other Payable	3,51,88,934.76			
Retirement Benefits Payable				1,40,37,145.00
EPF Payable	15,68,453.00			16,10,240.00
Society Payable	20,61,735.00			1,95,57,580.00
Pension commutation	1,12,21,914.00		8,74,84,812.76	1,66,90,077.00
TOTAL			8,74,84,812.76	8,85,54,151.00
SCHEDULE-52-ADVANCE TO STAFF BEARING INTEREST				
Computer Advance				57,020.00
TOTAL				57,020.00



SCHEDULE-53-ADVANCE TO STAFF NOT BEARING INTEREST							
Travel Advance	-					20,216.00	
LTC Advance	-					79,150.00	
Medical Advance	-					1,77,079.00	
							2,76,445.00
TOTAL							2,76,445.00
SCHEDULE-54-CLOSING BANK BALANCE							
Asset - Bank Acc DO Agarthala : Indian Bank - 7695749810		5,642.00				5,000.00	
Asset - Bank Acc DO Aizawl : SBI - 34329142419		11,409.20				11,446.20	
Asset - Bank Acc DO Hyderabad : C B I Account - 3626434493		53,083.18				99,057.18	
Asset - Bank Acc DO Itanagar : SBI - 30809004797		2,000.00				2,000.00	
Asset - Bank Acc DO Kalimpong : S B I Account - 30982126228		10,000.00				9,999.94	
Asset - Bank Acc DO Madikeri : SBI - 57046308408		10,000.00				15,000.00	
Asset - Bank Acc DO Mangan : SBI - 11714364569		1,000.00				918.00	
Asset - Bank Acc DO Nedumkandam : U B I Account - 455101010050062		5,118.00				5,000.00	
Asset - Bank Acc DO Puttady : UBI - 336901010029049		1,76,258.00				12,735.87	
Asset - Bank Acc DO Rae Bareli : U B I Account - 693701010050175		10,000.00				10,000.00	
Asset - Bank Acc DO Rajakumari: U B I - 372201010034008		5,000.00				15,000.44	
Asset - Bank Acc DO Shimoga : SBI - 10624023356		10,000.00				14,999.72	
Asset - Bank Acc FAO Aigoor : SBI - 30675727570		10,000.00				10,000.00	
Asset - Bank Acc FAO Belagola : Karnataka - 5362500100373601		4,999.16				1,000.00	
Asset - Bank Acc FAO Belligeri : SBI - 37275563035		10,000.00				10,000.00	
Asset - Bank Acc FAO Bettadmane : SBI - 54026085338		1,000.00				1,000.00	
Asset - Bank Acc FAO Yeslur : CANARA - 0549201000519		997.00				991.00	
Asset - Bank Acc FO Adimali : UBI - 352501010033022		5,000.00				5,000.00	
Asset - Bank Acc FO Ahmedabad : SBI - 36694408081		15,000.02				10,000.02	
Asset - Bank Acc FO Battagundu : SBI - 38173387748		10,000.69				6,547.69	
Asset - Bank Acc FO Churachandpur : SBI - 30832209946		2,000.00				2,000.00	



Asset - Bank Acc FO Dimapur : UBI - 641301010050178	5,000.00	4,881.99
Asset - Bank Acc FO Elappara : SBI - 67090372678	5,000.00	5,000.00
Asset - Bank Acc FO Geyzing : UBI - 574401010050014	5,008.00	5,002.34
Asset - Bank Acc FO Kalpetta : SBI - 67092030564	10,000.05	10,000.05
Asset - Bank Acc FO Kattappana : SBI - 30851492807	10,000.00	10,000.00
Asset - Bank Acc FO Kohima : FDR - 19670200000437	5,000.00	4,998.00
Asset - Bank Acc FO Koppa : SBI - 64045273265	1,000.00	1,000.00
Asset - Bank Acc FO Koraput : SBI - 35755218737	2,000.00	1,999.00
Asset - Bank Acc FO Kumily : UBI - 553801010050080	10,494.68	10,494.68
Asset - Bank Acc FO Mudigere : SBI - 64076625928	1,000.00	1,000.00
Asset - Bank Acc FO Nagercoil : UBI - 336101010294351	4,997.34	4,797.91
Asset - Bank Acc FO Namsai : SBI - 35268836632	10,000.00	10,000.00
Asset - Bank Acc FO Paderu : UBI - 329201010750109	1,047.48	3,375.38
Asset - Bank Acc FO Pampadumpara : UBI - 455102010024638	1,000.00	1,000.00
Asset - Bank Acc FO Pasighat : CNRB - 40732010000043	5,000.00	5,013.00
Asset - Bank Acc FO Patna : SBI - 35161784785	18,000.14	18,000.14
Asset - Bank Acc FO Ponda : SBI - 40601690538	10,000.00	10,000.00
Asset - Bank Acc FO Rajakkad : UBI - 372302010015511	1,000.00	997.18
Asset - Bank Acc FO Roing : HDFC - 50200011008801	10,000.00	10,000.00
Asset - Bank Acc FO Santhanpara : UBI - 372202010010155	1,000.00	1,002.50
Asset - Bank Acc FO Shillong : SBI - 30324640112	3,000.00	3,000.00
Asset - Bank Acc FO Somwarpet : SBI - 41052532597	10,000.00	10,000.00
Asset - Bank Acc FO Udumbanchola : UBI - 423401100050000	5,000.00	5,000.00
Asset - Bank Acc FO Vanagur : BOB - 83130100002676	1,027.00	1,000.00
Asset - Bank Acc FO Ziro : SBI - 35134795813	5,000.13	5,000.13
Asset - Bank Acc HO: Axis Bank NPS Account-913020033724497	30,82,646.47	28,02,194.47
Asset - Bank Acc HO: Axis Bank CNA Account-922010030162903	9,77,396.25	2,27,478.25
Asset - Bank Acc HO: Bank Of Baroda CRES -37450200000222	3,72,26,239.90	2,15,45,603.69



Asset - Bank Acc HO: HDFC Current Account-50200062709730	26,25,856.00	3,26,346.00
Asset - Bank Acc HO: PNB Current Account-7176002100002239	8,38,68,896.28	2,69,89,702.31
Asset - Bank Acc HO: PNB Receipt Account-7176002100002354	2,10,19,649.64	1,83,44,437.59
Asset - Bank Acc HO: PNB Sample Testing Account-7176002100002345	77,345.05	98,45,344.66
Asset - Bank Acc HO: SBI Current Account-57067470909	25,52,085.99	46,92,209.99
Asset - Bank Acc HO: SBI Receipt Account- 41612063686	8,20,07,024.63	6,94,61,154.01
Asset - Bank Acc HO: Yes Bank 075988700000074	1,16,24,402.42	
Asset - Bank Acc ICRI Myladumpara: SBI-57050612514	68,25,401.99	63,26,908.07
Asset - Bank Acc ICRI Myladumpara: UBI - 455102010027092	26,586.99	29,170.65
Asset - Bank Acc ICRI Saklespur : SBI - 64039256044	13,43,448.12	16,14,928.49
Asset - Bank Acc ICRI Tadong : SBI - 10738827085	20,788.05	4,12,669.66
Asset - Bank Acc LO Haveri : SBI - 35570626186	10,000.00	10,000.00
Asset - Bank Acc QEL Kandla : AXIS - 915020058866482	-	2.02
Asset - Bank Acc QEL Narela : SBI - 62384074847	1,16,331.09	2,03,924.09
Asset - Bank Acc QEL/ RO Tuticorin : IOB- 014302000000596	2,42,000.00	1,590.01
Asset - Bank Acc RO Bangalore : SBI - 35087812026	9,985.86	9,999.95
Asset - Bank Acc RO Barabanki : SBI - 35077617935	10,000.00	10,000.00
Asset - Bank Acc RO Bodinayakanur : UBI - 335201010035105	1,29,157.29	16,126.50
Asset - Bank Acc RO Erode : SBI - 34922512679	5,000.00	5,000.84
Asset - Bank Acc RO Gangtok : SBI - 11018602438	10,000.00	10,000.00
Asset - Bank Acc RO Guna: SBI - 31698842249	10,000.00	10,000.00
Asset - Bank Acc RO Guntur: U B I - 409002010574263	6,924.09	1,000.71
Asset - Bank Acc RO Guwahati: U B I - 380601010029168	10,000.00	10,000.42
Asset - Bank Acc RO Jodhpur: SBI - 30936314772	5,000.00	1,05,000.00
Asset - Bank Acc RO Mumbai: SBI - 62037101256	4,65,412.88	1,34,109.99
Asset - Bank Acc RO New Delhi : INDIAN - 883075118	5,000.57	2,000.00
Asset - Bank Acc RO Nizamabad : SBI - 35628136521	9,997.64	9,999.86
Asset - Bank Acc RO Sakleshpur : SBI - 54030030186	5,000.00	10,000.00



Asset - Bank Acc RO Srinagar : SBI - 40581089910	15,905.08			53,511.08	
Asset - Bank Acc RO Unjha : IDBI- 0330102000005463	10,000.00			10,000.00	
Asset - Bank Acc RO Warangal: SBI - 62099220340	10,567.31			10,000.00	
Asset - Bank Acc RO/QEL Chennai : IOB - 179901000007770	3,45,788.28			5,544.90	
Asset - Bank Acc RO/QEL Kolkata : SBI - 38436383521	10,000.00			2,37,386.88	
Asset - Bank Acc SP Chhindwara : SBI - 30189351096	10,000.00			10,000.00	
Asset - Bank Acc SP Ramganjmandi, Kota : UBI - 723601010050158	8,000.70			4,991.63	
Asset - Bank Acc SP Sivaganga : IOB - 8402000002564	9,995.40	25,52,46,916.04		9,995.51	16,38,98,590.59
TOTAL		25,52,46,916.04			16,38,98,590.59
SCHEDULE-55-CLOSING BANK BALANCE (IN DEPOSIT ACCOUNTS)					
Asset - Short Term Deposit - General	1,33,30,54,155.00			1,11,74,88,575.00	
Asset - Short Term Deposit - Pension	1,55,05,67,985.00	2,88,36,22,140.00		1,32,43,04,741.00	2,44,17,93,316.00
TOTAL		2,88,36,22,140.00			2,44,17,93,316.00



SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS

SCHEDULE – 56 ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The Board generally follows the accrual basis of accounting in the preparation of the Income and Expenditure Account and Balance Sheet. However, certain items such as arrears of pay and dearness allowance (DA), leave encashment, retirement benefits, and other similar liabilities are recognized on a cash basis. Additionally, annual maintenance charges for laboratory and other office equipment are also accounted for on actual cash basis.

The financial statements have been prepared under the historical cost convention.

2. INVENTORY VALUATION

As per Accounting Standard-2, valuation of Inventories issued by the ICAI, Inventories are valued at cost or net realizable value whichever is lower. The closing stock of inventory as at 31.03.2025 is Rs. 2,52,72,972.75/- which include Cardamom, Coffee, Pepper and Chemicals.

3. INVESTMENTS

Investments are classified as "long term investments" and "current investments" wherever applicable. Long Term Investments are carried at cost. Current Investments are carried at lower of cost and fair value.

4. FIXED ASSETS

Fixed assets are stated at cost of acquisition or construction inclusive of inward freight, duties, taxes direct expenses and expenses related to acquisition.

5. DEPRECIATION

With effect from 01.04.2008 Board has charged depreciation on its fixed assets at the rates mentioned in the Income Tax Rules. Depreciation on all assets is provided on Written Down Value (WDV) method.

Depreciation on additions to assets put to use for less than 180 days during the year is provided at 50% of the applicable rates.

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transactions, complying with AS-11 issued by the ICAI.

7. REVENUE RECOGNITION

(a) Grant in aid and subsidies: The programmes of the Board under plan are financed through Grants-in-Aid and subsidies from the Govt. of India. These are accounted on receipt basis. This is made through the approval of the annual budget submitted by the Board, to the Government.

(b) Internal and Extra Budgetary Resources - Major source of the receipts are, analytical charges of spice samples, sale proceeds of farm produces, subscription received on magazines/periodicals, registration fees collected from exporters, auctioneers & dealers, development charges, user fee and lease rent received from Spice Parks etc.



8. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

8.1 Government grants and subsidies are accounted for on a realization basis.

8.2 Government grants are treated under both Capital approach and Income approach wherever applicable complying with AS-12 issued by ICAI.

9. RETIREMENT BENEFITS

The provision towards retirement benefits of employees' viz. Gratuity, Pension Commutation, Provision for Accumulated Leave Encashment benefits are made in the accounts as per Actuarial valuation done during the financial year 2021-22. The employee benefits as per valuation Report comes to Rs.348.72 crores, out of which the Board has already provided Rs. 300.55 Crore, till 31.03.2024. An amount of Rs.24.77 crore is provided for the FY 2024-25 as per the details given below:

1.Group Superannuation	- Rs. 19.07 crore
2.Group Gratuity	- Rs. 2.90 crore
3.Leave Encashment	- Rs. 2.80 crore

10. IMPAIRMENT OF ASSETS

As on the Balance Sheet date, the Board has assessed the recoverable value of Assets in line with the Accounting Standard 28 issued by ICAI. The carrying amount of the assets was reviewed to ascertain impairment loss, if any, as on Balance Sheet date. The amount recoverable against the assets is higher than the carrying amount of each of the assets as on the valuation date. As such Board has not provided for any impairment losses in the financial statements.

11. GENERAL PROVIDENT FUND

The accounts of the Board's General Provident Fund is shown under Schedule No 3.

SCHEDULE – 57 NOTES TO ACCOUNTS

1. EARMARKED FUND FOR MAINTENANCE OF QUALITY STANDARD IN EXPORT OF SPICES

The Board has already set up Quality Evaluation Labs (QEL) at Cochin, Mumbai, Guntur, Narela in Delhi, Tuticorin, Chennai, Kolkata and Kandla in Gujarat with the sole objective of maintaining quality standard in export of Spices. The Board collects Analytical Charges from exporters' and utilizes a part of the amount for quality up-gradation, harmonization of international standards in spices and for bench marking of our procedures with Global Standards. The Board is also engaged in export promotional activities including publicity, branding, marketing, highlighting the supreme quality of Indian Spices and Spice House Certification. In order to meet the objective, the Board has earmarked an amount of Rs.2 crore out of Analytical Charges received during the year 2024-2025.

2. EARMARKED FUND FOR MAINTENANCE OF INFRASTRUCTURE OF SPICE PARKS

The Board has already set up Spice Parks at Chhindwara and Guna in Madhya Pradesh, Puttady in Kerala, Jodhpur and Ramganjmandi (Kota) in Rajasthan, Sivagangai in Tamil Nadu, Guntur in Andhra Pradesh and Raibareli in Uttar Pradesh with the objective of providing common infrastructure facilities for both post-harvest and processing operation of spices close to the producing areas on par with international standards. The expenditure on setting up of Spice Parks referred to above is financed out



of both Plan Funds and assistance from ASIDE which will not be sufficient for the purpose. Substantial amount is required for the maintenance of Spice Parks as well. Hence income received from the functional Spice Parks in the form of development charge/lease amount and User Fee amounting to Rs. 1.07 crore has been earmarked for the completion/maintenance of Spice Parks.

3. EARMARKED FUND FOR SPICES BOARD EMPLOYEES' PENSION FUND

The Principal Director Commercial Audit (PDCA) observed the material impact of Rs.111.69 crore due to non- provision of liabilities in respect of employees by Spices Board towards pension, gratuity and leave encashment while considering the Audit Report of the Board for the year 2013 -14. Accordingly, the Board had to produce before the PDCA, a letter of Comfort from the Ministry to the effect that necessary provision for meeting the pensionary liabilities in respect of the retiring/retired employees will be made during the respective years as part of the approved budget of the Board as and when decided in consultation with the Department of Expenditure, Ministry of Finance.

In this circumstance, the Board considers it appropriate that a Pension Fund be set up for the employees to meet this objective. Accordingly, the Board had entrusted an agency to make an actuarial valuation of the Board's pensionary liabilities as on 31.03.2021 in this regard. The actuarial valuation as on 31.03.2021 was Rs.348.72 Crore (Rs.319.07 Crore for Pension, Rs.18.54 Crore for Gratuity and Rs.11.11 Crore for Leave Encashment)

In order to meet the Board's liability towards retirement benefits, out of Analytical Charges received by the Board for the year 2024-25, an amount of Rs.10 crore is earmarked for the year 2024-25 as done in the previous years towards Spices Board Employees' Pension Fund. This process will be continued till the required amount is generated or the same is received from the Ministry by way of Budgetary release or otherwise. The Earmarked amount so made has been deposited in Term Deposit with Nationalized Banks.

4. FUNDS RECEIVED FROM OUTSIDE AGENCIES

The funds received under Schemes of ASIDE/outside agencies are operated through a Nationalized Bank's account. The funds received under one scheme may not be sufficient for meeting the proposed expenditure of that scheme. Funds of the Board are utilized in these cases to meet the deficiency. The funding under ASIDE/outside agencies are for specific periods unlike the Plan/Non-plan funds released by the Government of India. As such, for practical conveniences the accounts of the Board funds and scheme funds are maintained together.

1. In Schedule-3, Endowment fund under TIES-Sikkim, Opening Balance as on 01.04.2023 is Rs.8.87 crore. The entire funds were transferred to CPWD Gangtok for the construction of Spice Complex at Sikkim. Balance fund of Rs.0.98 crores available, pertains to the interest earned for the investment of TIES fund. The same is refunded to consolidated fund of India during the current financial year and current balances NIL.

2. In Schedule-3, Endowment fund under SHM Kerala, Opening Balance as on 01.04.2023 is Rs.1.30 crores; out of which Rs.1.27 crores were paid to acquire GCMS-MS machine for the testing of Pesticides in Cardamom. This is not shown as Asset in the books of accounts of the Board, since the scheme is externally funded.

5. ADDITION TO FIXED ASSETS - PLAN FUND (TRANSFER TO CORPUS FUND)

The Grant received by the Board are general purpose Grants. The Grants are received for implementing various schemes/programmes of the Board. The Funds are also used for setting up or acquiring Fixed



Assets to provide infrastructure facilities to the farmers and exporters. The operating expenses of the Board are also met from these Funds. As the Grants are not specifically meant for acquisition of Fixed Assets, the deduction of the Grant amount from asset value or treating it as deferred revenue do not arise.

6. DEPOSITS MADE OUT OF EXTERNALLY FUNDED / ASIDE SCHEMES

Balance with banks in Deposit accounts as on 31-03-2025 as stated in the financial statements amounting to Rs.288.36 crores is inclusive of Deposits made out of Externally Funded / ASIDE schemes amounting to Rs.133.31 crores.

7. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Claims against the entity not acknowledged as debts Rs. Nil (Previous year Rs. Nil)

1.2 In respect of:

- Bank guarantees given by/on behalf of the entity Rs. Nil (Previous year Rs. Nil)
- Letters of Credit opened by Bank on behalf of the entity Rs. Nil (Previous year Rs. Nil)
- Bills discounted with banks Rs. Nil (Previous year Rs. Nil)

1.3 Disputed demands in respect of: Income tax Rs. Nil (Previous year Rs. Nil) Sales tax Rs. Nil (Previous year Rs. Nil) Municipal Taxes: Nil (Previous years Rs Nil)

1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity Rs. Nil (Previous Year Rs. Nil)

1.5 An Arbitration case is pending in Kolkatta High Court with Civcon construction (P) Ltd for 9.77 crores. But as per work order, only 0.65 crores is pending for settlement for the remaining work, if the contractor completes the work in prescribed time. Considering this, the claim by contractor is not justifiable and hence contingent liability is not provided for the huge amount as claimed by the contractor.

1.6. The Government of Rajasthan allotted land admeasuring 12.14 Ha for 99 years free of cost to the Board in Ramganjamadi, Kota District, Rajasthan free of cost for setting up of Spice Park, Kota. After allotment of the land, the District Collector during the year 2016 requested the Board to remit Rs. 1.33 Cr as the cost of the land. A court case is pending in this issue. If the court verdict is not favourable for the Board, the Board will have a contingent liability for payment of Rs. 1.33 Cr to the Government of Rajasthan.

1.7. As on 31.3.2025 the Board has collected Bank Guarantee amounting to Rs. 2.90 Cr from 4 Nos of exporters as security for the interest free loan disbursed to them under the Brand Promotion Scheme.

8. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. Nil (Previous year Nil)

9. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.



10. TAXATION

As the income of Spices Board is exempted under section 29A of the Income Tax Act 1961, no provision for Income tax has been considered necessary.

11.1 VALUE OF IMPORTS CALCULATED ON C.I.F. BASIS.

Particulars	Currency	
	USD	EURO
Purchase of finished Goods	Nil	Nil
Capital Goods	Nil	Nil
Stores, Spares and Consumables	471.45	3105.45
Others	Nil	Nil

11.2 EXPENDITURE IN FOREIGN CURRENCY

Particulars	Currency			
	USD	EURO	YEN	GBP
a Travel	15,600	Nil	Nil	Nil
b Remittances and Interest payment to Financial Institutions Banks in Foreign Currency	Nil	Nil	Nil	Nil
c Stall Rent on Trade Fair	111885	112095	19294000	43700
d Other expenditure				
Meetings and Seminar	Nil	Nil	Nil	Nil
Others	Nil	Nil	Nil	Nil
Commission on Sales	Nil	Nil	Nil	Nil
e Legal and Professional Expense	Nil	Nil	Nil	Nil

11.3 EARNINGS

Value of Exports on FOB basis Nil

11.4 REMUNERATION TO AUDITORS:

As Auditors

- Taxation matters	Nil
- For Management services	Nil
- Others	Nil

12. CAPITAL FUND

Balance of the fund as on 01.04.2024 was Rs. (-)1,76,21,90,375.75 . Entire source of fund was by way of allocation received from Central Government. Hence, the amount received during the year in the nature of capital receipts from Government towards the requirements of the Board has been shown as addition to the fund. Excess of expenses over income for the year was Rs. 2,78,95,163.45 which



has been reduced from the fund. Balance of fund as on 31-3-2025 is Rs. (-)1,79,00,85,539.20. Fund received during the year as grants for acquisition of fixed assets under Plan and Non-Plan, has not been considered as earmarked funds for specific usage since it is not a fund meant for any specific asset. Organization has not created any Capital Reserves, Revaluation Reserves and Special Reserve during the year. There is no General Reserve also.

13. OTHERS

The board has successfully implemented integrated accounting software developed by the National Informatics Centre (NIC) during the year. This implementation aims to streamline financial processes, enhance accuracy in accounting records, and improve overall efficiency in financial management. The software integration will facilitate real-time financial reporting, better compliance with regulatory requirements, and more effective internal controls. Additionally, it is expected to reduce manual errors and save time, allowing the board to focus on strategic financial planning and decision-making

Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever necessary.

Special advance pertaining to previous years are settled during the year. Net receipt of special advance is disclosed in the receipt side of Receipts and Payments Account for the year.

Schedules 1 to 57 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31-3-2025, The Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date.

(Sd.)
DIRECTOR (FINANCE)

(Sd.)
SECRETARY